





# चित्रशाला

[द्वितीय भाग]

संपादक  
श्रीदुलारेलाल भार्गव  
(सुधा-संपादक)

# उत्तमोत्तम ग्रंथ

रंगभूमि (दोनों भाग) ५), ६)	अवला १), १॥)
बहता हुआ फूल २॥), ३)	पतन १॥॥), २॥)
विजया १॥), २)	कर्मफल १॥॥), २॥)
हृदय की प्यास १॥), २)	पतिव्रता १।८), १॥॥=)
मा लगभग ३)	प्रबुद्ध यामुन १), १॥)
मिस्टर व्यास की कथा २॥), ३)	मदर-इंठिया का जवाब १=), १॥=)
नंदन-निर्कुंज ॥॥), १॥)	तूलिका १॥), १॥॥)
प्रेम-प्रसून १=), १॥=)	जब सूर्योदय होगा १), १॥)
प्रेम-गंगा १), १॥)	सुक्ति-मंदिर ॥॥=), १।=)
प्रेम-द्वादशी १॥), १॥॥)	जुम्कार तेजा ॥), १)
गिरिबाला १), १॥)	रसिरानी १॥॥), २॥)
विदा २॥), ३)	आहुति १), १॥)
विचित्र योगी १), १॥)	प्रेम-परीक्षा ॥॥=), १।=)
मंजरी १॥), १॥॥)	सौ अज्ञान और एक सुज्ञान १)
जासूस की डाली १॥), २)	विवाह-विज्ञापन १), १॥)
पवित्र पापी ३), ३॥)	अश्रुपात १), १॥)
सीधे पंडित १॥), २)	जयद्रथ-वध ॥॥=), १।=)
कमला-कुसुम ॥॥), १॥)	

सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता—

संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२३-२५, लाटूश रोड, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का श्रद्धानवेर्वा पुष्प

# चित्रशाला

[ द्वितीय भाग ]

[ कहानियों का संग्रह ]

लेखक

पं० विश्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक'

प्रकाशक

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

प्रकाशक और विक्रेता

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सन् १९५१] सं० ११८९ वि० [ सादी १ ]

प्रकाशक  
श्रीदुलारेलाल भार्गव  
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय.

लाखनऊ



मुद्रक  
श्रीदुलारेलाल भार्गव  
अध्यक्ष गंगा-फाइनआर्ट-प्रेस  
लाखनऊ

## दो शब्द

कोई २ वर्ष हुए हमने कौशिकजी की २२ सुंदर कहानियों का एक संग्रह गंगा-पुस्तकमाला में प्रकाशित किया था। वह हिंदी-भाषा-भाषियों को इतना पसंद आया कि हमें उसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। इसी से उदाहृत होकर हमने कौशिकजी की नवीन कहानियों में से सबसे अच्छी १० कहानियाँ चुनी हैं, और उन्हें चित्रशाला (द्वितीय भाग) के नाम से निकाल रहे हैं।

आशा है, गंगा-पुस्तकमाला के स्नेही इसे भी प्रथम भाग की तरह ही अपनाएँगे।

गंगा-प्राइवेट-प्रेस,  
लखनऊ, ८ जून, १९२६

} दुलारेलाल भार्गव





## विषय-सूची

	पृष्ठ
१. स्वतंत्रता ... ..	१
२. सुभार ... ..	१८
३. प्रेम का पापी ... ..	३२
४. परिष्याम ... ..	४३
५. संतोष-धन ... ..	७०
६. साध की होखी ... ..	६०
७. सभा कवि ... ..	१०२
८. पय-निर्देश ... ..	१२२
९. कर्तव्य-साधन ... ..	१४८
१०. ईश्वर का घर ... ..	१७०

---





# चित्रशाला

[ द्वितीय भाग ]

स्वतंत्रता

( १ )

एक दीर्घ निःश्वास लेकर सुखदेवप्रसाद ने कहा—क्या ब्राह्मण भाग्यवान् हूँ, मैं तो मनभक्ता हूँ कि मेरा भाग्य फूट गया !

सुखदेवप्रसाद के मित्र विहारीलाल ने कहा—धरें पार, क्यों ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनते हो ! ऐसी पत्नी यदि मुझे मिलती, तो मैं अपना जीवन सुफल समझता ।

सुखदेव०—जान बग़ाय में हो जाती, जीवन सुफल-फल ब्राह्मण न होता ।

विहारीलाल—धर तो हैं पागल ! चाहत हूँ, रहने हो । क्यों बराबर, हममें क्या ऐप है ! माना यह माने, तान्त्रिकियन यह बजाये, हिंदी यह भली भौति पर-जिपर लेती है, रीयंतों की हूँस तक भी पोंगयता रहमें है, उर्दू भी पोंगो-मरुत जानती है, सोने-चिंते में यह हकाल है—हममें कथिक स्वार और क्या चाहते हैं ! सुख-मदल में भी सिकदों में एक है । ईश्वर जाने हममें कथिक एक ही में और क्या होगा चाहिए ।

सुखदेव०—एह तक बँक है !

विहारीलाल—जग !

सुखदेव०—मगर तिम भी इसमें बनी है, और वह बहुत बनी बनी है ।

बिहारीलाल—क्या कमी है ?

सुखदेव०—वह कमी है बुद्धि की, समीप की ।

बिहारीलाल—जो स्त्री इतनी सुशिक्षित होगी, उसमें बुद्धि की कमी कैसे हो सकती है ?

सुखदेव०—क्या यह बात आपकी समझ में नहीं आती ?

बिहारीलाल—कदापि नहीं ।

सुखदेव०—क्या पढ़े-लिखे बेवकूफ नहीं होते ?

बिहारीलाल—अरे, यों तो किसी-न-किसी बात में प्रत्येक मनुष्य बेवकूफ होता ही है, चाहे पढ़ा-लिखा हो, चाहे मूर्ख ।

सुखदेव०—तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आ सकती ।

बिहारीलाल—समझ में तो तब आवे, जब कोई बात हो ।

सुखदेव०—मैं पागल तो हूँ नहीं, जो बिना बात ही बक रहा हूँ ।

बिहारीलाल—खैर, पागल तो मैं तुम्हें कह नहीं सकता ; परंतु इतना अवश्य है कि तुम्हें भ्रम है ।

सुखदेव०—खैर भई, भ्रम ही सही । तुमसे कुछ परामर्श, कुछ सहानुभूति पाने की इच्छा से मैंने तुम्हें अपना दुःख सुनाया ; तुम उलटे मुझी को उल्लू बनाने लगे । समय की बात है !

बिहारीलाल—समय क्या खाक है ? समय पड़े तुम्हारे दुश्मनों पर । यह सब तुम्हारी समझ का फेर है । मेरी पत्नी तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है । जब बात पड़ती है, तब यही कहती है कि सुखदेव बाबू की घरवाली हज़ार-दो हज़ार में एक औरत है ।

सुखदेवप्रसाद विपादयुक्त हास्य के साथ बोले—बाहरवालों के लिये तो वह ऐसी ही है, पर घरवालों के लिये नहीं ; विशेषतः मेरे लिये तो रत्नी-भर भी नहीं । एक अच्छी पत्नी में जो-जो बातें होनी चाहिए, वे उसमें एक भी नहीं हैं । मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि यद्यपि आपकी पत्नी बिलकुल निरक्षर है, गाना-बजाना भी नहीं

जानता; परंतु फिर भी एक पत्नी की ईसियत से वह मेरी पत्नी से काम नहीं चढ़ती है।

विहारीलाल—अजी तो क्या करों ! कहाँ वह और कहाँ आपकी पत्नी, आधाश-पाताल का झंझर है। परंतु हाँ, वह बात अवश्य है कि वह मुझे हर तरह से संतुष्ट रखती है।

सुमदेव—वह ! नहीं तो काम बात है। यद्यपि वह अशिष्ट है, परंतु फिर भी वह आपको संतुष्ट रखने की योग्यता रखती है। इसलिये वह एक सही पत्नी है। जो पत्नी अपने पति को संतुष्ट नहीं रख सकती, वह चाहे जितना सुशिष्ट हो, चाहे जितना सुंदर हो, कभी सही पत्नी कहलाने योग्य नहीं।

विहारीलाल—तो वह आपको संतुष्ट नहीं रखती ?

सुमदेव—सारा रोना तो यही है।

विहारीलाल 'हुँ' कहकर खुर हो गए। थोड़ी देर के पश्चात् तिर रथावर बोले—'है भई, तुम कहने हो, तो मानना ही पड़ेगा। परंतु वह बड़े आश्चर्य की बात है।

सुमदेव—'मंसार' से आगेव आश्चर्य की बातें होती हैं।



गुलाम बनकर रहते हैं। संसार में दोनों ही बातें मिलेंगी—स्त्रियाँ पुरुषों की गुलाम बनकर रहती हैं और पुरुष स्त्री के गुलाम बनकर रहते हैं।

प्रियंवदा देवी ने घृणा से नाक फुजाकर कहा—अशिक्षित स्त्रियाँ ही पुरुषों की गुलाम बनकर रहती हैं।

सुखदेव०—योरप और अमेरिका की स्त्रियाँ तो अशिक्षित नहीं होतीं; परंतु वहाँ भी स्त्रियाँ पुरुषों की गुलाम बनकर रहती हैं।

प्रियंवदा—क्यों गुलाम बनकर रहती हैं ?

सुखदेव०—जहाँ प्रेम होता है, वहाँ एक दूसरे का गुलाम बनना ही पड़ता है।

प्रियंवदा—परंतु वहाँ नित्य तलाक भी तो होते रहते हैं।

सुखदेव०—बेशक ! इसका कारण यही है कि जिन स्त्री-पुरुषों में प्रेम नहीं होता, वे बात-बात में स्वतंत्रता और अधिकार की दुहाई देते हैं, परिणाम यह होता है कि आपस में जूता चलता है, और तलाक की नौबत आ जाती है।

इतना कहकर सुखदेवप्रसाद उठ खड़े हुए और हाथ-मुँह धोने लगे।

प्रियंवदा देवी उठकर आसन पर अपनी थाली के सामने जा बैठी और भोजन करने लगीं। सुखदेवप्रसाद तौलिए से हाथ पोंछते हुए कुर्सी पर आ बैठे।

प्रियंवदा देवी ने चुपचाप भोजन किया। भोजन करने के पश्चात् हाथ-मुँह धोकर पहले उन्होंने अपने और पति के लिये पान बनाए, तत्पश्चात् पुनः पलंग पर आ बैठीं। थोड़ी देर तक वह चुपचाप बैठी रहीं, इसके उपरांत उन्होंने कहा—ईश्वर ने स्त्री-पुरुष को समान बनाया है। दोनों को समान स्वतंत्रता तथा समान अधिकार मिलने चाहिए।

सुखदेवप्रसाद मुसकिराए। उन्होंने मन में सोचा—अर्द्धशिष्या कितनी भयानक होती हैं। अर्द्धशिष्या देने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि स्त्रियाँ अशिषित ही रहें।

प्रकट रूप में पत्नी से उन्होंने कहा—भगवान् जाने, तुम स्वतंत्रता और अधिकार के क्या अर्थ लगाती हो !

प्रियंवदा—स्वतंत्रता और अधिकार के यही अर्थ हैं कि जो बातें पुरुष करते हैं, वही स्त्रियों को भी करने दी जायँ। जैसा व्यवहार पुरुष स्त्री के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार स्त्री पुरुष के साथ भी कर सके। जो बातें पुरुषों के लिये अच्छी समझी जायँ, वे स्त्रियों के लिये भी अच्छी समझी जायँ, और जो पुरुषों के लिये बुरी समझी जायँ, वे स्त्रियों के वास्ते भी बुरी समझी जायँ।

सुखदेव०—बस, इतनी ही-सी बात ?

प्रियंवदा—बस, इतनी ही-सी बात।

सुखदेव०—अच्छी बात है, जाओ आज से मैं अपनी ओर से तुम्हें यह स्वतंत्रता तथा अधिकार देता हूँ कि जो भला-बुरा काम मैं करूँ, वही तुम भी कर सकती हो। जैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करता हूँ या करूँ, वैसा ही तुम मेरे साथ कर सकती हो।

प्रियंवदा—( प्रसन्न होकर ) क्या सच्चे हृदय से ऐसा कहते हो ?

सुखदेव०—सच्चे हृदय से।

प्रियंवदा—स्वच्छ हृदय से ?

सुखदेव०—हाँ, स्वच्छ हृदय से।

प्रियंवदा बड़लकर पति के गले से लिपट गई और बोली—  
प्रियतम, तुम आदर्श पति हो।

( ३ )

वैसे तो प्रियंवदा देवी को कोई दुःख न था। अच्छे-से-अच्छा

खाती थीं, और अच्छे-से-अच्छा पहनती थीं। पति भी उन्हें युवा, सुंदर, स्वस्थ तथा सुशिक्षित मिला था। घर में सास-ससुर इत्यादि भी उसे आँखों का तारा ही समझते थे। परंतु फिर भी प्रियंवदा देवी असंतुष्ट रहती थीं। उनके असंतोष के कई कारण थे। वह अपने को घर में सब स्त्रियों से अधिक सुशिक्षित समझती थीं, चात भी ठीक थी। सुखदेवप्रसाद के घर में कोई स्त्री प्रियंवदा के समान पढ़ी-लिखी न थी। अतएव उन्हें अपने पढ़े-लिखे होने का बड़ा अभिमान था। उनकी यह इच्छा थी कि घर की सब स्त्रियाँ उनकी आज्ञाकारिणी रहें, जो कार्य करें, उनके आदेशानुसार करें। पति से भी वह यही आशा रखती थीं कि वह उनके आज्ञाकारी रहें। 'ऐसी पत्नी उनके नसीब में थी कहाँ—ये उनके बड़े भाग्य हैं, जो उन्हें मेरे समान पत्नी मिली है, फिर भी वह मेरी क्रूर नहीं करते।' क्रूर करने का अर्थ प्रियंवदा देवी यह समझती थीं कि सुखदेवप्रसाद प्रत्येक समय उनका मुँह ताकते रहें, और जिस समय जैसी उनकी इच्छा हो, वैसा ही करें। उनके किसी कार्य पर वह कभी कोई आपत्ति न करें। जिस समय प्रियंवदा देवी की इस प्रकार की क्रूरदानी में व्याघात लगता था, सब वह अपनी सुशिक्षा की सहायता लेकर 'स्वतंत्रता' तथा 'अधिकार' के सिद्धांतों पर दृष्टिपात करती थीं। उस समय उन्हें यह पता लगता था कि भारतीय नारियों पर सनाज बड़ा अत्याचार करता है। दूसरों से तो वह ऐसी आशाएँ रखती थीं; परंतु स्वयं उनका व्यवहार कैसा था? सास-ससुर की सेवा करना वह दासी-कर्म समझती थीं। एक दिन उनकी सास के पैरों में दर्द उठा। सुखदेवप्रसाद ने उनसे कहा—जाओ, जरा माताजी के पैर दाब दो। प्रियंवदा देवी मुँह बिचकाकर बोली—“यह काम तो नौकरों का है, मैंने आज तक किसी के पैर नहीं दाबे, मैं पैर दाबना क्या जानूँ?” यहाँ तक कि पति की



सेवा करना भी वह अपनी शान के खिलाफ समझती थीं। पति-सेवा का अर्थ, उनकी समझ में केवल इतना था कि पति से मीठी-मीठी बातें करके उन्हें अपने ऊपर इतना सुगंध कर लेना कि वह किसी बात से इनकार ही न कर सकें। उनके लिये भोजन का प्रबंध कर देना, पान लगा देना, हारमोनियम बजाकर सुनाना, और कोई समाचार-पत्र अथवा पुस्तक पढ़कर सुना देना। यद्यपि वह सीने-पिरोने में अपने को सिद्ध-हस्त समझती थीं, और अच्छे-से-अच्छे दर्ज़ी के लिए हुए कपड़ों में भी छिद्रान्वेषण किए बिना उन्हें कल नहीं पड़ती थी; परंतु क्या मजाल जो अपने हाथ से किसी कपड़े में एक टाँका भी लगावें—‘उँह यह काम दर्ज़ियों का है।’ भोजन पकाने में उनकी समानता कोई शाही वावर्ची भी नहीं कर सकता था, परंतु उन्होंने किसी का कर्मा कोई चीज़ बनाकर नहीं खिलाई। क्यों नहीं खिलाई? खिलावें कैसे? आँच और धुएँ के सामने बैठने से मिर में दर्द होने लगता है। यदि कोई ऐसा चूल्हा हो, जिसमें न आँच लगे और न धुआँ हो, तब तो बहू रानी भोजन बनावें। फिर उस समय भोजन का स्वाद न मिले और खानेवाले उँगलियाँ चाटते न रह जायँ, तो नाम नहीं। हाँ, संसार में केवल एक काम था, जिसे वह अपने योग्य समझती थीं, वह काम था—मोज़े इत्यादि बुनना। पति के लिये उन्होंने बड़े परिश्रम से १५-२० मिनट रोज़ मेहनत करके, लगभग तीन महीने में एक मफलर बुना था। जिस समय मफलर बनकर तैयार हुआ, उस समय पहले तो उनका यह इच्छा हुई कि उसे किसी कला-कौशल की प्रदर्शनी में भेज दें; परंतु पहले पति से यह कह चुकी थी कि तुम्हारे लिये बुन रही हूँ। इसलिये मन मसोस रह गई। यह प्रदर्शनी का दुर्भाग्य था कि प्रियंवदा देवी का मफलर उसकी शोभा न बढ़ा सका। और, जबो प्रदर्शनी की शोभा न बढ़ी तो न सही, परंतु

पति की गर्दन में तो एहसान का तौक़ पड़ गया—ऐसे एहसान का तौक़, जिसकी मार से वह कभी अपनी प्रियतमा के सामने सिर न उठा सकेंगे ।

जिस दिन पति ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, और समस्त अधिकार दे दिए, उस दिन उन्होंने केवल अपनी ही नहीं, वरन् समस्त स्त्री-जाति की विजय समझी । उन्होंने समझा कि वह पहली भारतीय नारी हैं, जिन्हें ऐसे अभूतपूर्व अधिकार मिले हैं । उन्होंने सोचा, कल इस विजय पर एक लेख लिखकर किसी बढ़िया मासिक पत्र में भेजूंगी । साथ ही अपना फ़ोटो भी भेज दूँगी और संपादक महोदय को एक पत्र ड़ाँटकर लिखूँगी कि लेख को अच्छे स्थान पर हमारे चित्र-सहित छापना ।

दूसरे दिन प्रातःकाल से सुखदेवप्रसाद ने अपने व्यवहार की काया-पलट कर दी । उन्होंने प्रियंवदा देवी से किसी काम के लिये कहने की क्रसम खा ली । प्रियंवदा जो बात पूछतीं, उसका उत्तर दे देते, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं ! जब घर में रहते और अपने निजी कमरे में बैठते, तब यह दशा होती थी कि एक कुर्सी पर बैठे वह पुस्तक पढ़ रहे हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठी प्रियंवदा देवी पढ़ रही हैं । यदि सुखदेवप्रसाद को प्यास लगी, तो वह स्वयं उठकर पानी ले लेते थे अथवा नौकर को आवाज़ दे देते थे । अभी तक तो पान प्रियंवदा देवी लगाया करती थीं, परंतु अब सुखदेवप्रसाद स्वयं पान लगाने लगे । रात को भोजन इत्यादि भी अपने ही आप मँगा लेते थे । सोते समय दूध भी स्वयं ही नौकर से माँग लेते । अब प्रियंवदा देवी को दिन-भर पलंग तोड़ने तथा उपन्यास और समाचार-पत्र पढ़ने के अतिरिक्त और कोई काम न करना पड़ता था ।

इसी प्रकार चार-छः दिन व्यतीत हुए । एक दिन शाम को सुखदेवप्रसाद बाहर घूमने जा रहे थे, उसी समय प्रियंवदा ने पूछा—रुहों चले ?

सुखदेव०—याहर घूमने जाता हूँ ।

प्रियंवदा—पैदल या गाड़ी पर ?

सुखदेव०—गाड़ी पर ।

प्रियंवदा—मैं भी चलूँगी ।

सुखदेव०—श्या मेरे साथ ?

प्रियंवदा—हाँ ।

सुखदेव०—बड़ी सुंदर बात है; पर माता और पिताजी सुरा न मानें ।

प्रियंवदा—मानें तो माना करें, मैं कहाँ तक घर में बैठी-बैठी घुटा करूँ ।

सुखदेव०—माताजी के साथ तो गंगाजी तथा इधर-उधर घूमने जाती रहती हो ।

प्रियंवदा—उनके साथ जाने से क्या लाभ ? वह गाड़ी के द्वार बंद रखती हैं—शुद्ध वायु नसीब नहीं होती । तुम्हारे साथ जाने में कुछ तो स्वतंत्रता रहेगी ।

अब सुखदेवप्रसाद बड़े धर्म-लंकट में पड़े । उन्हें स्वयं इस कार्य में कोई आपत्ति न थी, परंतु माता-पिता का भय लगा हुआ था । श्रुंत को उन्होंने बहुत कुछ सोच-विचारकर पत्नी से कहा—अच्छा कपड़े पहनो ।

पत्नी से यह कहकर वह स्वयं पिताजी के पास पहुँचे और उनसे बोले—पिताजी, आज एक बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ ।

पिता—कैसा कार्य बेटा ? क्या कार्य है ?

पुत्र—बात यह है कि आपकी बहू स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकार के फेर में है, ज़रा उसे ठीक रास्ते पर लाना है, परंतु यह तभी हो सकता है, जब आप इसमें मेरी पूरी सहायता करें ।

पिता को पुत्र की बात सुनकर आश्चर्य हुआ । कुछ देर तक

सोचकर बोले—यह तो बड़ी विचित्र बात है। मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ ?

सुखदेवप्रसाद ने पिता को अपनी पत्नी के आचार-विचार बता दिए और उसको स्वतंत्र कर देने की बात भी बता दी। सब बातें समझाकर बोले—अब मैं उसे इतनी स्वतंत्रता देना चाहता हूँ कि उसे स्वतंत्रता का अजीर्ण हो जाय—तभी वह रास्ते पर आवेगी। अतएव मैं जो कुछ कहूँ, उस पर आप कोई आपत्ति न करें और माताजी को भी समझा दें कि वह भी कुछ न कहें।

पिता ने बहुत कुछ सोच-समझकर मुसकिराते हुए कहा—अच्छी बात है, मगर कोई कार्य ऐसा न करना, जिससे आवरु में बड़ा लगे। यह अच्छी रही ! मैंने पढ़ी-लिखी लड़की यह समझकर ली थी कि घर-द्वार का अच्छा प्रबंध करेगी, सब बातों का सुख रहेगा। मुझे यह क्या मालूम था कि उलटे गले का भार हो जायगी। खैर, अब तो जो होना था, हो ही गया।

उसी दिन सुखदेवप्रसाद प्रियंवदा देवी को अपने साथ गाड़ी पर घुमाने ले गए।

( ४ )

क्रमशः यहाँ तक नौबत पहुँची कि प्रियंवदा देवी नित्य पति के साथ घूमने जाने लगीं। इसके अतिरिक्त बायस्कोप, थिएटर इत्यादि में भी पति के बगल में ही बैठने लगीं। उन्हें इस कार्य से मित्रों के सामने बहुत ही लज्जित होना पड़ा। सब कहने लगे—अब तो सुखदेवप्रसाद बिलकुल साहब हो गए, जब देखो, जोरू बगल में है। परंतु बेचारे करते क्या, चुपचाप सब सुनते थे।

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। पहले तो प्रियंवदा देवी इन सब बातों से उतनी ही प्रसन्न हुई, जितना कि एक पत्नी पिंजरे में से मुक्त होकर प्रसन्न होता है। परंतु उनकी यह प्रसन्नता अधिक

दिवों का मित्र न रह सकें। सुभद्रोपमाद ने वीसे तो उन्हें सब  
 तरह की शक्ति दे दी थी और विप्रेन्द्र देवी को सारे मूढ प्राण  
 ही का मित्र बना लिया था वह सुधी न थी। उनके सुधी न होने का  
 कारण यह था कि एक तो घर में उनमें सब लोग सुबक व्यवहार  
 करते थे। वे सबकी भाव देवी भी उनमें आचरपुरुषात् के अतिरिक्त  
 और कोई चीज़ें जान न सकती थी, और इधर सुभद्रोपमाद वहाँ  
 सुधी थी। उनका वैसा ज्ञान न होने से। मर्यादा विप्रेन्द्र के साथ  
 प्रकृत शक्ति का प्रयोग नहीं, सिद्ध तथा आचरपुरुषात् का, पर प्रेम की  
 शक्ति नहीं थी। वे सब न थी। वे सब न थी, सिद्ध तथा आचरपुरुषात् व्यव-  
 हार का विप्रेन्द्र देवी का ज्ञान न होता था। मर्यादा से संतुष्ट होने  
 पर विप्रेन्द्र का प्रकृत शक्ति की शक्ति नहीं। परंतु इस समय वे  
 सुधी का ज्ञान विप्रेन्द्र का प्रकृत शक्ति थी। विप्रेन्द्र ने प्रकृत शक्ति में  
 सुधी का ज्ञान प्रकृत शक्ति को देना था। विप्रेन्द्र भक्ति-भक्ति  
 के अभाव में प्रकृत शक्ति को देना था। प्रकृत शक्ति को देना था।

शर्म से पसीने-पसीने हो गई और स्नान मुख होकर लुपचाप अपनी कुर्सी पर आ बैठीं। फिर हथेली पर गाल रखकर विचार-सागर में डूब गई।

इस घटना के दो दिन पश्चात् प्रियंवदा ने पति से कहा—मालूम होता है, तुमको मुझसे प्रेम नहीं रहा।

सुखदेव०—प्रेम हो या न हो, इससे तुम्हें क्या मतलब ? तुम्हें मैंने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, क्या इतने से तुम्हें संतोष नहीं है ?

प्रियंवदा—क्या मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य इतने ही मे समाप्त हो जाता है ?

सुखदेवप्रसाद घृणा से मुसकिराकर बोले—कर्तव्य ! कर्तव्य की बात मत करो। स्वतंत्रता और अधिकार की बात करो। अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिये तुम स्वतंत्र हो और स्वेच्छानुसार कार्य करने के लिये मैं स्वतंत्र हूँ, कर्तव्य को बीच में घसीटना व्यर्थ है।

प्रियंवदा—व्यर्थ कैसे ? प्रत्येक पति का अपनी पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य हांता है।

सुखदेव०—मैं फिर कहता हूँ—कर्तव्य की बातें मत करो।

प्रियंवदा का मुख तमतमा उठा। उसने बड़े आवेशपूर्वक कहा—कर्तव्य की बातें कैसे न कहूँ ? क्या तुम समझते हो कि मैं केवल स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हो जाने से ही सुखी हो सकती हूँ ? मेरा तुम पर भी तो कुछ अधिकार है।

सुखदेव०—हाँ, अधिकार क्यों नहीं है। अधिकार बहुत कुछ है। मुझ पर तुम्हारा इतना ही अधिकार है कि तुम स्त्री होने से अबला हो और इसलिये मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ—बस, तुम्हारा इतना ही अधिकार है। यदि मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकूँ, तुम्हें भोजन-वस्त्र न दे सकूँ, तो तुम शिकायत कर सकती हो। यद्यपि न्याय से तो यह होना चाहिए कि जब तुम पुरुषों के बराबर अधिकार तथा स्वतंत्रता चाहती हो, तो तुम्हें स्वयं ही अपने भोजन तथा वस्त्र के लिये धन

भी उपार्जन करना चाहिए। परंतु ; नहीं, मैं इतनी सख्ती नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी कमज़ोरियों को समझता हूँ।

प्रियंवदा—हे ईश्वर ! तो क्या मुझे अब अपने भोजन-वस्त्र के लिये धन भी कमाना पड़ेगा ?

सुखदेव०—यह तो तुम्हें समझो। मैं तो केवल इतना समझता हूँ कि जब तक तुम भोजन-वस्त्र के लिये मुझ पर निर्भर हो, तब तक तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो।

प्रियंवदा—क्या पति का यही धर्म है कि अपनी पत्नी से धनो-पार्जन करने को कहे ?

सुखदेव०—जब पत्नी का यह धर्म है कि प्रत्येक बात में पति के सामने स्वतंत्रता तथा अधिकार के सिद्धांत की दुहाई दे, तब पति का भी यही धर्म है कि पत्नी को जहाँ तक संभव हो सके, पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना दे।

इसना सुनते ही प्रियंवदा ने रोना आरंभ किया। रोते-रोते बोलीं—मुझे इस प्रकार जलाने में तुम्हें कुछ आनंद आता है ?

सुखदेव० मुझे तो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देने में आनंद आता है। मेरे आनंद की परा काष्ठा तो उस दिन होगी, जिस दिन तुम अपने भरण-पोषण के लिये चार पैसे पैदा करने लगोगी।

प्रियंवदा—ओरु ! अब नहीं सहा जाता ! तुम्हें अपनी पत्नी से ऐसे शब्द कहते लाज नहीं लगती ?

सुखदेव०—जब पत्नी स्वयं लाज-शर्म को तिलांजलि दे बैठी, तब मेरे रक्खे लाज-शर्म कब तक रहेगी ? अभी तो तुम्हारी स्वतंत्रता में थोड़ी कसर बाक़ी है !

प्रियंवदा—भाड़ में जाय स्वतंत्रता, मैं ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहती।

सुखदेव०—तो फिर क्या चाहती हो ?

प्रियंवदा—मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती ।

सुखदेव०—तो प्रेम और स्वतंत्रता में तो बड़ा अंतर है । जो प्रेम चाहता है, वह प्रेम का चलन भी चलता है । प्रेमी जन स्वतंत्र कब होते हैं ? वे तो घोर परतंत्र होते हैं । जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वतंत्रता तथा अधिकार का प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकता ।

इतना सुनते ही प्रियंवदा उठकर पति से छिपट गई और उनके कंधे पर सिर रखकर सिलकती हुई बोली—यदि तुम इसी कारण मुझसे रूठ हो, तो मैं शपथ खाती हूँ कि आज से कभी स्वतंत्रता का नाम भी न लूँगी । जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता होगी, वही करूँगी ।

सुखदेव०—यदि यह बात है, तो मैं भी शपथ खाता हूँ कि आज से मैं तुम्हें अपने प्रणय का कैदी बना लूँगा !

यह कहकर सुखदेवप्रसाद ने पत्नी को हृदय से लगा लिया ।



## सुधार

( १ )

बाबू शिवकुमार बड़े देश-भक्त थे । उनमें देश-भक्ति की मात्रा उस सीमा तक पहुँची हुई थी, जिसे कुछ लोग अनधिकार-चेष्टा कहते हैं । उनका एक कार्य यह था कि वे प्रायः इस खोज में घूमा करते थे कि उनके भोले-भाले और निःसहाय भाइयों पर नरचारी कर्मचारी अत्याचार तो नहीं करते । यदि उन्हें कोई ऐसा मामला मिल जाता, तो वे कर्मचारियों को कानूनी शिकंजे में लेकर उन्हें पूरा दंड दिलाने की चेष्टा किया करते थे । उन्हें कभी-कभी इस कार्य में सफलता भी होती थी ।

एक दिन बाबू साहब प्रातःकाल घूमने निकले और शहर के बाहर की ओर चले गए । बाबू साहब प्रातःकाल की मंद-मंद वायु का आनंद लेते चुंगीघर के निकट पहुँचे । चुंगीघर के सामने छः-सात अनाज की देहाती गाड़ियाँ, जो शहर की ओर आ रही थीं, खड़ी थीं । बाबू साहब गाड़ियों के पास से होकर जा रहे थे, उसी समय उनके कान में एक देहाती के ये वाक्य पड़े—“अरे भाई, फिर क्या किया जाय, जबर मारे और रोने न दे, दें न तो क्या करें ? दो-चार आने की खातिर यहाँ बारह बजे तक भूखे-प्यासे पड़े रहें ? काम का हरजा करें ? देना ही पड़ता है । कहेँ भी, तो किससे ? गरीबों की कौन सुनता है ?”

यह वाक्य सुनकर बाबू साहब के कान खड़े हुए । समझे कि यहाँ गहरा मामला है । गाड़ीवाले के पास जाकर बोले—क्यों भाई, क्या बात है ?

गाड़ीवाले ने कुछ क्षण तक बाबू साहब को सर से पैर तक देखा । तत्पश्चात् लापरवाही से बोला—साहब कोई बात हो, समय पड़े दो-चार आने का मुँह नहीं देखना चाहिए ।

बाबू साहब—आखिर बात क्या है, कुछ बतलाओ तो ।

गाड़ीवाला—अरे साहब, क्या बतावें ? ऐसी बातें तो रोज़ ही हुआ करती हैं, किले-किले बतावें और कहाँ तक बतावें ।

बाबू०—नहीं सो बात नहीं, तुम हमसे बताओ, हम उसकी दवा कर देंगे ।

गाड़ीवाले ने एक बार फिर बाबू साहब को सर से पैर तक देखा, और पास ही खड़े हुए एक दूसरे गाड़ीवान की ओर देखकर मुस-फिराथा । दूसरा गाड़ीवाला बोला—अरे बाबूजी, अब उस बात के कहने से क्या फ़ायदा, जो होना था, सो हो गया ।

बाबू०—यही तो तुम लोगों में दोष है । तुम लोग अत्याचार सहना पसंद करते हो, पर उसको दूर करने की चेष्टा नहीं करते, इसीलिये तुम्हें जो चाहता है, दवा लेता है ।

गाड़ीवाला—अरे साहब, फिर क्या करें ? राम खाना अच्छा है । दो-चार आने के लिये कौन झगड़ा करे । दो-चार आने में हम कुछ मर नहीं जायँगे और वह कुछ लाखपती नहीं हो जायँगे । एक बात-की-बात है । हाँ, इतना बुरा मालूम होता है कि दिक् करके लेते हैं ।

बाबू साहब समझ गए कि चुंगीवालों ने कुछ ऐंठा है । उधर गाड़ीवाले बाबू साहब से यह बात कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उसमें कोई लाभ नहीं समझते थे । पर मनुष्य की प्रकृति के अनुसार कहने की इच्छा न होते हुए भी सहानुभूति के आगे अपने हृदय की उमड़ास रोकने में असमर्थ होकर क्रमशः सब उगल रहे थे ।

बाबू साहब ने कहा—देखो, इस बात का छिपाना ठीक नहीं । यदि तुम लोग हमसे सब बात साफ़-साफ़ कह दो और थोड़ा-सा

साहस कर जाओ, तो तुम लोगों का यह दुःख सदैव के लिये दूर हो जाय । अपने लिये नहीं, तो अपने उन सैकड़ों भाइयों के लिये, जिन्हें इसी प्रकार की मुसीबतें भेलना पड़ती हैं, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि तुम्हें यह नहीं अखरता, परंतु तुम्हारे-से अनेक भाई ऐसे हैं, जिन्हें इससे बड़ा दुःख होता होगा ।

गाड़ीवाला कुछ उत्तेजित होकर बोला—बाबूजी अखरता क्यों नहीं, हमें भी जैसा अखरता है वह हमीं जानते हैं । पर क्या करें, कलेजा मसोसकर रह जाते हैं । किससे कहें ? कोई धुननेवाला भी तो हो ?

बाबू साहब—इसीलिये तो हम कहते हैं कि तुम सब हाल हमसे कहो, फिर देखो हम क्या करते हैं ।

गाड़ीवाला बोला—बात यह है कि हम सबेरे चार बजे से यहाँ पड़े हैं । अब सात-आठ बजे होंगे । सबेरे हमने चुंगी के बाबू से कहा कि चुंगी ले लो और रसीद दे दो, हमें जल्दी है । बाज़ार के समय पहुँच जायँगे, तो आज ही छुट्टी मिल जायगी, नहीं कल तक पड़ा रहना पड़ेगा । बाबूजी, आप जानते हैं कि आजकल फ़सल के दिन हैं, यहाँ पड़े रहने में हर्ज होता है । चुंगी के बाबू बोले, अभी ठहर जाओ, हमें छुट्टी नहीं है । हम थोड़ी देर रुक गए । बाबू साहब को कोई काम नहीं था, मज़े से बैठे बातें कर रहे थे । थोड़ी देर में हमने फिर कहा, तो डाँटकर बोले—अभी रसीद नहीं मिलेगी । हमने हाथ-पैर जोड़े, तब बोले, जल्दी है तो कुछ नज़राना दिलाओ, नहीं तो दस बजे तक पड़े रहो, दस बजे के पहले नहीं जाने पाओगे ।

ख़ैर साहब, हमने चार आने दिए, पर चार आने में राज़ी न हुए, एक रुपया माँगने लगे । अब आप ही बताइए, हम ग़रीब आदमी एक रुपया कहाँ से लावें । चुंगी अलग दें और इन्हें अलग दें । ख़ैर, हमने कहा कि एक रुपया तो हम नहीं दे सकते । इस पर वे बिगड़कर कहने लगे कि नहीं दे सकते तो जाओ, जाके बैठो वहीं । तब हमने

सोचा कि यहाँ पड़े रहने से बड़ा हर्जा होगा, दो-चार आने गम खाओ। खैर, हमने आठ-आठ आने दिए और बहुत हाथ-पैर जोड़े, तब कहीं वे रसीद देने पर राजी हुए।

बाबू०—रसीद मिल गई?

गाड़ी०—हाँ, अभी दी है।

बाबू०—और यह लोग क्या-क्या करते हैं?

गाड़ी०—करते तो साहब न-जाने क्या-क्या हैं, पर हमें जल्दी है, बाजार का समय है।

बाबू०—चलो, हम भी तुम्हारे साथ-साथ चलते हैं। हाँ, जो-जो यह करते हों, हमें सब बताओ।

गाड़ीवालों ने गाड़ियाँ हाँकीं। बाबू साहब भी साथ-साथ चले।

गाड़ीवाले ने कहना आरंभ किया—गाड़ी-पीछे दो-चार सेर जिनिस (माद) निकाल लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, यह तो सभी के साथ करते हैं। जो कोई नहीं देता उसे बहुत दिक्र करते हैं, चुंगी अधिक लगा लेते हैं, गालियाँ देते हैं। कभी-कभी मार भी बैठते हैं।

बाबू०—और तुम लोग यह सब सह लिया करते हो?

गाड़ी०—एहें न तो क्या करें? एक दिन की बात हो तो न सहें। हमारा तो इधर आना-जाना लगा ही रहता है। खैर बाँधें, तो और भी दिक्र करें, इससे गम खाते रहते हैं।

बाबू०—यदि तुम लोग हमारी सहायता करने को कहो, तो हम इन्हें मज़ा चखा दें।

गाड़ी०—अरे साहब, कौन संभट में पड़े। अदालत जाते योंही डर लगता है। काम का हर्जा करें, दौड़े-दौड़े फिरें, और जो कोई उलटी-सीधी बात पड़ गई, तो उलटे हमीं मारे जायँ।

बाबू०—एक-दो दिन काम का हर्जा करना अच्छा कि तीसों

दिन का ? दो-चार दिन काम का हर्ज होगा, पर यह तीसों दिन का षट्पराग तो मिट जायगा । और, इस बात का हम ज़िम्मा लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर ज़रा भी आँच नहीं आने पाएगी ।

गाड़ी०—यह तो ठीक है, पर—

बाबू०—तुम लोग इतना डरते हो, इसीलिये तो यह सब बातें बढ़ती जाती हैं । हम नहीं समझते कि इसमें डरने की क्या बात है । तुम्हें केवल इतना काम करना होगा कि जो कोई अफ़सर पूछे, तो ये बातें सब कह देना ।

गाड़ीवाले ने अपने साथियों की ओर इशारा करके कहा—यह सब राज़ी हों, तो हम भी राज़ी हैं ।

बाबू०—यह तो राज़ी हो ही जायेंगे, नहीं तो तुम उन्हें राज़ी करने की चेष्टा करो । अच्छा तुम्हें बाज़ार से कब छुट्टी मिल जायगी ?

गाड़ी०—यही कोई ग्यारह-बारह बजे तक ।

बाबू०—किस आदत में तो जाओगे ?

गाड़ीवाले ने एक आदत की दूकान का नाम बताया ।

( २ )

बाबू साहब ने बहुत समझा-झुझाकर दस-बारह गाड़ीवानों को राज़ी किया और उनसे मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तग़ासा दिलवा दिया कि चुंगी के बाबू ने उन्हें तंग किया, बिना काम रोक रक्खा और सबसे आठ-आठ आने रिश्तत के लेकर तब उन्हें रखीद दी । चुंगी-रुर्क पर मुकदमा कायम हो गया । बाबू शिवकुमार ने अपनी गवाही लिखाई थी । इसके अतिरिक्त गाड़ीवानों ने भी अपने गाँव के तथा आस-पास के चार-छः आदमियों की गवाहियाँ लिखाई थीं ।

उचित समय पर चुंगी-रुर्क रामधन का विचार हुआ । रामधन से सफ़ाई माँगी गई; पर वे उचित सफ़ाई न दे सके । अतएव उन्हें छः मास की कैद तथा पचास रुपए जुर्माने का दंड मिला ।

बाबू शिवकुमार के मित्र पं० राधाकांत ने उनसे पूछा—कहो, उस केस में क्या हुआ ?

शिवकुमार बड़े अभिमान-पूर्वक बोले—हुआ क्या, सज़ा दिलाके छोड़ा। मैंने तो प्रण कर लिया है कि ऐसे अत्याचारियों को हूँक-हूँक कर जेल भिजवाऊँगा।

राधाकांत—क्या सज़ा मिली ?

शिवकुमार—छः महीने की कैद और पचास रुपए जुर्माना।

राधाकांत—जुर्माना दाखिल हो गया ?

शिवकुमार—हाँ, दाखिल हो गया। चार उसके घर में तो भूँजी भाँग भी न निकली। इतनी रिश्वत लेते हैं, पर न-जाने वह सब कहाँ चली जाती हैं। उसकी स्त्री ने अपने आभूषण बेचकर जुर्माना दाखिल किया।

राधाकांत—उसकी ओर से पैरवी अच्छी नहीं हो सकी ?

शिवकुमार—पैरवी करनेवाला था कौन ? एक बूढ़ा बाप है, जो चल-फिर भी नहीं सकता। एक स्त्री है और दो बच्चे।

राधाकांत—और कोई नहीं है ?

शिवकुमार—और कोई नहीं।

राधाकांत के मुख पर मलिनता दौड़ गई। उन्होंने सर झुका लिया। बड़ी देर तक सर झुकाए चुपचाप बैठे रहे।

शिवकुमार बोले—अब बच्चों सदैव के लिये ठीक हो जायेंगे।

राधाकांत ने सर उठाया। कुछ क्षण तक शिवकुमार की ओर देखकर बोले—आपने यह काम क्यों किया ?

शिवकुमार—क्यों किया ? किया देश-भक्ति के नाते, अपने भाइयों को अत्याचार से बचाने के लिये।

पं० राधाकांत मुसकिराए। उस मुसकिराहट में कुछ घृणा थी, कुछ अविश्वास था। शिवकुमार यह बात ताड़ गए। अतएव बोले—क्यों, आप मुसकिराए क्यों ?

राधाकांत—किसान जितने आपके भाई हैं, उतना ही रामधन भी आपका भाई है, यह बात आपको माननी पड़ेगी।

शिवकुमार—हाँ, मैं मानता हूँ।

राधाकांत—आपने यह भी सोचा कि उसके जेल चले जाने से उसके निःसहाय परिवार की क्या दशा होगी ?

शिवकुमार—क्या होगी ?

राधाकांत—और क्या, आप ही के कथन से मालूम हुआ कि अपने परिवार का पालन-पोषण करनेवाला केवल वही था। ऐसी दशा में अब उसके परिवार का पालन-पोषण कौन करेगा ?

शिवकुमार के हृदय पर राधाकांत की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। राधाकांत कहते गए—यह मैं मानता हूँ कि रामधन के व्यवहार से किसानों को कष्ट पहुँचता था, परंतु आपने रामधन और उसके परिवार को उससे कहीं अधिक कष्ट पहुँचाया है। केवल इतना ही नहीं, आपने उस बेचारे का जीवन नष्ट कर दिया। उसका परिवार भूखों मरेगा। रामधन जेल से छूट भी आवेगा, तब भी सज़ायाफ़ता होने के कारण न तो उसे सरकारी नौकरी ही मिलेगी और न उसे कोई भला आदमी ही, जिसे उसके सज़ायाफ़ता होने की बात मालूम हो जायगी, अपने यहाँ काम देगा ? ऐसी दशा में उसका जीवन नष्ट हो गया या रहा ?

बाबू शिवकुमार को अपनी भूल का कुछ ज्ञान हुआ, पर वे अभी अपनी भूल स्वीकार करने के लिये प्रकट रूप से प्रस्तुत न थे। अतएव उन्होंने कहा—तो क्या आपका संशा है कि उसे किसानों पर अत्याचार करते रहने देता ?

राधाकांत—मैं यह नहीं कहता। मैं तो केवल यह कहता हूँ कि यह सच्ची देश-भक्ति नहीं। देश-भक्त का यह कर्तव्य है कि वह समस्त देश-वासियों के कष्टों का ध्यान रखे। इसके क्या अर्थ हैं कि

एक को कष्ट से बचाया जाय और दूसरे को कष्ट में डाल दिया जाय ? देश-भक्त के लिये तो सब बराबर हैं । उसे तो सबके कष्टों का ध्यान रखना चाहिए ।

शिवकुमार—यह तो एक ख़ास केस ऐसा आ पड़ा कि रामधन के परिवार का पालन-पोषण करनेवाला कोई दूसरा नहीं, परंतु सब हालतों में तो ऐसा नहीं होता ।

राधाकांत—यह माना । परंतु उन हालतों में भी मानसिक कष्ट अवश्य होता है । जिसका बाप, भाई या पति जेल जायगा, उसे मानसिक कष्ट तो अवश्य ही होगा—यह आप मानते हैं या नहीं ?

शिवकुमार—हाँ, मानूँगा क्यों नहीं, पर इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं ।

राधाकांत—आप एक बेर रामधन को समझाकर, धमकाकर, इस अनुचित काम से रोकने की चेष्टा करते ।

शिवकुमार—ओहो ! यही तो आप जानते नहीं, इसीलिये आप ऐसा कहते हैं । ऐसे आदमी न समझाने से मानते हैं, न धमकाने से । यदि डर से मान भी गए, तो कुछ दिनों के लिये । जहाँ उन्हें यह निश्चय हो गया कि कोई कुछ करें-धरेगा नहीं, वस, फिर वही काम करने लगते हैं ।

राधाकांत—यदि गाँठ कुछ परिश्रम से खुल सकती है, तो उसे काट डालना कभी उचित नहीं ।

शिवकुमार—पर खुले जब न ?

राधाकांत—खुल सकती है । फ़ारसी में एक कहावत है—  
“लुत्फ़ कुन लुत्फ़ कि बेगाना शवद, हल्क़ः बग़ोश ।” इसका यह अर्थ है कि नमी और सद्ब्यवहार से शेर भी अपने हो जाते हैं ।

शिवकुमार—यह कहावत रामधन-ऐसे लोगों पर लागू नहीं हो सकती ।



राधाकांत—सब पर लागू हो सकती है, लागू करने का ढंग होना चाहिए। न भी हो तब भी पहले चेष्टा करके देख लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सौ में नब्बे हालातों में यह लागू हो सकती है।

शिवकुमार—मैं इसे नहीं मानता।

राधाकांत—मैं दिखा दूँगा। परंतु इसके पहले ज़रा रामधन के परिवार की सुध लेना तुम्हारा कर्तव्य है।

( ३ )

दूसरे दिन बाबू शिवकुमार से मिलने पर पं० राधाकांत ने पूछा—कहो, रामधन के परिवार की सुध ली, उनकी दशा देखी ?

शिवकुमार ने सर झुकाकर कहा—देखी।

राधाकांत—क्या दशा है ?

एक दीर्घ निःश्वास लेकर बोले—क्या कहें, न कहना ही अच्छा है। यदि मुझे मालूम होता, तो मैं रामधन को फँसाने की चेष्टा कभी न करता। किसानों को जितना कष्ट था, वह उन्हें इतना असह्य नहीं था, जितना असह्य रामधन के परिवार को उनका वर्तमान कष्ट है। उसका बाप रात-दिन बैठा रोया करता है। स्त्री की भी दशा कहने योग्य नहीं। छोटे-छोटे बच्चों को खाने का ठिकाना नहीं। जो कुछ थोड़ा-बहुत था, वह मुक़दमों में खर्च हो गया, कुछ ज़ेवर जुमाना अदा करने में चला गया। दो-चार चाँदी की चीज़ें बची हैं, उन्हें स्त्री सुहाग के आभूषण समझकर बेचना नहीं चाहती थी। मुझे पड़ोसवालों से मालूम हुआ कि दो रोज़ उपवास करने के पश्चात् रामधन की स्त्री पैर के कड़े बेचने पर राज़ी हुई। उफ़ ! कितना कर्तव्य-पूर्ण दृश्य है। शरीर आदमी किसी से माँग नहीं सकते। दो-चार छोटे-मोटे ज़ेवर हैं, वे दो-तीन महीने भी तो पूरा नहीं पाट सकते। उनके समाप्त हो जाने पर वे क्या खाँगे ?

राधाकांत—यह आपकी देश-भक्ति है।

शिवकुमार—क्या कहूँ, मैं तो स्वयं लज्जित हूँ। पर इतना मैं अवश्य कहूँगा कि इससे अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं था।

राधाकांत—खैर, यह तो अवसर पड़े मालूम होगा। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा। अब यदि कहीं कोई ऐसा मामला मिले, तो मुझसे परामर्श ले लीजिएगा।

शिवकुमार—अवश्य, मुझे भी देखना है कि आप किस प्रकार गॉठ को विना काटे ही सुलभाते हैं।

❀

❀

❀

बाबू शिवकुमार राधाकांत से बोले—दो महीने पूर्व आपने मुझसे कहा था कि यदि कोई रामधन का-सा खेल मिले, तो मैं आपसे परामर्श ले लूँगा।

राधाकांत—हाँ, कहा था।

शिवकुमार—वैसा ही एक मामला है।

राधाकांत—कहिण।

शिवकुमार—स्टेशन पर थर्ड क्लास के बुकिंग क्लर्क ( टिकिट बाँटनेवाले बाबू ) मुसाफ़िरों को बहुत तंग करते हैं। जो कुछ नज़र दे देता है, उसे तो तुरंत टिकिट दे देते हैं; जो नहीं देता, उसे नहीं देते। कभी कह देते हैं, रुपया ख़राब है, इन्से बदलो। कभी कह देते हैं, पैसे नहीं हैं, रुपयः तुड़ा लाओ। बाबुओं से कांस्टेबिल भी मिले हुए हैं। कोई मुसाफ़िर उनसे शिकायत करता है, तो कह देते हैं कि "हम क्या करें ? बाबू को कुछ दे दो, टिकिट मिल जायगा।" बेचारे मुसाफ़िर ट्रेन छूट जाने के डर से उन्हें कुछ-न-कुछ पूजकर टिकिट ले लेते हैं।

राधाकांत—क्या सबके साथ यही व्यवहार करते हैं ?

शिवकुमार—सबके साथ तो भला क्या कर सकते हैं। हाँ, बे-पड़े गरीब भादमियों और देहातियों के साथ करते हैं।

राधाकांत—आपने इस संबंध में क्या करना निश्चय किया है ?

शिवकुमार—मैंने अभी कुछ निश्चय नहीं किया, आप ही निश्चय कीजिए ।

राधाकांत—अच्छा कल चलेंगे ।

दूसरे दिन शिवकुमार और राधाकांत स्टेशन पर पहुँचे ।

मुसाफ़िरों के टिकिट लेते समय जो बात बाबू शिवकुमार ने कही थी, वही देखने में आई । ये दोनों खड़े चुपचाप देखते रहे । जब किसी-न-किसी प्रकार सब मुसाफ़िर टिकिट लेकर चले गए और गाड़ी छूटने में केवल पाँच मिनट रह गए, तब पं० राधाकांत ने अपने नौकर को एक दूर के स्टेशन का टिकिट लेने के लिये भेजा और स्वयं खिड़की से कुछ दूर पर खड़े हो गए । नौकर सिखाया-पढ़ाया था । उसने खिड़की के पास जाकर घबराहट दिखाते हुए उक्त स्टेशन का टिकिट माँगा ।

बाबू ने विगड़कर कहा—अभी तक क्या सोते थे ? रेल क्या तुम्हारे बाप की नौकर है, जो तुम्हारे लिये खड़ी रहेगी ? जाओ टिकिट नहीं मिलेगा ।

नौकर ने बड़े दीन भाव में कहा—बाबूजी, बड़ा ज़रूरी काम है । रेल न मिलेगी, तो मर जायँगे । दे दीजिए, भगवान् आपका भला करेगा ।

बाबू—ज़रूरी काम है, तो दूना महसूल देना पड़ेगा ।

नौकर—दूना महसूल !

बाबू—हाँ दूना ।

नौकर तो सिखाया-पढ़ाया था ही—उसने पहले कुछ आपत्ति करने के पश्चात् दूना किराया दे दिया और टिकिट लाकर राधाकांत को दिया ।

राधाकांत टिकिट लेकर खिड़की पर पहुँचे और बाबू से बोले—क्यों साहब, इसका आपने दूना किराया क्यों चार्ज किया ?

बाबू साहब कुछ क्षण के लिये सिटपिटा गए; परंतु फिर सँभल गए और बिगड़कर बोले—दूना किराया कैसा ?

राधाकांत—मैंने अभी अपने नौकर को टिकिट लेने के लिये भेजा था, आपने उससे दूना किराया लेकर टिकिट दिया ।

बाबू—आप झूठ बोलते हैं ।

राधाकांत—क्या झूठ ?

बाबू—हाँ झूठ । हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते । दिन-भर हज़ारों सुसाफ़िर आते हैं, यदि हम ऐसा करें, तो रहने न पाएँ । आप एक शरीफ़ आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ?

राधाकांत हँसकर बोले—तो क्या आपने दूना किराया नहीं लिया ?

बाबू—कदापि नहीं ।

राधाकांत ने एक कागज़ निकाला जिस पर कुछ नक़ली हस्ताक्षर बने हुए थे । उसे बाबू साहब को दिखाकर बोले—देखिए, यह उन सब लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनसे आपने अभी-अभी ज़्यादा चार्ज किया है । आप यह काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसलिये मैंने यह प्रबंध किया । अब यह केस स्टेशनमास्टर के सामने पेश किया जायगा ।

इतना सुनते ही और कागज़ देखकर बाबू साहब के होश उड़ गए । बोले—मुआफ़ कीजिए ।

राधाकांत—मुआफ़ ! अभी आपने मुझे ही आड़े हाथों ले डाला । झूठा बनाने की चेष्टा की और अब मुआफ़ी माँगते हैं ?

बाबू साहब शर्म से सर झुकाकर बोले—निःसंदेह मुझसे बड़ा अपराध हुआ, परंतु अब आप दया कीजिए । सच जानिए, मैं किसी काम का न रहूँगा, बेसौत मर जाऊँगा ।

राधाकांत—पर आप तो हरएक के साथ यही व्यवहार करते हैं ।

बाबू—बाबूजी, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आप चला करें।  
आगे यह काम कभी न होगा।

राधाकांत—क्या आप सच कहते हैं ?

बाबू—सच ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

राधाकांत—पर मुझे विश्वास कैसे हो ?

बाबू—मैं कसम खाता हूँ कि यदि आगे कभी ऐसा करे, तो...

राधाकांत—मुझे आप पर विश्वास है और पूरी आशा है कि आप-ऐसा भला आदमी अपनी कसम का पूरा ध्यान रखेगा। भूल हर एक मनुष्य से होती है, पर जो अपनी भूल मान लेते हैं और आगे सतर्क रहते हैं, वे सच्चे शरीर हैं।

राधाकांत ने बड़ी देर तक बाबू साहब को समझाया, हर प्रकार ऊँच-नीच दिखाए, उनके इस व्यवहार ने गरीबों को गिराना कष्ट होता है, उसका चित्र खींचा।

इसके पश्चात् उन्होंने वह कागज़ फाड़ डाला और बाबू साहब से हाथ मिलाकर बोले—देखिए, एक बार मैं फिर सच्चे मित्र की हैसियत से आपको यह सलाह देता हूँ कि आप न तो यह काम स्वयं करें और न अपने सामने किसी दूसरे को करने दें।

बाबू साहब की आँखों में आँसू भर आए। उन्होंने गद्गद कंठ से कहा—ईश्वर चाहेगा, तो ऐसा ही होगा।

राधाकांत शिवकुमार के साथ घर की ओर चल दिए। रास्ते में राधाकांत ने पूछा—कहिए, अब आपको विश्वास हुआ ?

शिवकुमार—हाँ, इस समय तो उसकी बातों से यही मालूम होता है कि न करेगा, परंतु यदि अब भी करे ?

राधाकांत—तब भी मैं एक बार और उसे सचेत करूँगा।

शिवकुमार—और यदि तब भी करे ?

राधाकांत—ऐसे आदमी, विशेषतः जिन्हें अपनी आबरू का कुछ

भी ख़याल है, दो-तीन बार सचेत किए जाने पर न करेंगे। जब तक मनुष्य की आँखों का पानी नहीं ढलता, तब तक वह सरलता-पूर्वक सुधार सकता है, परंतु आँखों का पानी ढल जाने से उसका सुधार बड़ा कठिन हो जाता है।

शिवकुमार—यह कैसे मान लिया जाय कि इसकी आँख का पानी नहीं ढला।

राधाकांत—इसलिये कि इसका पाप प्रकट नहीं हुआ। जब तक मनुष्य का पाप छिपा रहता है, तब तक उसकी आँखों का पानी नहीं ढलता, परंतु जब उसका पाप सब पर प्रकट हो जाता है, तब उसकी आँखों का पानी ढल जाता है और ऐसे आदमी का सुधार कठिन हो जाता है। केवल एक यही बात कि “हमारे पाप को सब लोग न जान जाँय” मनुष्य को आगे के लिये पाप करने से रोकती है।

शिवकुमार—हाँ यह ठीक है और यह मैं मानता हूँ कि इस युक्ति से अधिकांश सफलता मिल सकती है।

## प्रेस का पापी

( १ )

सुगलसराय-पेशावर-मेल बरेली-स्टेशन पर आकर रुकी । मेल के सकते ही तीन-चार टिकिट-कलेक्टर तथा स्टेशन के अन्य कर्मचारी ट्रेन से मुसाफिरों को उतारने लगे । यह देखकर सब मुसाफिर चौकले हुए कि मामला क्या है । पूछने पर ज्ञात हुआ कि लखनऊ से पैसैंजर आ रही थी, उसका एंजिन होम-सिगनेल के पाल पटरी से उतर गया । अतएव, लाइन रुक जाने से, न मेल उधर जा सकती है, न पैसैंजर उधर आ सकती है । यह सुनकर लोगों के हवास उड़ गए । एक अँगरेज़ी-पढ़े-लिखे महाशय ने, जिनकी अवस्था २८-२९ वर्ष के लगभग थी, और जो सूरत-शकल से शरीफ़ आदमी मालूम होते थे, एक टिकिट-कलेक्टर से पूछा—क्यों साहब, क्या यहाँ पड़े रहना होगा ?

टिकिट-कलेक्टर ने कहा—नहीं, पड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं । शाहजहाँपुर को तार गया है, वहाँ से एंजिन आता है, और वह पैसैंजर को लखनऊ लौटा ले जायगा ।

वह—और यह मेल ?

टि०-क०—यह फिर सहारनपुर लौट जायगी ।

वह—और हम लोग कहाँ जायँगे ?

टिकिट-कलेक्टर ने मुँह फिराकर कहा—आप कहाँ जाना चाहते हैं ?

वह—लखनऊ ।

टि०-क०—तो आप भी लखनऊ जा सकते हैं ।

वह—कैसे ? यह गाड़ी तो सहारनपुर लौट जायगी ।

टि०-क०—आप अभी समझे नहीं । देखिए, मेल लखनऊ नहीं जा सकती ; पर सहारनपुर लौट सकती है । इसी प्रकार पैसँजर लखनऊ वापस जा सकती है । इसलिये यह प्रबंध किया गया है कि इस मेल को पैसँजर बनाकर सहारनपुर लौटा दिया जाय और उस पैसँजर को मेल बनाकर लखनऊ वापस किया जाय । इसलिये इस मेल के मुसाफ़िर पैसँजर में जायँगे और पैसँजर के मुसाफ़िर इस मेल में आवँगे । अब आप समझ गए ?

वह महाशय कुछ घबराकर बोले—हाँ, समझ तो गया, पर पैसँजर कितनी दूर है ?

टि०-क०—होम-सिगनेल के पास है, यहाँ से कोई डेढ़ फ़र्लिंग का फ़ालका होगा ।

वह—तो उत्तनी दूर असवाब कैसे जायगा ? कोई कुली भी तो नहीं दिखाई पड़ता, न-जाने सब आज कहाँ मर गए ।

टिकिट-कलेक्टर ने कहा—कुली तो एक भी खाली नहीं है । वे इस ट्रेन के पार्सल ल और ढाक ढो-ढोकर पैसँजर में पहुँचा रहे हैं और पैसँजर के पार्सल इसमें ला रहे हैं ।

वह महाशय कुछ विगड़कर बोले—रेलवे कुलियों से अपना काम ले रही है ; पर मुसाफ़िरों का कुछ खयाल नहीं ।

टिकिट-कलेक्टर ने कहा—वह काम बहुत ज़रूरी है जनाव, मेल का जाना नहीं रुक सकता । मुसाफ़िर तो आगे-पीछे भी जा सकते हैं । आप खगर असवाब ले जा सकते हों, तो ले जाइए, नहीं तो यहीं पड़े रहिए । जब लाइन साफ़ हो जाय और कोई दूसरी ट्रेन उधर जाय, तब उसमें चले जाइएगा । परंतु लाइन छाठ-दस घंटे के पहले साफ़ न हो सकेगी ।

यह पाएकर टिकिट-कलेक्टर एक घोर चला गया । वह महाशय



बड़े परेशान हुए। क्या करें, क्या न करें। उन्होंने गाड़ी में बैठी हुई अपनी पत्नी से कहा—अब क्या करना चाहिए? कुली कोई है नहीं, और असबाब काफ़ी है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा ?

पत्नी—न हो, यहीं पड़े रहो। जब कोई दूसरी गाड़ी जाय, तब उसमें चले चलना।

वह—आठ-दस घंटे पड़े रहना पड़ेगा। इस तरह तो दस-ग्यारह बजे तक लखनऊ पहुँच जायँगे। ख़ाली असबाब की दिक्कत है। असबाब किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाता, तो—अच्छा देखो, मैं किसी कुली को देखता हूँ।

यह कहकर वह प्लेटफ़ार्म पर इधर-उधर कुली की तलाश करने लगे। तीन-चार कुली फ़्लर्ट तथा सेकिंड क्लास के मुसफ़िरों का असबाब ढो रहे थे। उनमें से एक से उन्होंने कहा—क्यों भाई, हमारा असबाब भी पहुँचा दोगे ?

कुली—अभी छुट्टी नहीं है, बाबू। साहब लोगों का असबाब पहले पहुँचा दें, तब देखा जायगा।

वह—अरे भाई, जो मज़दूरी साहब लोग दें, वही हमसे भी ले लेना।

कुली—मजूरी की कोई बात नहीं, टेसन-मास्टर खपा होंगे। उनका हुकुम है कि पहले साहब लोगों का असबाब पहुँचाओ।

उक्त महाशय मन-ही-मन बड़े क्रुद्ध हुए। स्टेशन-मास्टर की तो सूरत से उन्हें नफ़रत हो गई। साहब लोगों के सौभाग्य पर ईर्ष्या और अपने दुर्भाग्य पर चोभ भी हुआ। सोचने लगे—समय की बात है। रुपया-पैसा सब खर्चने को तैयार हैं, फिर भी फ़ंबलत कुली नहीं नसीब होता। इस समय उन्हें उन लोगों पर भी ईर्ष्या होने लगी, जिनके इतनी हिम्मत और इतना बल था कि वे अपना असबाब सिर पर जादे दौड़े चले जा रहे थे। अपने मन में कहा—हमसे तो ये ही

अच्छे ! किसी की सहायता के मुहताज तो नहीं हैं । वह इधर-उधर घूमकर लौट आए और पत्नी से बोले—क़ुली तो कोई नहीं है । जो दो-एक हैं भी, वे साहब लोगों का असबाब ढो रहे हैं । ग़ोरे चमड़े के आगे काले हिंदोस्तानियों को कौन पूछता है । ख़ैर, गाड़ी से तो उतरो ।

वेचारी स्त्री गाड़ी से उतरी । उसके साथ एक लड़की भी उतरी, जिसकी अवस्था १४-१५ वर्ष की होगी । लड़की अत्यंत रूपवती थी । उसके मुख की आकृति कुछ-कुछ उक्त महाशय से मिलती थी । लड़की ने कहा—भैचाली, असबाब कैसे उतरेगा ?

वह महाशय जोश में आकर बोले—मैं ही उतारूँगा ।

वह गाड़ी में चढ़ गए । काँख-फूँखकर तीन ट्रंक और एक विस्तर का पुलिंदा नीचे प्लेटफ़ार्म पर रक्खा । असबाब उतारकर रुमाज से माथे का पसीना पोछते हुए कहने लगे—क्या कहें, बेकार यहाँ पड़े रहना पड़ेगा । इस समय यह असबाब खल गया । उसी समय एक सुंदर तथा यल्लिष्ठ युवक, जिसकी उम्र २३-२४ वर्ष के लगभग होगी, दौड़ता हुआ आया और बोला—महाशय, इस गाड़ी में मेरा छाता रह गया है, आपने तो नहीं देखा ?

वह—जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा । आप गाड़ी में देख लीजिए ।

नवयुवक गाड़ी में चढ़ गया और ऊपर के एक बर्थ से छाता उठा लाया ।

वह महाशय बोले—क्यों साहय, मिल गया ?

नवयुवक—जी हाँ । यड़ी ख़ैर हुई, किसी मुसाफ़िर की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो लेकर चल देता । कहिए, आप कैसे खड़े हैं ? क्या पैसंजर से आए हैं ?

वह महाशय तो भरे हुए खड़े ही थे । सहानुभूति की आशा से उन्होंने कहा—क्या कहें साहय, पैसंजर में जाना चाहते हैं ; पर अन्-बाएँ ले जाने को कोई क़ुली नहीं मिलता ।

नवयुवक—आप कहाँ जायेंगे ?

वह—लखनऊ ।

नवयुवक—लखनऊ तो मैं भी जा रहा हूँ । गाड़ी आध घंटे में छूट जायगी ।

वह महाशय विषाद-पूर्ण स्वर से बोले—क्या करें, मजबूरी है ।

उसी समय पैसेंजर के मुसाफिर आकर मेल-ट्रेन में भरने लगे ।

नवयुवक कुछ देर तक खड़ा सोचता और उन महाशय के असबाब की ओर देखता रहा । तत्पश्चात् बोला—मैं आपका असबाब पहुँचा दूँगा । आप यहाँ स्त्रियों के पास खड़े रहें, मैं एक-एक करके सब चीज़ें पहुँचाए देता हूँ । मेरे एक मित्र वहाँ बैठे हैं । उनको असबाब ताकने के लिये खड़ा कर दूँगा । वह वहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहिए, और मैं सब चीज़ें पहुँचा दूँगा । वह महाशय कुछ मुसकिराकर बोले—इस सहानुभूति के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ; परंतु आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं दूसरी गाड़ी से चला आऊँगा ।

नवयुवक—दूसरी गाड़ी कहीं रात को जायगी, तब तक आप यहाँ पड़े रहेंगे ? बड़ी तकलीफ़ होगी !

उन महाशय ने कहा—जी हाँ, तकलीफ़ तो होगी ही ; पर क्या किया जाय ?

नवयुवक—तो आप तकलीफ़ क्यों उठावेंगे ? मैं जब असबाब ले जाने के लिये तैयार हूँ, तब आपको क्या आपत्ति है ? यह विश्वास रखिए, मुझे ज़रा भी कष्ट न होगा । शरीर में यथेष्ट बल है । हाँ, एक बात अवश्य है । यदि आपको मुझ पर विश्वास न हो, तो दूसरी बात है ।

बात भी यही थी । वह महाशय यही सोच रहे थे कि कौन जाने यह कौन है । उदाहरणों और उग भी प्रायः भले आदमियों के चेहरे रहते हैं । परंतु जब नवयुवक ने बहुत निर्भीकतापूर्वक तय

भोलेपन के साथ उक्त बात कही, तो उन महाशय को कुछ-कुछ विश्वास हो गया। वह बोले—नहीं विश्वास क्यों नहीं है। मैं यह सोच रहा हूँ कि आपको क्यों कष्ट दूँ।

‘सुझे कोई कष्ट नहीं’ कहकर नवयुवक ने तुरंत अपना छाता प्लेट-फार्म पर डाल दिया और झट एक ट्रंक उठाकर कंधे पर रख लिया, और लेकर चल दिया। वह महाशय मुँह ताकते रह गए।

पत्नी ने कहा—न-जाने कौन है, कौन नहीं। वाह ! तुमने मना भी नहीं किया ? कौन ऐसी जल्दी पड़ी है, रात को चले चलेंगे। अरे उसके पीछे जाओ, उस ट्रंक में मेरे और चमेली के गहने हैं। तुम्हारी तो जैसे सिट्टी-पिट्टी भूली हुई है। जल्दी दौड़ो, कहीं लेकर चल न दे।

पर पति महाशय ने भी दुनिया देखी थी। उन्होंने कहा—तुम तो सब को चोर ही समझती हो। यह कोई शरीर आदमी है। ऐसा कभी नहीं कर सकता कि लेकर चल दे।

यद्यपि उन्हें विश्वास था कि नवयुवक कोई भला आदमी है, तथापि उनका हृदय धड़क रहा था। ईश्वर पर भरोसा किए चुपचाप खड़े देखते रहे। थोड़ी देर में नवयुवक लौट आया, और दूसरा ट्रंक ले गया। वह महाशय पत्नी से बोले—तुम समझती थीं, चोर हैं। जो चोर होता, तो लौटकर आता ?

पत्नी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में नवयुवक फिर लौट आया, और तीसरा ट्रंक भी उठाकर ले चला। इस बार उक्त महाशय ने बिस्तर का पुर्तिका उठाकर अपने कंधे पर रख लिया, और अपनी पत्नी तथा बहन को साथ लेकर नवयुवक के पीछे चले।

( २ )

उपर्युक्त घटना को हुए छः मास व्यतीत हो गए। ऊपर जिन महाशय का हाल लिखा गया है, उनका नाम मोहनलाल है। आप

जाति के खत्री हैं। पढ़े-लिखे योग्य आदमी हैं। एक लिमिटेड कंपनी में दो सौ रूपए मासिक वेतन पर काम करते हैं। आपके परिवार में इस समय आपके अतिरिक्त आपकी पत्नी, एक क्वॉरी बहन, आपकी माता, तथा एक पुत्र है, जिसे संसार में आए अभी केवल एक मास हुआ है।

रविवार का दिन था। बाबू मोहनलाल अपने कमरे में बैठे थे। उसी समय एक युवक आया। उसे देखते ही मोहनलाल कह उठे—  
आओ भाई श्यामाचरण, कहाँ रहे ?

यह नवयुवक वही था, जिसने बरेली स्टेशन पर मोहनलाल का असबाब पैसेंजर ट्रेन में पहुँचाया था। उसी दिन से दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। श्यामाचरण ने एम्० ए० पास किया था। अब वह एक हाईस्कूल में, १५०) मासिक वेतन पर, सेकिंड मास्टर थे। श्यामाचरण सारस्वत-ब्राह्मण और अविवाहित थे। अपने परिवार में अकेले ही थे। उनके पिता का देहांत उस समय हो गया था, जब उनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। जब वह बीस वर्ष के हुए, तब माता भी परम-धाम को चल दीं। वैसे बनारस में उनके चाचा-ताऊ इत्यादि रहते थे, पर श्यामाचरण उन सब से अलग, लखनऊ में, आनंद-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

श्यामाचरण मोहनलाल के पास बैठ गए। मोहन बाबू ने पूछा—  
आज कल तुम दुबले बहुत हो रहे हो। क्या कारण है ?

श्यामाचरण ने मुसकिराकर कहा—सच ? मैं दुबला हो गया हूँ ?

मोहन०—वाह, इसमें भी कोई मज़ाक की बात है ?

श्यामाचरण—मुझे तो नहीं मालूम होता कि मैं दुबला हो रहा हूँ।

मोहन०—तुम्हें क्या मालूम होगा।

श्यामा०—आजकल गरमी अधिक पड़ रही है, इसी कारण कुछ खाया-पिया नहीं जाता।

मोहन०—तुम विवाह कर डालो । विना पत्नी के सुख नहीं मिलता ।

विवाह का नाम सुनते ही श्यामाचरण का चेहरा कुछ उदास हो गया । उन्होंने एक दबी हुई लंबी साँस छोड़ी ।

मोहन०—क्यों, विवाह का नाम सुनकर तुम उदास क्यों हो गए ?

श्यामाचरण अपने को सँभालकर, मुँह पर ज़बरदस्ती मुसकिराहट लाकर, बोले—नहीं, उदास होने की तो कोई बात नहीं है ।

मोहन०—नहीं जी, कुछ बात तो अवश्य है ।

श्यामा०—नहीं, बात कुछ भी नहीं है ।

मोहन०—तो फिर विवाह क्यों नहीं करते ?

श्यामा०—घभी विवाह करने की इच्छा नहीं है ।

मोहन०—क्यों ?

श्यामा०—ऐसे ही ।

मोहन०—चाह ! अच्छी 'ऐसे ही' है । कोई कारण तो अवश्य होगा ।

श्यामा०—नहीं, कारण कुछ भी नहीं है ।

मोहन०—फोई बात तो अवश्य है । तुम मुझसे उसे छिपाते हो । जब से मेरी-तुम्हारी मित्रता हुई, तब से मैंने कई बार तुमसे विवाह कर लेने के लिये कहा । पहले तो दो-चार बार तुमने मेरी बात पर ध्यान दिया था, और विवाह करने की इच्छा भी प्रकट की थी, परंतु इधर कुछ दिनों से विवाह का नाम सुनते ही तुम कुछ अप्रतिभ-से हो जाते हो । क्या बात है ?

श्यामा०—तुम तो बात की बात निकालने लगते हो । कह तो रहा हूँ, कारण बेजल यही है कि घभी मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है, फिर भी तुमको विश्वास नहीं होता :

मोहन०—खैर, तुम कहते हो, इसलिये विश्वास किए जाता हूँ।

श्यामा०—मैं कहता हूँ, इसलिये ?

मोहन०—हाँ, और क्या ?

श्यामा०—खैर, मेरे कहने से ही सही ; किसी तरह तो विश्वास करो।

मोहन०—चमेला के व्याह की तिथि तो ठीक हो गई।

श्यामाचरण कुछ चौंक पड़े। कुछ सेकिडों के लिये उनके मुख का वर्ण श्वेत हो गया ; परंतु वह सँभलकर बोले—कौन तिथि निश्चित हुई ?

मोहन०—आषाढ़ में केवल एक लगन छठ की तो है ही, वही निश्चित हुई है।

श्यामा०—एक महीना समझो।

मोहन०—हाँ, और क्या।

श्यामा०—बड़ी प्रसन्नता को बात है।

×

×

×

मोहनलाल की बहन चमेला का विवाह है। मोहनलाल उसी में दत्तचित्त हैं। श्यामाचरण भी उन्हें काफ़ी सहायता दे रहे हैं। मोहनलाल श्यामाचरण से बहुत प्रेम रखते हैं। श्यामाचरण की सज्जनता, उनके गुणों—विशेषकर उनकी सरलता तथा शुद्धहृदयता—ने मोहन को सुगंध कर लिया है। मोहन यदि संसार में किसी को अपना सच्चा मित्र समझते हैं, तो केवल श्यामाचरण को। श्यामाचरण के लिये वह सब कुछ करने को तैयार हो सकते हैं। इधर श्यामाचरण भी मोहन से अत्यंत प्रेम रखते हैं। मोहन की मित्रता के कारण ही वह लखनऊ में केवल डेढ़ सौ मासिक वेतन पर पड़े हुए हैं। उन्हें बाहर ढाई-तीन सौ मासिक तक की नौकरी मिलती थी; पर उन्होंने नामंज़ूर कर दिया। मोहन ने कहा भी कि

अच्छा है, चले जाओ, वेतन अच्छा मिल रहा है, ऐसा अवसर क्यों खो रहे हो ? परंतु श्यामाचरण ने यही उत्तर दिया कि मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिये डेढ़ सौ ही यथेष्ट हैं। बाहर मुझे तुम्हारा-सा मित्र कहाँ मिलेगा ? यह मैं मानता हूँ कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मेरी-तुम्हारी मित्रता में कभी फर्क नहीं पड़ सकता ; पर मित्रता से जो सुख तथा आनंद मिलता है, वह तो दूर रहने पर नहीं मिल सकता।

चमेली के विवाह में श्यामाचरण ने खूब परिश्रम किया। एक दिन मोहन ने उनसे कहा—तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो ? एक तो यों ही दुर्बल हो रहे हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस पर इतना परिश्रम करते हो। परंतु श्यामाचरण ने मोहन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चमेली का विवाह सकुशल हो गया।

चमेली के ससुराल चले जाने के दो दिन बाद श्यामाचरण ने मोहन से कहा—कहो, तो मैं भी कुछ दिनों के लिये बाहर चलाऊँ। ज़रा बाहर का जल-वायु मिले, तो शायद स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाय।

मोहन०—बड़ी अच्छी बात है। कहाँ जाओगे ?

श्यामा०—हरद्वार जाने की इच्छा है।

मोहन०—अच्छी बात है। स्थान अच्छा है, जल-वायु भी अच्छा है। वहाँ कितने दिन रहोगे ?

श्यामा०—स्थूल मुलने तक वहीं रहूँगा। पाठ बुझाई को स्कूल खुलेगा। मैं छः-सात तारीख तक आ जाऊँगा।

मोहन०—अच्छी बात है।

( ३ )

चमेली का विवाह हुए छः मास व्यतीत हो गए। श्यामाचरण का स्वास्थ्य दिन-दिन दिनदहा हो गया। यद्यपि मोहनलाल परावर



मोहन०—खैर, तुम कहते हो, इसलिये विश्वास किए जाता हूँ।

श्यामा०—मैं कहता हूँ, इसलिये ?

मोहन०—हाँ, और क्या ?

श्यामा०—खैर, मेरे कहने से ही सही ; किसी तरह तो विश्वास करो।

मोहन०—चमेला के व्याह की तिथि तो ठाँक हो गई।

श्यामाचरण कुछ चौंक पड़े। कुछ सेकिडों के लिये उनके मुख का वर्ण श्वेत हो गया ; परंतु वह संभलकर बोले—कौन तिथि निश्चित हुई ?

मोहन०—आपाद में केवल एक लगन छठ की तो है ही, वही निश्चित हुई है।

श्यामा०—एक महीना समझो।

मोहन०—हाँ, और क्या।

श्यामा०—बड़ी प्रसन्नता की बात है।

×

×

×

मोहनलाल की वहन चमेली का विवाह है। मोहनलाल उसी में दत्तचित्त हैं। श्यामाचरण भी उन्हें काफ़ी सहायता दे रहे हैं। मोहनलाल श्यामाचरण से बहुत प्रेम रखते हैं। श्यामाचरण की सज्जनता, उनके गुणों—विशेषकर उनकी सरलता तथा शुद्धहृदयता—ने मोहन को सुग्ध कर लिया है। मोहन यदि संसार में किसी को अपना सच्चा मित्र समझते हैं, तो केवल श्यामाचरण को। श्यामाचरण के लिये वह सब कुछ करने को तैयार हो सकते हैं। इधर श्यामाचरण भी मोहन से अत्यंत प्रेम रखते हैं। मोहन की मित्रता के कारण ही वह लखनऊ में केवल डेढ़ सौ मासिक वेतन पर पड़े हुए हैं। उन्हें बाहर ढाई-तीन सौ मासिक तक की नौकरी मिलती थी; पर उन्होंने नामंज़ूर कर दिया। मोहन ने कहा भी कि

अच्छा है, चले जाओ, वेतन अच्छा मिल रहा है, ऐसा अवसर क्यों खो रहे हो ? परंतु श्यामाचरण ने यही उत्तर दिया कि मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिये डेढ़ सौ ही यथेष्ट हैं। बाहर मुझे तुम्हारा-सा मित्र कहाँ मिलेगा ? यह मैं मानता हूँ कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मेरी-तुम्हारी मित्रता में कभी फर्क नहीं पड़ सकता ; पर मित्रता से जो सुख तथा आनंद मिलता है, वह तो दूर रहने पर नहीं मिल सकता।

चमेली के विवाह में श्यामाचरण ने खूब परिश्रम किया। एक दिन मोहन ने उनसे कहा—तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो ? एक तो यों ही दुर्बल हो रहे हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस पर इतना परिश्रम करते हो। परंतु श्यामाचरण ने मोहन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चमेली का विवाह सज्जशल हो गया।

चमेली के ससुराल चले जाने के दो दिन बाद श्यामाचरण ने मोहन से कहा—कहो, तो मैं भी कुछ दिनों के लिये बाहर घूम आऊँ। ज़रा बाहर का जल-वायु मिले, तो शायद स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाय।

मोहन०—बड़ी अच्छी बात है। कहाँ जाओगे ?

श्यामा०—हरद्वार जाने की इच्छा है।

मोहन०—अच्छी बात है। स्थान अच्छा है, जल-वायु भी अच्छा है। वहाँ कितने दिन रहोगे ?

श्यामा०—स्कूल खुलने तक वहीं रहूँगा। आठ जुलाई को स्कूल खुलेगा। मैं छः-सात तारीख तक आ जाऊँगा।

मोहन०—अच्छी बात है।

( ३ )

चमेली का विवाह हुए छः मास व्यतीत हो गए। श्यामाचरण का स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता ही गया। यद्यपि मोहनलाल बराबर

उन्हें उनके स्वास्थ्य की ओर से सचेत करते रहते थे, पर श्यामाचरण इस ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। प्रायः यही कहकर टाल देते थे कि दवा खाता हूँ, और उससे फायदा भी है। परंतु यथार्थ में न तो उन्होंने किसी वैद्य अथवा डॉक्टर से अपने रोग की परीक्षा कराई और न कभी कोई दवा ही खाई। नतीजा यह हुआ कि उन्हें शय्या की शरण लेनी पड़ी। उनकी यह दशा देखकर मोहन बड़े चिंतित हुए। वह श्यामाचरण को अपने ही घर में ले आए। डॉक्टर से उनके रोग की परीक्षा करवाई। डॉक्टर ने श्यामाचरण को भल भाँति देखा-भाला। तत्पश्चात् मोहनलाल को अलग ले जाकर उन्होंने कहा—रोग तो बड़ा भयंकर है।

मोहन ने घबराकर पूछा—क्या है ?

डॉक्टर—तपे-दिक्र !

मोहन०—ओरू ! फिर ?

डॉक्टर—दिक्र की तीसरी अवस्था है। रोग प्रति दिन असाध्य होता जा रहा है। पर आप घबरायें नहीं, मैं पूरी चेष्टा करूँगा।

डॉक्टर साहब नुस्खा लिखकर चले गए।

मोहन का चित्त बड़ा व्याकुल हुआ। उन्हें श्यामाचरण पर क्रोध भी आया कि लापरवाही करके इसने अपने हाथों अपना रोग बढ़ा लिया।

श्यामाचरण ने मोहन से पूछा—क्यों भाई, डॉक्टर ने क्या कहा ?

मोहन०—कहा क्या, यही कहते थे कि जल्द आराम हो जायेंगे। लापरवाही के कारण रोग कुछ बढ़ गया है। भाई श्यामाचरण, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रहा हूँ, पर तुम सदैव यही कहते रहे कि दवा खाता हूँ। अफसोस ! यदि मैं ऐसा जानता, तो स्वयं अपने हाथ से तुम्हें दवा खिलाया करता। और, कोई हर्ज नहीं, अब भी कर नहीं दिगड़ा तुम शीघ्र उठ खड़े होगे।

श्यामाचरण के मुख पर एक हलकी-सी मुसकिराहट दौड़ गई । दो मास तक लगातार मोहनलाल मित्र की चिकित्सा कराते रहे । वह और उनकी पत्नी, दोनों श्यामाचरण की यथेष्ट सेवा-सुश्रूषा भी करते रहे । मोहनलाल की बुरी दशा थी । वह यही समझते थे कि उनका सगा तथा परम प्रिय भाई बीमार है । मित्र की चिकित्सा में जो कुछ खर्च होता था, सो सब वह अपने पास से खर्च करते थे । यद्यपि श्यामाचरण के कुछ रुपए बैंक में जमा थे, और श्यामाचरण ने मोहन को अधिकार दे दिया था, कह दिया था कि बैंक से रुपए ले लो, परंतु मोहन ने उस रकम में से एक पैसा भी नहीं लिया । श्यामाचरण से उन्होंने यही कह दिया कि बैंक से रुपए उठा लिए, और उन्हीं में से चिकित्सा का खर्च चल रहा है ।

श्यामाचरण अपने प्रति मोहन का यह प्रेम देखकर कभी-कभी एकांत में रोया करते थे । कभी-कभी कह उठते थे—मोहन, तुम देवता हो, और मैं पिशाच !

इसी प्रकार कुछ दिन और व्यतीत हुए । श्यामाचरण की दशा रत्ती-भर भी नहीं सुधरी । उलटी प्रति दिन बिगड़ती ही गई । अंत को एक दिन डॉक्टर ने मोहन से स्पष्ट कह दिया कि आप व्यर्थ इनकी चिकित्सा में रुपए नष्ट कर रहे हैं, यह अच्छे नहीं हो सकते । यह सुनकर मोहन को बड़ा दुःख हुआ । उनकी आँखों से आँसू गहने लगे ।

एक दिन मोहन शाम को ऑफिस से लौटे । पत्नी से भेंट होते ही उन्होंने पूछा—कहो, श्यामाचरण का क्या हाल है ?

पत्नी ने कहा—हाल अच्छा नहीं है, घड़ियाँ टल रही हैं । आज मुझे एक बंद लिफाफा दिया, और बोले—भाई साहब को दे देना ।

मोहनलाल बोले—कहाँ हैं, लाओ ।

पत्नी ने मेज़ की दराज़ से एक बंद लिफ़ाफ़ा निकालकर पति को दिया ।

मोहनलाल ने उसे तुरंत फाड़ डाला । उसमें से एक लंबा पत्र निकला । पत्र में लिखा था—

“प्यारे मोहन,

यद्यपि मैं यह पत्र अग़च्छी दशा में लिख रहा हूँ, परंतु तुम्हारे हाथों में उस समय पहुँचेगा, जब मेरा अंत-समय अत्यंत निकट होगा । मोहन, तुम मनुष्य नहीं, देवता हो । तुम्हारा-सा व्यक्ति जिसका मित्र हो, संसार में उसके बराबर भाग्यशाली और कौन हो सकता है ? परंतु, मित्र, चौकना नहीं, तुमसे मित्रता करने के कारण ही आज मुझे यह संसार छोड़ना पड़ रहा है । विश्वास रखो, इसमें तुम्हारा लेश-मात्र दोष नहीं, दोष मेरे भाग्य का है । तुम कारण जानने के लिये उत्सुक हो रहे होगे । कारण बताता हूँ । विचलित न होना । क्रोध न करना । शांत भाव से संपूर्ण पत्र पढ़ डालना, फिर मेरे संबंध में जो उद्गार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हों, उन्हें निकाल लेना । साल-भर की बात है, जब बरेली में पैसैंजर-ट्रेन का डिरेलमेंट ( पटरी से उतर जाना ) हुआ था । मैं मेल ट्रेन से लखनऊ आ रहा था । तुम भी उसी ट्रेन पर लखनऊ आ रहे थे । मैं ट्रेन में छाता भूल गया था, उसे लेने के लिये फिर लौटा । आह ! मैं किस बुरी घड़ी में छाता गाड़ी में छोड़ गया था ! निस्संदेह वह मेरे जीवन की महाअशुभ घड़ी थी । कौन जानता था, छाता लेने के लिये लौटकर आना मेरी मृत्यु को इतनी जल्दी बुला लेगा । न मैं छाता लेने को लौटता और न आज मुझे संसार से इतनी अल्प अवस्था में विदा होना पड़ता । परंतु विधना की रचना को कौन मिटा सकता है ? छाता लेने को जाते समय मेरी तुमसे बात-चीत हुई । तुम्हारी बेवसी और फट देखकर मेरे हृदय पर चोट

लगी। मैंने तुम्हारा असबाब ट्रेन में पहुँचाया। वही दिन—हाँ, अशुभ दिन था, जब मैं और तुम, दोनों मित्रता के सूत्र में बँध गए। तुमसे मित्रता होते ही मृत्यु की वक्र-दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, और उसने मुझे धीरे-धीरे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया।

“मोहन मैं बड़ा पापी हूँ, इसलिये तुम्हारे आगे अपना पाप प्रकट करते डरता हूँ। हाँ, यह जानते हुए भी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो—यहाँ तक कि यदि मेरा पाप तुम पर प्रकट भी हो जाय, तो तुम मुझसे घृणा नहीं करोगे—मैं अपना पाप प्रकट करते डरता हूँ। परंतु उसे प्रकट किए बिना इस संसार से जाने में कष्ट होगा, इसलिये बताता हूँ—सुनो। तुमसे मित्रता होने के पश्चात् जब मेरी-तुम्हारी घनिष्टता बढ़ी और मैं तुम्हारे घर स्वतंत्रता-पूर्वक आने-जाने लगा, तब अचानक एक दिन मुझे ज्ञात हुआ कि मैं चमेली से प्रेम करता हूँ। देखो, विचलित मत होना, पहले पूरा पत्र पढ़ डालना। यह मेरी अंतिम भिन्ना—अंतिम याचना है। हाँ, तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं चमेली से प्रेम करता हूँ; क्योंकि जब मैं उसे देखता था, तब मेरा हृदय मेरे वश में नहीं रहता था। जिस दिन मुझे यह मालूम हुआ, उस दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा—‘ए’, ! यह क्या ? मोहन की वहिन के प्रति मेरे हृदय में यह भावना ! मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो, हृदय से यह भावना निकालनी ही पड़ेगी। उसी दिन से मैं हृदय से युद्ध करने लगा, और उसी युद्ध के परिणाम-स्वरूप आज तुमसे सदैव के लिये बिदा हो रहा हूँ। मोहन, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने कितनी रातें तारे गिनकर काटी हैं, कितने घंटे रो-रोकर व्यतीत किए हैं। जो रातें तुमने सुख की नींद में व्यतीत की हैं, वे ही रातें मैंने तड़प-तड़पकर बिताई हैं। परंतु इतने पर भी मैंने हृदय को वश में रक्खा।

तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसी बातचीत नहीं की, जिससे तुम कुछ समझ सकते। यद्यपि मेरी शारीरिक अवस्था देखकर तुम्हें यह जान पड़ता था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु इससे अधिक तुम कुछ नहीं जान सके। यह क्यों? इसीलिये कि मैंने निश्चय कर लिया था, यदि हृदय किसी के सामने ज़रा भी मचला, तो उसे चीरकर फेंक दूँगा, और यदि जिह्वा ने कोई बात कही, तो उसे काट डालूँगा। दो-एक बार मेरे जी में आया कि तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुमसे सब बातें कह दूँ, और प्रार्थना करूँ कि यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहते हो, तो चमेली का विवाह मेरे साथ कर दो। परंतु मुझे स्वयं अपने इस विचार पर हँसी आती थी। सोचता था, यह कभी संभव नहीं हो सकता। इस विचार को मन में लाना निरापागलपन है। मोहन खत्री हैं, मैं ब्राह्मण। ऐसा विवाह होना कभी संभव नहीं हो सकता। ओम्! कितनी वेदना, कितना कष्ट होता था। अपने जी की बात किसी से कहना तो दूर रहा, उसका संकेत भी नहीं कर सकता था। हृदय का दुःख कहने-सुनने से बहुत कुछ हलका हो जाता है; परंतु दुर्भाग्य ने मेरे साथ इतनी रिश्रायत भी नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं भीतर-ही-भीतर घुलता गया, और अब इस संसार से विदा हो रहा हूँ। भाई मोहन, विश्वास रखो, मैंने बहुत चेष्टा की, हृदय से बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु प्रेम पर विजय न प्राप्त कर सका। मेरी पराजय हुई और प्रेम की विजय। जिस समय मैं आवेश में आकर प्रेम को परास्त करने के लिये जोर लगाता था, उस समय निष्ठुर प्रेम, जानते हो, क्या करता था? वह मेरी आँखों के सामने एक ऐसी मूर्ति लाकर खड़ी कर देता था, जिसे देखकर मेरे शरीर में कँपकँपी पैदा हो जाती थी, और मैं निर्वल होकर उसके सामने घुटने टेक देता था।

“मोहन, मैंने लाख चाहा कि मैं अपने जी की बात जी ही में

लिए हुए चला जाऊँ ; पर नहीं, मैं इसमें भी सफल न हुआ । बिना किसी से कहे सरकार भी शांति न पाता । तुम मेरे एक-मात्र मित्र हो । हृदय की बात मित्र से न कहूँ, तो किससे कहूँ ? यही सोचकर तुमसे सब कहने के लिये विवश हो गया । मोहन, इस पत्र को तुम चमेली के भाई की दृष्टि से न पढ़ना, श्यामाचरण के मित्र की दृष्टि से पढ़ना । यदि तब भी तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति दया तथा सहानुभूति न उत्पन्न हो, घृणा तथा द्वेष ही उत्पन्न हो, तो समझ लेना, मैं महाश्रम, मित्र-द्रोही तथा नारकी था, और मुझे भूल जाने की चेष्टा करना ।

“मोहन, तुम सब जान गए । क्या अब भी तुम यह नहीं सोचते कि यदि मेरी-तुम्हारी मित्रता न हुई होती, तो अच्छा था । दुर्भाग्य श्रमृत को भी विप बना देता है । तुम्हारी मित्रता श्रमृत थी ; पर दुर्भाग्य ने मेरे लिये उसे विप बना दिया ।

“वस, अधिक क्या कहूँ । तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, उससे मैं जन्म-जन्मांतर में भी तुमसे उरिन नहीं हो सकता । अंत में ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वह सबको तुम्हारा-सा मित्र दे, पर मेरा-सा दुर्भाग्य किसी को भी नहीं ।

तुम्हारा अभागा मित्र  
श्यामाचरण”

पत्र पढ़ते-पढ़ते मोहन की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी । उन्होंने पत्र को समाप्त करके वहीं पटक दिया । दौड़ते हुए श्यामाचरण के पास पहुँचे । श्यामाचरण आँखें बंद किए पड़े थे । उनकी साँस उखड़ चुकी थी । मोहन ने उनके सिर के नीचे हाथ देकर उन्हें उठाया, और पुकारा—श्यामाचरण !

श्यामाचरण ने आँखें खोलीं, जड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा—मोहन !



मोहन ने श्यामाचरण के मुख पर अपना मुख रखकर कहा—  
भाई, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा ।

यह सुनते ही कुछ सेकंडों के लिये श्यामाचरण चैतन्य-से  
हो गए ।

मोहन ने कहा—भाई, यदि तुम मुझसे पहले यह रहस्य बता  
देते, तो मैं चमेली का विवाह तुम्हारे ही साथ कर देता । चाहे  
समाज मुझे ठुकरा देता, चाहे मैं जाति-व्युत्तर कर दिया जाता, पर  
तुम्हारे लिये सब सह लेता । ओहू ! तुमने मुझे मित्र समझकर भी  
मुझसे कपट किया ।

श्यामाचरण ने नेत्र-विस्फारित करके कहा—क्या तुम चमेली से  
मेरा विवाह कर देते ?

मोहन ने कहा—निश्चय कर देता ।

श्यामाचरण ने एक 'आह' भरी । तत्पश्चात् अपना सिर उठाकर  
कहा—मोहन, तब तो मैं पापी नहीं हूँ ?

इतना कहने के पश्चात् श्यामाचरण का सिर ढलक गया । "प्रेम  
का पापी" शरीर-बंधन से मुक्त होकर परम-धाम को सिधार गया ।

## परिणाम

( १ )

शाम के सात बज चुके हैं । माघ-मास की शिशिर-समीर धनाढ्यों के ऊनी वस्त्रों को भेदकर उनके शरीर में कँपकँपी उत्पन्न कर रही है । ऐसे समय में एक अर्द्धवयस्क भिक्षुक, फटे-पुराने कपड़े पहने, शीत से काँपता हुआ, चला जा रहा है । उसकी बाँईं ओर एक भोली पढ़ी है, सिर पर कुछ लकड़ियाँ लदी हैं, जिन्हें वह बाँएँ हाथ से साधे हुए है और दाहिने हाथ में एक ससवर्षीय बालिका का हाथ पकड़े हुए है । बालिका एक फटा सलूका और एक पुरानी तथा मैली धोती पहने हुए है ।

बालिका धोती का पल्ला भली-भाँति शरीर में लपेटती हुई, सिसकी-भरके बोली—बाबा, आज बड़ा जाड़ा है ।

भिक्षुक ने कहा—हाँ, आज हवा चल रही है, चलो जल्दी ढेर पर पहुँचकर तापें ।

उसी समय उधर से दो-तीन पुरुष निकले जो ऊनी कपड़े पहने हुए थे । ये लोग हँसते-खेलते जा रहे थे । बालिका ने उनकी ध्यानपूर्वक देखकर अपने पिता से कहा—बाबा, इनको जाड़ा नहीं लगता ?

पिता ने उत्तर दिया—ऊनी कपड़े पहने हैं, इन्हें जाड़ा क्या लगेगा । बालिका कुछ क्षण तक कुछ सोचती रही । उसकी, जिसने कभी ऊनी कपड़ों का सुख नहीं भोगा था, समझ में न आया कि ऊनी कपड़े किस प्रकार शीत को पास नहीं आने देते । उसने फिर पूछा—बाबा, क्या ऊनी कपड़ों में जाड़ा नहीं लगता ?

पिता ने उत्तर दिया—नहीं बेटा, ऊनी कपड़ों में जाड़ा नहीं लगता । बालिका ने फिर कुछ देर तक कुछ सोचा । कदाचित् वह उस सुख की कल्पना करने की चेष्टा करती थी जो ऊनी कपड़े पहनने से मिलता है । परंतु कदाचित् वह उसकी कल्पना नहीं कर सकी, इसीलिये उसने पुनः कहा—बाबा, जाड़ा तो जरूर लगता होगा ।

पिता ने बालिका की इस बात का कुछ उत्तर न दिया । उसका ध्यान इस समय केवल इस बात पर लगा हुआ था कि किसी प्रकार शीघ्र डेरे पर पहुँचकर आग तापें ।

लगभग बीस मिनट तक चलने के पश्चात् ये दोनों एक स्कूल के पास पहुँचे । उस स्कूल की चहारदीवारी बहुत ऊँची तथा लंबी थी । उसी चहारदीवारी के नीचे कुछ सिरकी तथा फूस के छप्पर बाँसों पर छाए हुए थे । यही स्थान भित्तुक का डेरा था । इसी स्थान पर स-बारह भित्तुकों ने जल तथा धूप से बचने के लिये यह प्रबंध कर कहा- गा था । भित्तुक के वहाँ पहुँचते ही तीन-चार अन्य भिखारियों ने, इतना आग जलाए हुए बैठे ताप रहे थे, कहा—आ गए भैया ? आज का पापी देर लगाई ।

भित्तुक ने सिर की लकड़ियाँ भूमि पर पटककर कहा—हाँ न, आज देर हो गई । दिन-भर कुछ मिला नहीं । इसी मारे ३-दौड़े फिरते रहे ।

एक भित्तुक ने पूछा—तो कहो कुछ मिला कि नहीं ?

भित्तुक ने कहा—हाँ भैया, कुछ-न-कुछ तो मिला ही गया । सेर भर आटा और थोड़ी दाल मिला गई है—पेट भरने को बहुत है ।

एक अन्य भिखारी ने कहा—तो भैया तुम मज्जे में रहे । हमें तो आज आध सेर चने और दो पैसे मिले ।

एक तीसरा व्यक्ति बोला—भैया, जो भाग का होता है, वही मिलता है । न रत्ती भर अधिक न रत्ती भर कम ।

हमारे परिचित भिखारी ने थोड़ी लकड़ियाँ निकालकर अलाव के पास रख दीं और वह बोला—लेओ भैया, यह हमारा हिस्सा है। इतनी लकड़ी है सो इनमें रोटी बनायँगे।

बालिका पहुँचते ही अलाव के पास बैठकर तापने लगी थी।

भिचुक ने एक मिट्टी के कूड़े में आटा माड़ा। एक मिट्टी की हँडिया में दाल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दी। चूल्हा चार-पाँच ईंटें चुनकर बना लिया गया था। इस प्रकार भोजन तैयार करके भिचुक ने अपनी कन्या को खिलाया और स्वयं खाया; तत्पश्चात् दोनों अलाव के पास बैठकर तापने लगे।

एक भिचुक ने हमारे परिचित भिचुक से कहा—भैया रामलाल, आज तो लकड़ी बहुत है, बड़े मज़े में रात पार हो जायगी।

रामलाल ने कहा—हाँ, आज तो जाड़ा न सताएगा।

एक अन्य भिखारी बोला—आज जाड़ा पास नहीं फटकेंगा, रात-भर मज़े से सोओ।

कुछ देर तक सब लोग चुपचाप बैठे तापते रहे। हठात् एक व्यक्ति ने कहा—काहे भैया, गिरस्ती (गृहस्थी) में अधिक आनंद है कि इसमें?

दूसरे ने कहा—अरे भैया, गिरस्ती की क्या बात है, जो मज़ा गिरस्ती में है वह इसमें कहाँ।

तीसरा बोल उठा—गिरस्ती ससुरी में क्या मज़ा है, रात-दिन संसय (संशय) लगा रहता है, यह लाओ, वह लाओ। आज छठी है, आज पसनी है, आज जनेऊ है आज व्याह, यही लगा रहता है। इसमें क्या, खाने-भर को माँग लाए, उस, खा-पी के मज़े से पैर फँलाकर सोए, न किसी ससुरे का लेना न किसी ससुरे का देना।

चौथे ने कहा, हाँ भैया, ठीक कहते हो। और एक बात तो देखो कि कोई बंधन नहीं, चाहो अभी विलायत को चले दो। गिरस्ती में तो आदर्श तेली का बँल बन जाता है, न कहाँशा सके न जा सके।

जिस व्यक्ति ने गृहस्थी की प्रशंसा की थी वह बोला—एक मज़ा है, तो एक तकलीफ ( तकलीफ़ ) भी है । अब आम तौर पर भरे को लकड़ी मिल गई है न, इसी से इस वखत मजे में थी ; जो लकड़ी न होती तो हुलिया बिगड़ जाती, तब फिर गिरस्ती आद आती । गिरस्ती को कोई पंथ पा सकता है ? हमें तुम्हें जोई पाना है, धुतकार देता है, गाली दे देता है । अभी पानी बरसने लगे, तो यही कहो कि एक कच्ची भोपड़ी तक होती तो अच्छा था ।

तीसरे व्यक्ति ने कहा—गिरस्ती में भी ससुर सैकड़ों दुख-दर्द लगे रहते हैं । राजा महाराजा लोगों की बात जाने दो—गरीब आदमी को गिरस्ती में भी दुःख है । हम तुम तो भीख माँगकर भी पेट भर सकते हैं; पर गिरस्त आदमी भूखों मरा करते हैं ।

गृहस्थी के पोषक ने कहा—भूखों मरते हैं वह जो मेहनत-मजूरी नहीं करते ।

चौथा व्यक्ति बोला—तो काहे भीख माँगते हो ? जाओ मेहनत-मजूरी करो, गिरस्तासरम बनो ?

गृहस्थी के पक्षपाती ने कहा—भैया, गिरस्तासरम का सुख भी बहुत भोगा । अब क्या करें, कोई आगे न पीछे, अपने पेट भरे को माँग खाते हैं । ( रामलाल की ओर संकेत करके ) इन्हें गिरस्तासरम बनना चाहिए । एक बिटिया है, उसे पालना-पोसना है, ब्याह करना है । रामलाल अभी तक सिर झुकाए बैठा इन लोगों की बातचीत चुपचाप सुन रहा था । उपर्युक्त वाक्य सुनकर उसने सिर उठाया और बोला—भैया, इस बिटिया खातिर ही मैंने यह भिच्छाविरत ( भिच्छावृत्ति ) लिया है ।

तीसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा—यह तो तुम उलटी बात कहते हो । बिटिया खातिर तो तुम्हें मेहनत-मजूरी करनी चाहिए । कल को लड़की सयानी होगी, तो उसका ब्याह कहाँ से करोगे ?

चौथा बोला—अरे यह भी न सही, मान लो व्याह करने को पैसा भी पास हो गया, तो भिखारी की बिटिया से व्याह कौन करेगा ? भिखारी की बिटिया का तो यही हो सकता है कि कोई भिखारी बैठाल ले, या कोई .....

वह व्यक्ति इतना ही कहने पाया था कि रामलाल ने एक घूँसा उसके मुँह पर मारा। वह व्यक्ति मुँह पकड़कर रह गया। इधर सब लोग हॉ-हॉ करने लगे।

रामलाल बोला—जवान सँभालकर बात नहीं करता। मेरी बिटिया के संबंध में कोई ऐसी-वैसी बात कही, तो जान ले लूँगा। यह समझ लेना।

आहत व्यक्ति बोला—दिल्ली है जान ले लेना, बड़ा जान लेनेवाला बना है। माँगने को भोज, गरमी इतनी ! बड़ा पानीदार बन कर चला है। इनकी बिटिया खातिर महाराज ग्वालियर के कुँवर आवेंगे न ! तुम्हारे साथी सैकड़ों की बहन-बिटिया गली गली.....

वाक्य पूर्ण होने के पूर्व ही रामलाल उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया।

इधर सब लोग उठकर खड़े हो गए और बोले—देखो आग बचाए। ऐसा न हो अलाव में गिरो, तो अभी लेने के देने पड़ जायँ। अरे भैया जाने दो, राम खाओ। काहे को आपस में लड़ते हो।

बड़ी कठिनता से सबने मिलकर दोनों को छुड़ाया। इधर रामलाल की कन्या, जो अलाव ही के पास सो गई थी, इस गड़बड़ से जाग पड़ी और अपने पिता से लड़ाई होते देख रोने लगी। अतएव रामलाल ने कन्या को रोते देख लड़ाई का अंत कर देना ही उचित समझा। पर रामलाल ने उसके मुँह पर तीन-चार घूँसे ऐसे फस-फस पर लगाए कि मुँह से रक्त-स्राव होने लगा।

इसके पश्चात् सब लोग सो रहे । कोई अलाव के पास ही चुप-  
 कर लेट रहा, कोई अपनी मददगार में लडा गया । रामलाल की  
 कन्या भी अलाव के पास पुनः सो गई । परंतु रामलाल ? रामलाल  
 अलाव के पास बैठा ही रहा । रात भर तक अग्निदेव पर दृष्टि जमाए  
 बैठा अनेक बातें सोचता रहा । उसे यह-रहकर भिक्षुक के ये शब्द  
 कि "कल को लड़की मरानी होगी तो उसका क्या कहों से  
 करोगे ?..... भिखारी की विटिया से कौन क्या करेगा ?.....  
 भिखारी की विटिया का तो यह ही हो सकता है कि कोई भिखारी  
 बैठाक ले, या कोई....." इसके शब्दों के जन्मों की कल्पना जब  
 रामलाल करता था तब उसका ध्यान बचाने लगता था । और जिस  
 समय उसे भिक्षुक के ये शब्द याद आते थे कि "तुम्हारे साथी सैकड़ों  
 की बहन-विटिया भली-भली....." उस समय वह अपनी अलाव के  
 पास पढ़ी हुई कन्या पर एक दृष्टि डालता था । अग्नि की लीख  
 ज्योति पढ़ने के कारण कन्या का रक्त-रंजित सुंदर तथा भोला मुख,  
 जो निद्रा में मग्न होने के कारण और भी अधिक अचोच और पवित्र  
 हो गया था, उसके हृदय में अशांति की ऐसी विकट ज्वाला उत्पन्न  
 करता था कि जिसके सामने बाहर लड़कियों के डेर पर नृत्य करती  
 हुई ज्वालाएँ नितांत तुच्छ प्रतीत होती थीं । उस समय उसके  
 अंतस्त्वल से एक आवाज़ उठती थी कि "रामलाल, तू जिते  
 इतना अधिक प्यार करता है कि उसके लिये अपने प्राण तक दे देने  
 को तैयार है, उसके भविष्य के लिये तू क्या कर रहा है ? क्या तू  
 उसे भी, अपनी तरह भिखारिणी बनाकर अपने पीछे गलियों-गलियों  
 की ठोकरें खाने के लिये छोड़ जाना चाहता है ? क्या यही तेरा स्नेह  
 है, क्या यही तेरा वात्सल्य है ? भिक्षुक की बातें तूमे कटु भले ही  
 लगी हों; पर उनमें तेरे लिये चेतावनी और तेरी कन्या के लिये  
 भविष्यदायी छिपी हुई है ।"

रामलाल इसी प्रकार की बातें सोचता रहा। उसे इस बात पर आश्चर्य होता था कि आज तक उसका ध्यान स्वयं इस महत्व-पूर्ण प्रश्न की ओर क्यों आकर्षित नहीं हुआ। उसे भिक्षुक को पीटने का परवात्ताप भी हुआ। उसने सोचा कि “भिक्षुक ने वह बात कही कि तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए था, इसके प्रतिकूल तुने उसे हानि पहुँचाई। इसने बढ़कर कायरता, इससे बढ़कर कृतघ्नता और क्या हो सकती है ?”

रामलाल ने इसी प्रकार की चिन्ताओं में रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल होते ही पहले वह नित्य-क्रिया से निवृत्त हुआ, तत्पश्चात् वह अपने साथ के भिक्षुकों से बोला—भैया, हमारा कहा-सुना माफ़ करना। आज हम तुम सबसे विदा होते हैं।

उसके साथियों ने उससे पूछा—कहाँ जाते हो ?

रामलाल—जहाँ भाग्य ले जायगा।

रामलाल ने जिस भिक्षुक को पीटा था उसके पास जाकर वह बोला—भैया, रात गुस्से में हमने तुम्हें मारा, इसके लिये हमें बड़ा पछतावा है। भैया हमारा क्रूर माफ़ कर देना। तुमने हमें बट खींच दी है जो आज तक हमारे बड़े-से-बड़े हितू ने भी न दी थी। तुम्हारा यह एहसान हम जनम-भर नहीं भूलेंगे। भगवान् तुम्हारा भला करे।

यह कहकर रामलाल कन्या का हाथ पकड़कर एक ओर चल दिया। उसके साथी अवाक़ होकर उमड़ी ओर देखते रह गए।

( २ )

उपयुक्त घटना हुए आठ वर्ष व्यतीत हो गए।

कलकत्ते के एक जहाशील सेठ अपने गगनचुंबी भवन के एक सुंदर नजे हुए कमरे में बैठे हुए हैं। उनके पास ही तीन-चार आदमी शिष्टता-पूर्वक बैठे हुए उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। उर्ती समय उनके एक दाम ने साक़ कहा—सरकार, पंडितजी आए हैं।



जिस व्यक्ति ने गृहस्थी की प्रशंसा की थी वह बोला—एक मज़ा है, तो एक तकलीफ ( तकलीफ़ ) भी है । अब प्राण तापे भरे को लकड़ी मिल गई है न, इसी से इस बखत मजे में थी ; जो लकड़ी न होती तो हुलिया बिगड़ जाती, तब फिर गिरस्ती गढ़ आती । गिरस्ती को कोई पंथ पा सकता है ? हमें तुम्हें जोई पारा है, धुतकार देता है, गाली दे देता है । अभी पानी बरसने लगे, तो यही कहो कि एक कच्ची भोपड़ी तक होती तो अच्छा था ।

तीसरे व्यक्ति ने कहा—गिरस्ती में भी ससुर सैकड़ों दुख-दर्द लगे रहते हैं । राजा महाराजा लोगों की बात जाने दो—शरीर आदमी को गिरस्ती में भी दुःख है । हम तुम तो भीख माँगकर भी पेट भर सकते हैं; पर गिरस्त आदमी भूखों मरा करते हैं ।

गृहस्थी के पोपक ने कहा—भूखों मरते हैं वह जो मेहनत-मजूरी नहीं करते ।

चौथा व्यक्ति बोला—तो काहे भीख माँगते हो ? जाओ मेहनत-मजूरी करो, गिरस्तासरम बनो ?

गृहस्थी के पत्नपाती ने कहा—भैया, गिरस्तासरम का सुख भी बहुत भोगा । अब क्या करें, कोई आगे न पीछे, अपने पेट भरे को माँग खाते हैं । ( रामलाल की ओर संकेत करके ) इन्हें गिरस्तासरम बनना चाहिए । एक बिटिया है, उसे पालना-पोसना है, ब्याह करना है । रामलाल अभी तक सिर झुकाए बैठा इन लोगों की बातचीत चुपचाप सुन रहा था ! उपर्युक्त वाक्य सुनकर उसने सिर उठाया और बोला—भैया, इस बिटिया खातिर ही मैंने यह भिच्छाविरत ( भिच्छावृत्ति ) लिया है ।

तीसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा—यह तो तुम उलटी बात कहते हो । बिटिया खातिर तो तुम्हें मेहनत-मजूरी करनी चाहिए । कल को लड़की सयानी होगी, तो उसका ब्याह कहाँ से करोगे ?

चौथा बोला—अरे यह भी न सही, मान लो व्याह करने को पैसा भी पास हो गया, तो भिखारी की बिटिया से व्याह कौन करेगा ? भिखारी की बिटिया का तो यही हो सकता है कि कोई भिखारी बैठाल ले, या कोई .....

वह व्यक्ति इतना ही कहने पाया था कि रामलाल ने एक घूँसा उसके मुँह पर मारा। वह व्यक्ति मुँह पकड़कर रह गया। इधर सब लोग हाँ-हाँ करने लगे।

रामलाल बोला—जबान सँभालकर बात नहीं करता। मेरी बिटिया के संबंध में कोई ऐसी-वैसी बात कही, तो जान ले लूँगा। यह समझ लेना।

आहत व्यक्ति बोला—दिल्ली है जान ले लेना, बड़ा जान लेनेवाला बना है। माँगने को भीख, गरमी इतनी ! बड़ा पानीदार बन कर चला है। इनकी बिटिया खातिर महाराज ग्वालियर के कुँवर आवेंगे न ! तुम्हारे साथी सैकड़ों की बहन-बिटिया गली गली.....

वाक्य पूर्ण होने के पूर्व ही रामलाल उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया।

इधर सब लोग उठकर खड़े हो गए और बोले—देखो आग बचाए। ऐसा न हो अलाव में गिरो, तो अभी लेने के देने पड़ जायँ। अरे भैया जाने दो, गम खाओ। काहे को आपस में लड़ते हो।

बड़ी कठिनता से सबने मिलकर दोनों को छुड़ाया। इधर रामलाल की कन्या, जो अलाव ही के पास सो गई थी, इस गड़बड़ से जाग पड़ी और अपने पिता से लड़ाई होते देख रोने लगी। अतएव रामलाल ने कन्या को रोते देख लड़ाई का अंत कर देना ही उचित समझा। पर रामलाल ने उसके मुँह पर तीन-चार घूँसे ऐसे कस-कस कर लगाए कि मुँह से रक्त-स्राव होने लगा।

इसके पश्चात् सब लोग सो रहे। कोई अलाव के पास ही दबक-कर लेट रहा, कोई अपनी मदहूया में चला गया। रामलाल की कन्या भी अलाव के पास पुनः सो गई। परंतु रामलाल ? रामलाल अलाव के पास बैठा ही रहा। रात भर वह अग्निदेव पर दृष्टि जमाए बैठा अनेक बातें सोचता रहा। उसे रह-रहकर भिचुक के वे शब्द कि “कल को लड़की सयानी होगी तो उसका व्याह कहाँ से करोगे ?..... भिखारी की विटिया से कौन व्याह करेगा ?..... भिखारी की विटिया का तो यह ही हो सकता है कि कोई भिखारी बैठाल ले, या कोई.....।” इसके आगे के शब्दों की कल्पना जब रामलाल करता था तब उसका खून उबलने लगता था। और जिस समय उसे भिचुक के ये शब्द याद आते थे कि “तुम्हारे साथी, सैकड़ों की बहन-विटिया गली-गली.....” उस समय वह अपनी अलाव के पास पड़ी हुई कन्या पर एक दृष्टि डालता था। अग्नि की क्षीण ज्योति पड़ने के कारण कन्या का रक्त-रंजित सुंदर तथा भोला मुख, जो निद्रा में मग्न होने के कारण और भी अधिक अबोध और पवित्र हो गया था, उसके हृदय में अशांति की ऐसी विकट ज्वाला उत्पन्न करता था कि जिसके सामने बाहर लड़कियों के ढेर पर नृत्य करती हुई ज्वालाएँ नितांत तुच्छ प्रतीत होती थीं। उस समय उसके अंशुत्वल से एक आवाज़ उठती थी कि “रामलाल, तू जिसे इतना अधिक प्यार करता है कि उसके लिये अपने प्राण तक दे देने को तैयार है, उसके भविष्य के लिये तू क्या कर रहा है ? क्या तू उसे भी, अपनी तरह भिखारिणी बनाकर अपने पीछे गलियों-गलियों की ठोकरें खाने के लिये छोड़ जाना चाहता है ? क्या यही तेरा स्नेह है, क्या यही तेरा वात्सल्य है ? भिचुक की बातें तुझे कटु भले ही लगती हों; पर उनमें तेरे लिये चेतावनी और तेरी कन्या के लिये भविष्यदाणी छिपी हुई है।”

रामलाल इसी प्रकार की बातें सोचता रहा। उसे इस बात पर आश्चर्य होता था कि आज तक उसका ध्यान स्वयं इस महत्त्व-पूर्ण प्रश्न की ओर क्यों आकर्षित नहीं हुआ। उसे भिन्नक को पीटने का परचात्ताप भी हुआ। उसने सोचा कि "भिन्नक ने वह बात कही कि तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए था, इसके प्रतिकूल तूने उसे हानि पहुँचाई। इससे बढ़कर कायरता, इससे बढ़कर कृतघ्नता और क्या हो सकती है?"

रामलाल ने इसी प्रकार की चिन्ताओं में रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल होते ही पहले वह नित्य-क्रिया से निवृत्त हुआ, तत्पश्चात् वह अपने साथ के भिन्नकों से बोला—भैया, हमारा कहा-सुना मारू करना। आज हम तुम सबसे बिदा होते हैं।

उसके साथियों ने उससे पूछा—कहाँ जाते हो ?

रामलाल—जहाँ भाग्य ले जायगा।

रामलाल ने जिस भिन्नक को पीटा था उसके पास जाकर वह बोला—भैया, रात गुस्ते में हमने तुम्हें मारा, इसके लिये हमें बड़ा पछतावा है। भैया हमारा क्रसूर मारू कर देना। तुमने हमें वह सीख दी है जो आज तक हमारे बड़े-से-बड़े हितू ने भी न दी थी। तुम्हारा यह एहसान हम जनम-भर नहीं भूलेंगे। भगवान् तुम्हारा भला करे।

यह कहकर रामलाल कन्या का हाथ पकड़कर एक ओर चल दिया। उसके साथी श्रवाक् होकर उसकी ओर देखते रह गए।

( २ )

उपर्युक्त घटना हुए आठ वर्ष व्यतीत हो गए।

कलकत्ते के एक लक्षाधीश सेठ अपने गगनचुंबी भवन के एक सुंदर सजे हुए कमरे में बैठे हुए हैं। उनके पास ही तीन-चार आदमी शिष्टता-पूर्वक बैठे हुए उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। उसी समय उनके एक दास ने आकर कहा—सरकार, पंडितजी आए हैं।

सेठ ने पूछा—कहाँ हैं ?

नौकर ने उत्तर दिया—आफ़िस में बैठे हैं ।

सेठजी—यहीं भेज दो ।

नौकर चला गया । थोड़ी देर पश्चात् एक सज्जन, जिनकी वयस ५० के लगभग होगी और जो वेप-भूषा से कोई धनी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पड़ते थे, कमरे के भीतर आए । सेठजी उन्हें देखते ही मुसक़िराकर बोले—आइए पंडितजी, सब आनंद-मंगल ?

पंडितजी ने कहा—सब आपकी दया है ।

सेठजी—रुहिए, व्याह की सब तैयारी हो गई ?

पंडित—हाँ, तैयारी तो सब हो गई और हो रही है ।

सेठजी—किस मितो को व्याह है ?

पंडितजी—क्या आपको निमंत्रण-पत्र नहीं मिला ?

सेठजी—निमंत्रण-पत्र तो मिला गया, पढ़ा भी था ; पर मितो याद नहीं रही ।

पंडितजी—कहाँ ऐसे ही बारात में सम्मिलित होना न भूल जाइएगा ।

सेठजी हँसकर बोले—नहीं जी, भला ऐसा हो सकता है ? मैं तो सबसे पहले चलूँगा । खाली चलना ही, नहीं मेरे लायक कोई सेवा होगी, तो वह भी करूँगा ।

पंडितजी—यह सब आपका अनुग्रह है, आप ही योग न देंगे, तो फिर योग कौन देगा । विवाह माघ सुदी तीज को है ।

सेठजी—तो इस हिसाब से अभी बीस दिन बाक़ी हैं ।

पंडितजी—हाँ और क्या ।

सेठजी—बारात कहाँ जायगी ?

पंडितजी—हेरिसन रोड जायगी ।

सेठजी—घर तो अच्छा ही होगा, इसके लिये तो पूछना व्यर्थ है। आपने सब देख-सुन लिया होगा।

पंडितजी—घर तो जो देखा है सो देखा ही है; पर मुख्य बात जो है वह लड़की है। लड़की अच्छी है, सुंदर, सुशील तथा पढ़ी-लिखी है।

सेठजी—तो और क्या चाहिए।

पंडितजी—हाँ, मैंने लड़की ही देखी है। वैसे तो कुछ लोगों ने इस संबंध पर आपत्ति भी की थी।

सेठजी—क्यों ?

पंडितजी—इसलिये कि लड़की के न मा है, न कोई भाई है, न बहन है, केवल पिता है।

सेठजी—केवल पिता-पुत्री हैं ?

पंडितजी—केवल !

सेठजी—कोई चाचा-ताऊ तो होंगे ही ?

पंडितजी—कोई नहीं।

सेठजी—अरे तो विवाह-कार्य कौन करेगा ?

पंडितजी—कोई दूर के रिश्तेदार हैं। उन्हीं के घर की स्त्रियाँ आ गई हैं। वही सब कार्य करेंगी। वैसे नौकर-चाकर बहुत हैं, आदमी धनी है।

सेठजी मुसकिराकर बोले—तभी-तभी। सोची दूर की पंडितजी। फिर क्या है? मौज करो, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है।

पंडितजी—कुछ भेंपकर मुसकिराते हुए बोले—यह बात नहीं सेठजी। ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। पराए धन पर नीयत दिगाना मैं पाप समझता हूँ। बात इतनी ही है कि कन्या मुझे पसंद आ गई।

सेठजी बोले—अजी मैं हँसी करता हूँ पंडितजी, आपको क्या कमी है। खैर, भगवान् शुभ करें। मेरे लायक जो कुछ हो, बिना संकोच कहिएगा।

पंडितजी प्रसन्न-मुख होकर बोले—पहली बात यह है कि आप बारात में अवश्य सम्मिलित हों।

सेठजी—ज़रूर, सौ काम छोड़ के। हाँ और ?

पंडितजी—दूसरी बात यह कि बारात के लिये अपनी सवारियाँ दीजिएगा।

सेठजी—बड़ी खुशी से। इस समय मेरे यहाँ दो मोटरें, एक फिटन और एक घोड़ों की जोड़ी है। ये तीनों आपकी सेवा के लिये प्रस्तुत हैं। मोटरें तो वैसे तीन हैं, पर एक आजकल कुछ मरम्मत माँग रही है।

पंडितजी—दो मोटरें काफी हैं, जोड़ी भी काम आ जायगी।

इसके पश्चात् थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें करने के पश्चात् पंडितजी विदा हुए।

( ३ )

हेरिसन रोड की एक सुंदर अट्टालिका के द्वार पर एक बारात सजी खड़ी है। लक्षणों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारात विवाहोपरांत विदा हो रही है। क्योंकि द्वार पर एक सुंदर पालकी, जिस पर सुनहरी कारचोबी का परदा पड़ा हुआ है, खड़ी है। इसके अतिरिक्त दहेज का बहुत सामान रक्खा हुआ है।

अट्टालिका के भीतर एक निरीह कमरे में एक पौढ़शी मूल्यवान् और आँखों में चक्काचौंध उत्पन्न कर देनेवाले आभूषणों तथा अलंकारों से लदी हुई, नव-वधू-वेष में, एक वृद्ध के गले से लगी हुई विलख-विलखकर रो रही है। वृद्ध की आँखों से भी अश्रु-धारा निकल रही है। यह वृद्ध कौन है, यह बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं

होती; क्योंकि पाठक समझ गए होंगे कि यह वृद्ध हमारा परिचित वही रामलाल है जिसे हम पहले-पहल भिक्षुक-वेष में देख चुके हैं। आभूषणों से सुसज्जित षोडशी उसकी वही कन्या है जिसे हमने एक दिन अग्निकुंड के पास भूमि पर पड़े देखा था। पाठक, आश्चर्य मंत कीजिए, यह वही मलिना, धूरि-धूसरिता, जीर्ण-शीर्ण-वस्त्राच्छादिता, अर्द्ध-नगना रामलाल की कन्या है। अब वह बालिका नहीं रही, अब वह षोडशी सुंदरी है। वह कुमारी नहीं है, अब वह वह नव-विवाहिता नव-बधू है। वृद्ध ने अपने को लंभालकर कहा—बेटा श्यामा, अपने बड़े बाप को अधिक मायामोह में न फँसाओ। मेरे ये आँसू शोक के आँसू नहीं, आनंद के आँसू हैं।

श्यामा अपने पिता के कंधे पर से सिर उठाकर उसके मुँह की ओर देखकर बोली—बाबा, तुमने मेरे लिये बड़े दुख उठाए, तुम्हें छोड़ते मेरा कलेजा फटता है।

जान पड़ता है कन्या के मुख को, जो रोने के कारण रक्त-वर्ण हो रहा था, देखकर तथा उसके उपर्युक्त वाक्य सुनकर रामलाल का हृदय व्यथित हुआ; क्योंकि उसके नेत्रों से अश्रु-स्राव, जो अब कम हो चला था, पुनः बढ़ गया।

रामलाल ने पुरुषोचित धैर्य से काम लेते हुए अपने को लंभालकर कहा—बेटी, ईश्वर को लाख-लाख धन्यवाद है कि मैं, जिसको सुबह से शाम तक अपना पेट-मात्र भरने के लिये गली-गली भटकना पड़ता था, आज तेरा विवाह इस धूम से करने में समर्थ हुआ। तू मेरे जीवन की स्फूर्ति है, तू मेरी सफलताओं का हेतु है। तू न होती, तो मैं उसी जीवन में एड़ियाँ रगड़कर मर जाता। तेरे ही कारण मुझे जीवन-क्षेत्र में असफलताओं, बाधाओं तथा कष्टों से घोर युद्ध करना पड़ा। अंत में मेरी विजय हुई। क्यों? इसलिये कि तू मेरे साथ थी। जिस समय मैं असफलताओं के आगे निर्जीव होकर गिर पड़ने-



को उद्यत हो जाता था, उस समय तेरी मूर्ति मेरे शरीर में नवीन शक्ति का संचार कर देती थी और मैं दूने उत्साह के साथ बाधाओं को परास्त करता हुआ आगे बढ़ता था । मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया । अब यदि आज मैं पुनः उसी प्रकार झंगाल हो जाऊँ, तो मुझे किंचिन्मात्र भी दुःख न होगा ।

श्यामा ने पिता को अपनी दोनों बाहुओं में जकड़कर कहा—  
बाबा, ऐसी बात मत कहो, मेरा कलेजा टुकड़े-टुकड़े होता है ।

उसी समय कमरे के द्वार से एक स्त्री ने कहा—महराजजी, समझी कहते हैं कि जल्दी बिदा करो, देर होती है ।

रामलाल ने श्यामा को अपने से अलग करते हुए कहा—जाओ बेटी, देर होती है ।

श्यामा अलग हो गई और कुछ क्षण तक पिता की ओर देखती रही । तत्पश्चात् पुनः उससे लिपटकर बोली—बाबा, मुझे जल्दी बुला लेना, नहीं मैं रो-रोकर प्राण दे दूँगी ।

वृद्ध के होठों पर मृदु हास्य की एक हल्की रेखा दौड़ गई । उसने कहा—बेटी, किसी के मा-बाप सदैव जीवित नहीं रहते । अब तुम्हारा घर वही है । तुम जीवन के एक नवीन क्षेत्र में जा रही हो और तुम्हें अपना शेष जीवन उसी क्षेत्र में व्यतीत करना है । अतएव तुम्हें उसके लिये अभी से प्रस्तुत हो जाना चाहिए ।

श्यामा की हिचकी बँधी हुई थी । अतएव वह इसका कोई स्पष्ट उत्तर न दे सकी ।

रामलाल ने आँसू पोंछते हुए कहा—बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम फलों-फूलों, जीवन का सुख लूटो । बस, मेरी यही अंतिम आकांक्षा है ।

इसके पश्चात् वह श्यामा को सहारा देकर कमरे के बाहर ले गया । कमरे के बाहर दो स्त्रियाँ अच्छे वस्त्र पहने हुए खड़ी थीं और

पास ही दो दासियाँ तथा एक दास खड़ा था। रामलाल ने उनसे कहा—जाओ, पालकी में बिठा आओ। दासियाँ श्यामा को ले चलीं। पीछे-पीछे वे स्त्रियाँ भी चलीं। श्यामा दासियों की हिरासत से भागकर एक बार पुनः पिता से लिपट गई।

रामलाल की आँखों से पुनः अश्रु-पात होने लगा। कुछ क्षणों पश्चात् उसने श्यामा को बलपूर्वक अपने से अलग करके दासियों के सिपुदं कर दिया।

वारात विदा होने के पश्चात् दो घंटे व्यतीत हो गए। रामलाल एक व्यक्ति से खड़ा कह रहा है—पंडित कालिकाप्रसादजी, आपने मेरे रिश्तेदार बनकर और अपने परिवार की स्त्रियों द्वारा विवाह का सब कार्य कराकर इस समय मेरी जो सहायता की है इसके लिये मैं आपका चिर-कृतज्ञ रहूँगा। परंतु मेरा अनुभव है कि केवल ज़बानी कृतज्ञता के प्रकट करने से मनुष्य का हृदय संतुष्ट नहीं होता। अतएव आपको मैं यह पाँच सहस्र रुपए देता हूँ।

यह कहकर रामलाल ने कालिकाप्रसाद के हाथों में नोटों का एक मोटा बंडल दे दिया।

इसके पश्चात् रामलाल ने कहा—अब आप अपने घर जा सकते हैं। कालिकाप्रसाद ने कहा—तो क्या सरकार, अब मुझे बरखास्त करते हैं ?

रामलाल—नहीं, ऐसा कर्कश शब्द मैं नहीं कह सकता। मैं केवल इतना कहता हूँ कि मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं रही। यह न समझिएगा कि मैं किसी दूसरे आदमी को रक्खूँगा। नहीं, अब मैं अपना सारा कारोवार बंद करता हूँ।

कालिकाप्रसाद ने विस्मित होकर पूछा—ऐसा क्यों ?

रामलाल—जिस कार्य के लिये मैं धनोपार्जन करता था, मेरा वह कार्य पूरा हो गया। अब मुझे धनोपार्जन करने की कोई आवश्यकता

नहीं रही। मेरे पास जो कुछ है, वह मेरे शेष जीवन के लिये पर्याप्त है। कालिकाप्रसाद रुपए मिलने से प्रसन्न-चित्त और नौकरी छूटने से ग्लान-मुख होकर धीरे-धीरे रामलाल के पास से चल दिए।

( ४ )

आज हम रामलाल को उसी नगर के एक विशाल हिंदू-होटल में बैठे देख रहे हैं जिस नगर की गलियों में यह एक दिन भिन्ना माँगता फिरता था।

जब संध्या-देवी प्रकृति पर अपनी काली चादर फैला रही थी, उस समय उक्त होटल से रामलाल मलिन वस्त्र पहने हुए निकला और सीधा उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ किसी समय वह भिन्नक की हैसियत से एक मढ़ैया में रहता था। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उसके प्राचीन निवास-स्थान की बस्ती उतनी घनी नहीं रही जितनी उसके समय में थी। इस समय वहाँ केवल दो तीन मढ़ैयाँ पड़ी हुई थीं। मनुष्य भी छः-सात से अधिक न थे। उनमें से अधिकांश उसके लिये अपरिचित थे।

रामलाल ने एक भिन्नक से पूछा—क्यों भाई, यहाँ कोई सधुआ नाम का भिखारी है।

आश्चर्य से उसकी ओर देखकर एक ने कहा—नहीं, यहाँ तो इस नाम का कोई भिखारी नहीं है।

रामलाल ने कहा—आठ बरस हुए तब तो वह यहीं रहता था।

एक भिन्नक ने कहा—तुम भी जमाने की बात करते हो, आठ बरस में तो न-जाने कौन-कौन मरा और कौन जिया होगा।

रामलाल ने पूछा—तुम लोग यहाँ कितने दिनों से हो ?

दूसरे भिन्नक ने कहा—यही कोई साल-भर हुआ। एक बेर म्युनि-सिपलेटी ने सब मढ़ैयाँ उखड़वाकर फिकवा दी थीं और सब भाइयों

को भगा दिया था। तब सोयहाँ अब बहुत आदमी नहीं रहते। तीसरा बोला—एक आदमी यहाँ पुराना रहता है। उससे पूछो, वह चाहे कुछ बता सके।

रामलाल ने पूछा—वह कहाँ है ?

भिन्नक ने उत्तर दिया—मड़ैया के भीतर पड़ा है। आजकल कुछ सिकस्त रहता है, कहीं माँगने-वाँगने भी नहीं जाता, हमीं लोग खाने को दे दिया करते हैं।

रामलाल—उसे बुलाओ।

एक भिन्नक ने पुकारा—बड़े दादा हो, ओ बड़े दादा ?

एक मड़ैया के भीतर से किसी ने कहा—कौन है ?

उस भिन्नक ने कहा—ज़रा बाहर आओ, तुम्हें कोई पूछता है।

कुछ क्षण के बाद एक वृद्ध धीरे-धीरे मड़ैया से निकलकर आया। वृद्ध के मुख पर लंबी दाढ़ी और सिर में लंबे केश थे, गले में दो-तीन मालाएँ पड़ी हुई थीं।

वृद्ध ने बाहर आकर पूछा—कौन है ?

रामलाल ने कहा—ज़रा हृधर आओ।

वृद्ध और आगे आया, और बोला—क्या है ?

रामलाल ने पूछा—तुम सधुआ को जानते हो ?

यह सुनकर वृद्ध चौंक पड़ा। उसने एक बेर रामलाल को सिर से पैर तक देखा और बोला—सधुआ तो हमारा साथी रहा, उसे शरीर छोड़े साल-भर हो गया।

रामलाल ने पूछा—तुम रामलाल को जानते हो ?

वृद्ध ने पुनः रामलाल को सिर से पैर तक देखा, परंतु अंधकार के कारण पहचान न सका। अतएव बोला—वह ससुर आज आठ-नौ बरसें हुईं तब कहीं चला गया था, कौन जाने, साला मरा या जिया। उसकी एक चिटिया भी थी।

रामलाल के मुख पर कुछ सुसकिराहट आ गई । उसने पूछा—  
भैया, तुम्हारा नाम क्या है ?

वृद्ध ने कहा—हमारा नाम तो छेदी है ।

रामलाल चौंक पड़ा । यह छेदी वही व्यक्ति था जिसको रामलाल  
ने पीटा था ।

रामलाल ने कहा—भैया छेदी, ज़रा अलग आ जाओ, तो  
तुमसे कुछ पूछें ।

वृद्ध छेदी यह कहता हुआ कि “पुलिस के आदमी हो क्या ?” राम-  
लाल के पास आया ।

रामलाल उसे अलग ले गया और कुछ क्षण तक उससे धीरे-धीरे  
बातें करता रहा । बीच में एक बार छेदी ने बहुत चौंककर राम-  
लाल को सिर से पैर तक देखा और अंधकार को भेदकर अपनी  
दृष्टि द्वारा उसे पहचानने की चेष्टा की ।

थोड़ी देर पश्चात् छेदी लौटा और अपने साथियों से बोला—  
भैया, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं ।

यह कहकर वह रामलाल के साथ हो लिया ।



रामलाल तथा छेदी होटल के कमरे में बैठे हुए हैं । रामलाल  
कह रहा था—“भैया, मैं तुम्हें अपनी कहानी फहाँ तक सुनाऊँ;  
पर थोड़े में जो कुछ कहा जा सकता है, वह कहता हूँ । उस दिन  
रात को तुम्हारी बातें पहले तो मुझे बड़ी बुरी लगीं और मैंने गुस्से  
में पीटा; पर जब मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया, तो मुझे मालूम  
हुआ कि जो कुछ तुमने कहा वह बिलकुल ठीक है । मैं रात-भर  
तुम्हारी बातों पर विचार करता रहा । उसका परिणाम य हुआ कि  
मेरे हृदय में एक भयानक हलचल उत्पन्न हो गई । मैंने कसम खा ली  
कि जैसे वनेगा मैं धनोर्जन करके छोड़ूँगा । तुम लोगों से विदा

होकर मैं सीधा मज़दूरों के अड्डे पर पहुँचा। भाग्य-वश उसी दिन मुझे मज़दूरी मिल गई। उस दिन शाम को जब मुझे मज़दूरी के पैसे मिले, तो उन्हें देखकर मेरे हृदय में एक हार्दिक प्रसन्नता हुई। यदि भित्ता में मुझे कोई उसका चौगुना दे देता, तो मैं उतना प्रसन्न न होता जितना कि उन पैसों को पाकर हुआ। जिस समय उन पैसों को देखकर मैं सोचता था कि ये मेरे परिश्रम के पैसे हैं—मेरी गाढ़ी कमाई है—उस समय बड़ा ही संतोष होता था। खैर! मैं बराबर मज़दूरी करता रहा। श्यामा भी मेरे साथ ही रहती। एक बड़ी इमारत बन रही थी, उसी में मैं काम करता था। जिनकी इमारत बन रही थी उन्होंने मेरी श्यामा पर दया करके मुझे उसी स्थान पर रोटी बना लेने और रात को पड़ रहने की आज्ञा दे दी थी। इससे बड़ी सुविधा हुई, क्योंकि श्यामा को कहीं अकेली छोड़ भी नहीं सकता था और न मज़दूरी पर प्रत्येक समय अपने साथ ही रख सकता था। इसी प्रकार छः महीने बीत गए। छः महीने में उनके यहाँ का काम समाप्त हो गया। तब फिर मैं इधर-उधर मज़दूरी की तलाश करने लगा। चार-पाँच दिन तक बेकार रहने के पश्चात् फिर मज़दूरी लगी। छः महीने उस काम में व्यतीत हुए। साल-भर में मैंने अपनी मज़दूरी में से खा-पीकर सौ रूपए के लगभग बचा लिए। जिन दिनों मैं मज़दूरी करता था उन दिनों मैंने लोगों से सुना था कि कलकत्ते में लक्ष्मी का वास है। वहाँ जो जाता है, वह खूब रूपया पैदा कर लेता है। अतएव जब छः महीने पश्चात् वहाँ से भी जवाब मिल गया तब मैं एकदम, बिना सोचे-समझे, कलकत्ते चला गया।

कलकत्ते पहुँचकर मुझे यह तो मालूम हो गया कि यहाँ लक्ष्मी का वास है; पर मेरे जिये वहाँ पेट पालना तक कठिन हो गया। दो महीने तक जगातार बेकार घूमता रहा। जो रूपया कमाया था,

वह सब वहाँ बैठे-बैठे खा गया। भीख न माँगने की मैंने कृपम ली थी। उन दो महीनों में मुझे कितनी मानसिक वेदना हुई उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कभी-कभी तो इतना निराशा होता जाता था कि यही जी चाहता था कि आत्म-हत्या कर लूँ। पर जब श्रवोध श्यामा के मुख की ओर देखता था तो जीवन से एक विकट मोह उत्पन्न होता था और हृदय में धारणा होती थी, चाँचो जो कुछ हो, मैं बिना धन कमाए किसी तरह न मारूँगा। उस बेकारी की दशा में मैं एक दिन एक सड़क पर से जा रहा था श्यामा भी साथ थी कि हठात् एक बड़े मकान के सामने भीड़ जम देखी। मैं मामला देखने के लिये वहाँ गया। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि उस मकान में आग लगी है। आग बुझाने का इंजिन उस समय तक नहीं आया था। मकान के दो-मंजिले पर खिड़कियों से सिर बाहर निकाले हुए एक स्त्री चिल्ला रही थी। एक क्षण मुझे लोगों से ज्ञात हुआ कि वह स्त्री आग के कारण ऊपर से नीचे नहीं आ सकती और न किसी अन्य मनुष्य का यह साहस होता था कि ऊपर जाकर उसकी सहायता करे। कुछ आदमी "सीढ़ी लाओ सीढ़ी लाओ" चिल्ला रहे थे। लोग इतने घबराए हुए थे कि हत-बुद्धि से हो रहे थे। न-जाने उस समय मुझ पर क्या भूत सवार हुआ कि मैं श्यामा को वहीं छोड़कर, बिना अपने प्राणों का भय कि और श्यामा के भविष्य के संबंध में लोचे, एकदम मकान के भीतर घुस गया। ऊपर पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि आग इतनी भयंकर नहीं थी कि कोई ऊपर आ-जा न सके, पर लोग इतने घबराए हुए थे कि किसी का साहस नहीं पड़ता था। खैर ! मैं उस स्त्री को नीचे उतार लाया। इतनी ही देर में आग बुझाने का इंजिन भी आ गया और आग तुरंत बुझा दी गई।

सब शांत हो जाने पर मकान के मालिक ने मेरे हाथ में सँ

रुपए देते हुए कहा—“तुमने जो सहायता दी, उसका यह पुरस्कार है।” मैं रुपए लेने ही को था कि मुझे एकदम नौकरी की बात याद आ गई। अतएव मैंने उनसे कहा—“ये रुपए मैं कितने दिन खाऊँगा, कृपा करके आप कोई नौकरी दिलवा दें, तो बड़ा पुण्य हो।”

यह सुनकर पहले तो वे कुछ विस्मित हुए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा—अच्छा।

खैर मुझे उन्होंने २५) मासिक पर नौकर रख लिया। मैं उनके यहाँ दो साल तक तो सक्काज़ा वसूल करने का काम करता रहा। इस बीच मैं मैंने मुद्रिया में बही-खाता लिखना सीख लिया और हिंदी भी पढ़ ली। दो साल पश्चात् उन्होंने मुझे मुनीमी का काम दे दिया और मेरा वेतन सौ रुपए मासिक कर दिया। इसी प्रकार दो साल और बीते।

दो साल बीत जाने पर मैंने एक दिन अपने मासिक पर यह इच्छा प्रकट की कि मैं अपना कोई रोज़गार अलग करना चाहता हूँ। मेरे परिश्रम तथा ईमानदारी से वे मुझ पर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मुझे पच्चीस हजार रुपए बिना सूद उधार दे दिए। मैंने उन रुपयों से एक छोटी-सी मोज़ा-बनियान इत्यादि की दूकान खोल ली। दूकान चल निकली।

एक दिन मुझे सनक सवार हुई कि कुछ सट्टेबाज़ी भी करूँ। दस फिर क्या था, सट्टेबाज़ी करने लगा। सट्टेबाज़ी में मैंने एक ही वर्ष के भीतर दो लाख रुपए कमा लिए। बस, दो लाख रुपए हो जाने पर मैंने सट्टेबाज़ी एकदम छोड़ दी और ठेकेदारी करनी आरंभ की। ठेकेदारी में भी साल-भर में काफ़ी रुपया पैदा किया। मैंने अपने स्वामी से २५ सहस्र रुपए जो उधार लिए थे, वे मैंने उन्हें बौटा दिए। यह मेरी संक्षिप्त कहानी है। इतना कहकर रामलाल



चुप हो गया। छेदी कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखता रहा, तत्पश्चात् बोला—“भाई रामलाल, तुम्हारी कथा बड़ी अचरज-भरी है। ऐसा आज तक कहीं सुनने में नहीं आया।” रामलाल ने कहा—“यद्यपि मुझे अपना पिछला जीवन एक भयानक स्वप्न-सा प्रतीत होता है, परंतु उसने जो प्रभाव मेरे हृदय पर छोड़ा है, वह इस जन्म में नहीं मिट सकता। भाई छेदी, मेरा यह अनुभव है कि लक्ष्य-हीन मनुष्य संसार में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य केवल पेट भरना और तन ढाँकना होता है, वे अपना जीवन पशु के तुल्य व्यतीत करते हैं, उनसे कभी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सकता। जिनका कोई निश्चित विशेष लक्ष्य होता है और साथ ही दृढ़-प्रतिज्ञ होते हैं, वही संसार में कुछ कर जाते हैं। लक्ष्य-हीन मनुष्य पशु की तरह जन्म लेते हैं और पशु की तरह जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं। अच्छा, यह तो सब हुआ। अब तुम यह भिन्ना-वृत्ति छोड़ो और मेरे साथ कलकत्ते चलो, वहाँ मेरे यहाँ आराम से अपना शेष जीवन व्यतीत करो, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मेरी इस उन्नति में तुम्हारा भी हाथ है। यदि तुम उस रात को मुझे वे खरी-खोटी बातें न सुनाते, तो मैं आज उसी दशा में होता जिस दशा में मैं उस समय था। अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैंने जो कुछ कमाया है, उससे तुम्हें भी लाभ पहुँचाऊँ।

छेदी की आँखों में कृतज्ञता के आँसू भर आए और उसने रामलाल के चरणों की ओर विर झुकाया; पर रामलाल ने उसे बीच ही में रोककर कहा—छेदी, यह क्या? यद्यपि आज मेरे पास तीन लाख रुपया है; पर मैं तुम्हारे लिये वही आठ वर्ष पहले का रामलाल हूँ।

कुछ क्षण तक चुप रहने के पश्चात् रामलाल ने कहा—मैंने एक बात और सोची है और वह है भिक्षुकों का उद्धार करना। मैं चाहता

हूँ कि भिचुकों के लिये एक ऐसा आश्रम खोलूँ जिसमें उन भिचुकों को जो किसी प्रकार का परिश्रम नहीं कर सकते और न जिनके लिये उदर-पोषण का कोई अन्य द्वार है, आश्रय दिया जाय । उन्हें भोजन-वस्त्र दिया जाय । और जो ऐसे हैं कि परिश्रम कर सकते हैं किंतु केवल आलस्य-वश परिश्रम नहीं करते अथवा उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वे भी उस आश्रम में रखे जायँ और उन्हें कोई उद्योग-धंधा सिखाया जाय । जब वे सीख जायँ तब उन्हें काम दिया जाय अथवा उन्हें कहीं नौकरी दिलाने की चेष्टा की जाय । क्यों, तुम्हारा क्या विचार है ?

छेदी—बड़ी अच्छी बात है । भाई, जब म्यूनीसिपलेटी ने हम लोगों की मढ़ैयाँ उखड़वाकर फिकवा दी थीं तब मैं क्या बताऊँ । ऐसे-ऐसे भाई जो अपाहिज थे, कहीं चल-फिर नहीं सकते थे, वे पानी और धूप में पड़े-पड़े मर गए । उनकी ओर किसी ने आँख उठाकर भी न देखा ।

रामलाल—बड़े दुःख की बात है, क्या म्यूनीसिपलेटी में ऐसे-ऐसे हृदय-हीन लोग भी हैं कि वे-ऐसा करने की सम्मति दे देते हैं । राम राम ! पूछो, वे उनका क्या लेते थे, खाली सड़क पर एक कोने में पड़े हुए थे । खैर ! भिचुकों के कष्ट को एक भिचुक ही समझ भी सकता है । अतएव मैं अपना शेष जीवन भिचुकों को सहायता देने, उनका सुधार करने, में ही बदतीत करूँगा ।

## संतोष-धन

( १ )

पं० रामभजन एक गरीब ब्राह्मण हैं । पंद्रह रुपए मासिक पर एक महाजन के यहाँ नौकर हैं । दो-चार रुपए मासिक ऊपर से, दान-पुण्य में, मिल जाता है । इस प्रकार केवल बीस रुपए मासिक में वह अपना परिवार जिंदाते हैं । उनके परिवार में पाँच प्राणी हैं—वह, उनकी पत्नी, उनकी माता, और दो पुत्र । एक पुत्र की अवस्था दस वर्ष के लगभग है और दूसरे की चार वर्ष के लगभग । ऐसे महँगी के समय में बीस रुपए मासिक में पाँच प्राणियों का भरण-पोषण किस प्रकार होता होगा, यह बात श्रीमानों की समझ में कठिनवा से आ सकती है । दोनों समय रोटी-दाल के अतिरिक्त और कोई वस्तु उन्हें नसीब नहीं होती । कभी-कभी कहीं से कोई सीधा मिल गया, तो मानों संपत्ति मिल गई; कहीं से कभी चार पैसे मिल गए, तो मानों चार रुपए मिले । इस प्रकार पं० रामभजन अपना परिवार चलाते हैं ।

रात का समय था । पं० रामभजन अपनी नौकरी पर से लौटे थे, और भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर अपनी टूटी चारपाई पर पड़े हुए थे । उसी समय उनका छोटा पुत्र लरलू उनके पास आया । रामभजन ने उसे अपने पास जिटा लिया, और उसे प्यार करने लगे । उनका संतप्त हृदय थोड़ी देर के लिये प्रफुल्लित हो गया । उनके अंधकार-मय जीवन में ज्योति की केवल दो रेखाएँ थीं, वे रेखाएँ उनके दोनों पुत्र थे । उनका मुख देखकर और उन पर अपनी अनेक भावी आशाओं को अवलंबित करके रामभजन थोड़ी देर के लिये अपने

सब कष्ट भूल जाते थे। इस समय भी लखलू के आ जाने से वह अपनी दरिद्रावस्था को भूल गए।

लखलू के आने के थोड़ी देर बाद ही लखलू की माता भी उनके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप रहे। कुछ देर बाद लखलू की माता बोली—लखलू का मुंडन तो अब कर ही देना चाहिए। चार बरस का हो गया है।

रामभजन बोले—मुंडन में क्या कुछ खर्च न होगा ?

पत्नी—खर्च क्यों न होगा। कम-से-कम चार-पाँच रुपए लग जायँगे।

रामभजन—तो चार-पाँच रुपए आठे कहाँ से ? एक-एक पैसे की तो मुशिकल है।

पत्नी एक दीर्घ निःश्वास लेकर बोली—सारी उमर तो ऐसे ही बीत जायगी; कभी सुख से खाने-पहनने को नसीब न होगा।

रामभजन—तो क्या करें ? भाग्य ही खोटे हैं। हमारे देखते-देखते जिनके घर में भूखी भाँग न थी, वे लखपती हो गए; पर हम जेमे-के-तेमे बने हैं।

पत्नी—लखपती हो गए ! कहीं गढ़ा धन मिला होगा।

रामभजन—हूँ ! गढ़ा धन-मिलना सहज है !

पत्नी—तो फिर कैसे लखपती हो गए ?

रामभजन—रोज़गार में लखपती हो गए। एक बनिए हैं, उनकी दशा हमसे भी खराब थी। न-जाने कहाँ से हजार-पाँच सौ रुपए मिल गए। उनसे उन्होंने घी का काम किया। वह काम उनका ऐसा चला, ऐसा चला कि आज रामजी की दया से चालीस-पचास हजार रुपए के आदमी हैं। अपना-अपना भाग्य है। भाग्य में होता है, तो सौ बहानों से मिल जाता है।

पत्नी—तुम भी ऐसा ही कोई रोज़गार क्यों नहीं करते ? नौकरी में तो सदा वही गिने टके मिलेंगे।

रामभजन—रोज़गार के लिये रुपए भी तो चाहिए, बातों से तो रोज़गार होता नहीं ।

पत्नी—कहीं से उधार ले लो ।

रामभजन—पागल हो गई हो ! हमें कौन उधार देगा ?

पत्नी—क्यों, जिनके नौकर हो, वह न देंगे ?

रामभजन—हाँ, देंगे क्यों नहीं । ऐसे ही तो हम बड़े इलाक़ेदार हैं न !

पत्नी—सदा इलाक़े से ही नहीं मिलता, विश्वास भी तो कोई चीज़ है । जो उन्हें तुम्हारा विश्वास होगा, तो दे ही देंगे ।

रामभजन—विश्वास कैसे हो ? आजकल कोरी बातों से विश्वास नहीं होता ।

पत्नी—जब कमा लेना, तो दे देना ।

रामभजन—और जो वह भी चले गए, तो फिर हमसे क्या ले लेंगे ?

पत्नी—चले क्यों जायँगे ?

रामभजन—रोज़गार है, रोज़गार में नफ़ा-नुक़सान लगा ही रहता है । नफ़ा हुआ, तब तो कोई बात नहीं; पर यदि घाटा हो गया, तो उनका रुपया दूबेगा कि रहेगा ?

पत्नी—तो ऐसा रोज़गार ही काहे को करो, जिसमें घाटा हो ?

रामभजन—तुम इन बातों को क्या जानो ? व्यर्थ बकवाद लगाए हो । ऐसा होता, तो सभी रोज़गार करके लखपती बन जाते ।

पत्नी ने पुनः एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर कहा—हमारे भाग में तो यही दलित्तर भोगने बदे हैं । इतना गहना भी तो पास नहीं, जो उसी को बेचकर रोज़गार में लगा दें ।

रामभजन—इतना गहना धरा है । दो-डेढ़ सौ का गहना होगा, सो दो-डेढ़ सौ में कहीं रोज़गार होता है ?

पत्नी—न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी ?

रामभजन—ऊँह, होगा भी। हमारा धन तो ये दो लड़के हैं, चिरंजीव रहेंगे, तो बहुतेरा धन हो जायगा।

यह कहकर रामभजन लल्लू के सिर पर हाथ फेरने लगे।

मनुष्य प्रत्येक दशा में अपने हृदय की सांत्वना का आधार ढूँढ लेता है। अयंत कष्ट तथा दुःख में फँसा हुआ मनुष्य भी कोई-न-कोई ऐसी बात ढूँढ लेता है, जिसका आश्रय लेकर वह सारे कष्टों को भूल लेता है। मनुष्य का यह स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। यदि ऐसा न होता, तो मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाता। रामभजन भी जब अपनी दरिद्रता से संतप्त होकर धैर्य-हीन होने लगते थे, तो अंत को अपने पुत्र-रत्नों की ओर देखकर ज्वाला-पूर्ण हृदय को शांत कर लेते थे। वह सोचने लगते थे कि यह कष्ट उसी समय तक है, जब तक कि दोनों लड़के जवान होकर चार पैसे पैदा करने के योग्य नहीं हो जाते। जिस दिन उनके दोनों लाल धनोपार्जन करने योग्य हो जायँगे, उसी दिन उनके सारे कष्टों का अंत हो जायगा। इस समय भी वह यही सोच रहे थे।

उनकी पत्नी ने विषाद-पूर्ण स्वर में कहा—हाँ, हमारे तो धन ये ही हैं। रामजी चाहेंगे, तो बड़े होकर चार पैसे कमायँगे ही।

रामभजन—हाँ, यह तो है ही। सबसे अधिक चिंता बुढ़ापे की है। जब हाथ-पैर थक जायँगे, तब ये ही लड़के कमा-कमाकर खिलायँगे। बस, हमें यही चाहिए, हमें धन-दौलत लेकर क्या करना है ? पेट-भर भोजन और तन ठकने को कपड़ा मिले जाय, बस यही बहुत है।

उसी समय रामभजन की माता वहाँ आ गई। उन्होंने कहा—अरे बेटा, लल्लू का मुँडन अब कर डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया, अपने-पराए सब टोकते हैं।

रामभजन—अम्माँ, ज़रा और ठहर जाओ, कहीं से रुपए मिलें, तो मुंडन हो, विना पैसे-रुपए के कैसे होगा ?

माता—चार-पाँच रुपए लगेंगे, कुछ सौ-पचास का खर्च नहीं है।

रामभजन—इस समय तो चार-पाँच रुपए भी मिलने कठिन हैं।

माता—यह दशा तो सदा ही रहेगी, यह काम भी तो करना ही है।

रामभजन—खैर, जो ऐसी ही जल्दी है, तो तनखाह मिलने दो, कर डालना।

माता—अपने मालिक से क्यों नहीं कहते ? वह चार-पाँच रुपए दे सकते हैं।

रामभजन—चार-पाँच क्या, वह चाहें, तो सौ-पचास दे सकते हैं, पर आजकल ब्राह्मणों को देने की श्रद्धा लोगों में नहीं रही। वाहियात कामों में लोग हज़ारों खर्च कर डालते हैं।

माता—कलजुग है न ! कलजुग में गऊ-ब्राह्मण का मान नहीं रहा।

रामभजन—कलयुग क्या, अपना नसीब है, हमारे तो नसीब ही में दरिद्र भोगना लिखा है।

( २ )

रामभजन जिनके यहाँ नौकर थे, उनके यहाँ कपड़े का काम होता था। दूकान का नाम जोलमल-हज़ारीलाल पड़ता था। रामभजन अधिकतर तक्राज़ा वसूल करने का काम करते थे। हज़ारों रुपए नित्य रामभजन के हाथों से निकलते थे। वह ईमानदार प्रथम श्रेणी के थे, इसीलिये उनके मालिकों का उन पर पूर्ण विश्वास था। बाज़ार के अन्य लोग भी उनकी ईमानदारी के कारण उनका आदर करते थे।

जिस दिन रामभजन को वेतन मिला, उस दिन उन्होंने

डरते-डरते लाला हज़ारीलाल से कहा—लाला, तुम्हारे गुलाम का मुंडन है।

लाला हज़ारीलाल—किसका मुंडन, तुम्हारे लड़के का ?

रामभजन—हाँ, छोटे लड़के का।

“हूँ” कहकर लाला चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले—तो क्या चाहते हो ?

रामभजन—कुछ सहारा लगा दीजिए, तो बड़ी दया हो।

लाला हज़ारीलाल—तनख्वाह मिली है, इसी में से क्यों नहीं खर्च करते।

रामभजन—अरे लाला, तनख्वाह तो पेट ही-भर को नहीं होती, मुंडन में खर्च कहाँ से करें ?

लाला रुखाई से बोले—तो महागज, इस समय तो हम अधिक कुछ कर नहीं सकते। आजकल बाज़ार मंदा है, विक्री-विक्री कुछ होती नहीं। ज़रा बाज़ार चेतने दो, तो फिर धूम से मुंडन करना। अभी एक-आध महीने और ठहर जाओ।

रामभजन—लालाजी, हम तो साल-भर ठहर जायँ; पर घर में औरतों नाक में दम किए हुए हैं। आप जानते हैं, स्त्रियों का मामला बढ़ा टेढ़ा होता है।

लालाजी—औरतों के मारे तो सबके नाक में दम रहता है। उन्हें कुछ मालूम पड़ता है, हुकूम चलाना भर जानती हैं।

रामभजन—हाँ, यह तो ठीक है; पर करना ही पड़ता है, विना किए प्राण बचते हैं ?

लालाजी—तो महाराज, फिर करो, हम मना थोड़े ही करते हैं। हमारा सुबीता इस समय नहीं है, साफ़ घात है।

रामभजन—अरे लालाजी, आप राजा-महाराजा लोग हैं, आपको सय सुबीता है। भगवान् की दया से सब कुछ है।



लाला—ये लरलो-पत्तो की बातें हमें नहीं आतीं, हम तो साफ़ आदमी हैं। सुबीता होता, तो अभी निकालकर दे देते। सुबीता नहीं है, तो साफ़ कह दिया कि नहीं है।

रामभजन—ख़ैर, आपकी इच्छा, हम अधिक कुछ तो कह नहीं सकते।

यह कहकर रामभजन उनके सामने से चले आए। एक दूसरे नौकर से आकर बोले—देखीं लाला की बातें! कहते हैं, सुबीता नहीं है।

नौकर—अरे ये सब टालने की बातें हैं भैया! अभी चंदाजान सौ रुपए माँग भेजें, तो लाला आप लेकर दौड़े जायँ, दस-पाँच रुपयों के लिये कहते हैं, सुबीता नहीं है।

रामभजन—ऐसी ही बातों से जी खट्टा हो जाता है बताओ, जान तोड़कर रात-दिन मेहनत करें, हज़ारों रुपए धरें-उठावें; पर कभी एक पैसे का फ़रक़ नहीं पड़ा, फिर भी यह दशा! एक रोज़ लाला गद्दी पर चार गिन्नियाँ फेककर चले गए थे। दूकान में उस समय मैं ही था, और कोई न था। मैं चाहता, तो चारों गिन्नियाँ साफ़ घोट जाता। पर भैया, हमें तो भगवान् को मुँह दिखाना है, चार गिन्नी कितने दिन खाते? हमने तुरंत चारों गिन्नियाँ ले जाकर दे दीं। बड़े प्रसन्न हुए, एक रुपया मिठाई खाने को दिया; हमने चुपचाप ले लिया। अब जो आता है, उसी से कहते हैं, रामभजन बड़ा ईमानदार आदमी है। तारीफ़ों के पुल बाँध दिए। बताओ, इनकी तारीफ़ को ओढ़ें या विछावें। यह नहीं होता कि कभी-कभी दस पाँच रुपए दे दें। यह भी न हुआ कि दो-चार रुपए तनज़्वाह में ही बढ़ा देते।

नौकर—ऐसी ही बातें देख-देखकर तो आदमी की नियत बिगड़ जाती है! ईमानदारी करने से क्या फ़ायदा? इनके साथ तो बस,

यही बर्ताव रखे कि जो मिले, सो अपने बाप का, कभी रिश्चायत न करे। तुम तो महाराज पोंगा हो। मैं होता, तो गिज़ियाँ कभी न लौटाता। उनकी पेसी-तैसी। काहे को लौटावें ? जब हमारी मेहनत और ईमानदारी की कोई क़दर ही नहीं, तब काहे को ईमानदारी करें। आजकल वह समय है कि सोना-तुलसी मुँह में रखकर काम करना बड़ा गधापन है, ऐसे आदमी भूखों ही मरा करते हैं। ये लाला भाई तो इस क़ाबिल हैं कि जहाँ तक हो, इनके चूना ही लगावे। हाँ, अपने हाथ-पैर बचाकर काम करे।

रामभजन—यह तो तुम्हारा कहना ठीक है; पर भैया, भगवान् को डरते हैं ! लाला का क्या विगड़ेगा ? उनको समाई है। उनके सौ-पचास चले जायेंगे, तो कुछ न होगा; पर अपना परलोक विगड़ जायगा।

नौकर—अरे क़हाँ का परलोक ! तुम भी वही बाम्हनपने की बातें करने लगे। पहले यह लोक सँभालो, फिर परलोक की सोचना।

रामभजन—अरे भई, सोचना ही पड़ता है। उस जन्म पाप किए हैं, सो इस जन्म में भोग रहे हैं; अब इस जन्म में पाप करके भगला जन्म क्यों विगाड़ें ?

नौकर—इसी से तो क़हा है कि बाम्हन साठ बरस तक पोंगा रहता है। बाम्हन को कभी बुद्धि नहीं आती, यह मानो हुई बात है।

रामभजन—चलो, हम बुद्धिहीन ही भले हैं। भैया, हमसे तो दगाबाज़ी कभी नहीं हो सकती।

नौकर—दगाबाज़ी दो कैसे, बड़े घर का जो दर लगा है। बड़े घर का दर न हो, फिर ईमानदार बने रहो, तो जानें कि बड़े ईमानदार हो।

रामभजन—वह चार गिज़ियाँ में ले लेता, तो मुझे कौन फ़ाँसी

पर टोंग देता ? कुछ नोट तो थे नहीं, जो पकड़ लिए जाते । गिनी की क्या पहचान ? लाला का डन पर नाम लिखा था ? पर, हमने तो भगवान् का झौक खाया । यह घर बड़े घर से भी ज़बरदस्त है ।

नीरव—तुममें हिम्मत ही नहीं है । ये सब काम हिम्मत से होते हैं । तुम्हारे-जैसे कल्पद्रियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है ?

समभोजन—और, ऐसा ही सही, भगवान् इसी तरह पार लगा दें । हम इसी में खुशी हैं ।

नीरव—तो फिर लाले को लाला के आगे हाथ पसारते हो ? लाली ललपटाए से तो आते करो ।

समभोजन—लाली लाली तो कहना है, जिस पर कुछ ज़ोर होता है ।

नीरव—लाला पर ललपटाए क्या ज़ोर है ?

नौकर—तो दस-पाँच रुपए के लिये मंदा है ? तुम भी वही पोंगे-पन की बातें करते हो ! इतने पुराने नौकर, और इतने नमकहलाल ! तुम्हें दस-पाँच रुपए देने के लिये लाला महँगे नहीं हैं । ये सब न देने की बातें हैं ।

रामभजन—खैर चाहे जो हो । उनकी इच्छा ! हम अधिक तो कुछ कह सकते नहीं ।

नौकर—माँगने से कहीं कुछ मिला है ?

रामभजन—माँगने से नहीं मिलता, तो न मिले; हमसे चोरी-दगाघाज़ी नहीं हो सकती ।

( ३ )

उपर्युक्त घटना हुए एक मास व्यतीत हो गया । एक रोज़ लाला हज़ारीमल ने रामभजन को हज़ार रुपए दिए, और कहा—जाओ, करेंसी से सौ-सौ रुपए के दस नोट ले आओ ।

रामभजन थैली कंधे पर रखकर करेंसी पहुँचे । वहाँ से नोट लिए । नोट लेकर सिर झुकाए धीरे-धीरे दूकान की ओर चले । करेंसी से जब कुछ दूर निकल आए, तो उन्हें सड़क पर एक छोटा-सा पैकट पड़ा हुआ दिखाई दिया । रामभजन ने उसे ठुकराया—समझे, फोई रद्दी फागज़ का गोला पड़ा है । लात लगने से उन्हें ज्ञात हुआ कि तागा बँधा है । उठा लिया । उठाकर एक वृक्ष की छाया में आए । आकर उसे खोला, तो देखते क्या हैं कि उसमें सौ-सौ रुपए के घास नोट हैं । बिलकुल ताज़े थे । जान पड़ता था, फोई व्यक्ति करेंसी से लेकर चला था, रास्ते में उसकी जेब से गिर ग० ।

यह देखकर रामभजन कुछ देर तक मूर्ति की तरह खड़े रहे । सोचने लगे—ये किसके नोट हैं ? रास्ते में फोई आदमी जाता भी दिग्राई न पड़ा, नहीं तो मैं पुकारकर दे देता, अब इन्हें क्या करें ? जिसके ये नोट हैं, उसे कहाँ दूँ ? इतना यदा शहर है, कहाँ पता

जायेगा ? होंगे किसी काजायवाले ही के । बाजार में खूबने पर भाग्य पता चल जाय ।

अचानक उसी समय उन्हें कम नीकर के शब्द याद आए—  
 “शाजकल यह समय है कि सोना-सुभद्रा मंद में रखकर काम करना बड़ा गंधापन है ।” यह ध्यान आते ही उन्होंने सोचा—इस मंद में पढ़ने से कोई लाभ नहीं । ईश्वर ने ये हमों को दिए हैं; नहीं तो भला ये हजार के नोट क्यों इस प्रकार मिलते हैं ? बेशक, ये हमारे ही भाग्य के हैं । यह ध्यान में आते ही उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया । सोचे—चलो, भाग्य खुला । अब लाभा की नीकरी योश देंगे । यह सोचते हुए रामभजन पुत्री-पुत्री बने । थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें ध्यान आया—नोट सौ-सौ काए के हैं, ऐसा न हो कि इनके नंबर उनके पास लिगे हों । ऐसा हुआ, तो बड़ा चर देखना पड़ेगा । फिर ध्यान आया—अभी-यभी तो करंसी से लिए गए हैं; इतनी जल्दी नंबर क्यों से लिगा लिए होंगे ? यह सोचकर फिर चले । परंतु दस क्रम चलकर ही उन्हें एक युक्ति सूझी । वह पुनः करंसी की और लौटे, और करंसी में जाकर उन चौस नोटों में से दस निकाले, और उनके दस-दस रूपए के नोट बदल लिए । नोटों का मुट्ठा अपनी चदर में बाँध लिया । जो दस नोट अपने मालिक के लिये लिए थे, वे भी उन्हीं में मिला-जिए । मिले हुए नोटों में से जो दस नोट शेष बचे थे, वे बाहर रख लिए । सोचे—ये नोट मालिक को दे देंगे । अगर पकड़े भी गए, तो उन पर पड़ेगी, हम अलग रहेंगे । हमारे पास एक हजार के तो दस-दस के नोट हैं, और एक हजार के सौ-सौ के—वे सौ-सौ के, जो हमने स्वयं मालिक के लिये लिए थे । इसलिये हमें तो अब कोई पूछ नहीं सकता । मिले हुए नोटों में से दस तो करंसी में ही लौट गए, और दस हमारे मालिक के पास पहुँच जायँगे । वस, आनंद है ।

यह सोचते और अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हुए महाराज रामभजन पहले अपने घर पहुँचे । घर पहुँचते ही उन्होंने दो हजार के नोट अपनी संदूक में बंद करके ताला लगा दिया और अपनी माता तथा पत्नी से उनका कोई जिक्र नहीं किया । इसके पश्चात् उन्होंने अपने बड़े लड़के से दो आने की मिठाई मँगाई और थोड़ी-थोड़ी दोनों लड़कों को देकर शेष आपने खाई और एक लोटा पानी तानकर पिया । उनकी पत्नी विस्मित थी कि आज पति को यह कहीं की फ्रिज़लवर्ची सूझी कि दो आने की मिठाई चट कर गए । पर कुछ कहने का साहस न हुआ । सोची—कहीं से पैसे मिल गए होंगे, जी न माना, मिठाई खा ली ।

पानी पी चुकने के पश्चात् वह सीधे दूकान पहुँचे और मालिक के हाथ में सौ-सौ रूपए के दस नोट दे दिए ।

मालिक ने पूछा—आज बड़ी देर लगाई ?

महाराज बोले—लाला, आज करेंसी में बड़ी भीड़ थी । महा-मुरिकत में नोट मिले हैं । घंटा-भर खड़े रहना पड़ा ।

लाला यह सुनकर चुप हो गए । उन्हें नोट कहीं बाहर भेजने थे, सो उन्होंने उसी समय उनका बीमा करा दिया । महाराज रामभजन ने निश्चितता की एक गहरी श्वास ली ।

महाराज ने सोचा था कि आज ही नौकरों छोड़ देंगे । परंतु फिर ध्यान आया, ऐसा न हो कि किसी को कुछ संदेह हो जाय । अतएव बार-बार दिन ठहर जाना चाहिए ।

रात को घर आए और भोजन करके अपना चारपाई पर लेटे । थोड़ा देर में उनका माता उनके पास आई और सिरहाने घँठकर पंखा चला देने लगीं । थोड़ा देर तक रामभजन पड़े यह सोचते रहे कि माता में मर हाल का दे ; परंतु साहस न होता था । अंत को वह तब किया कि क्षमा न मताना चाहिए । जियों के पेट में दात नहीं

पचती ; कहीं इधर-उधर कह दिया, तो उलटते लेने के देने पड़ जायँगे । यह सोचकर बोले—अम्माँ, अब तो हमारा जी नौकरी से ऊब गया । अब हमसे नौकरी नहीं होती । रात-दिन बैल की तरह जुते रहो और मिलने को बीस रुपही ।

माता—बेटा, रोज़गार के लिये तो रुपए चाहिए; कहाँ से आवेंगे ?

रामभजन—रुपए भी हो ही जायँगे । जब जी में ढट जायगी, तो रुपए होते क्या देर लगोगी ।

माता—कहाँ से हो जायँगे ?

रामभजन—अरे अब इतने दिन से यहाँ काम करते हैं, तो क्या कोई हज़ार-दो-हज़ार रुपए भी उधार न देगा ? सैकड़ों बनिप-सहाजनों से जान-पहचान हो गई है ; जिससे माँगेंगे, वही दे देगा ।

उनकी पत्नी बैठी भोजन कर रही थी । उसने जो महाराज की ये लंबी-लंबी बातें सुनीं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगी—अभी उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कौन रुपए देगा । हमारे पास कौन इलाका धरा है । लड़के के मुँडन के लिये मालिक से पाँच रुपए माँगे, वह तक नहीं मिले । पाँच रुपए न होने के कारण मुँडन रुका हुआ है । और आज महाराज हज़ारों की बातें कर रहे हैं । कहते हैं, रुपया भी हो ही जायगा । वह मामला क्या है ! कहीं आज भाँग तो नहीं पी आए !

उधर पत्नी यह सोच रही थी, इधर माता पुत्र से बोली—बेटा, सबसे पहले लड़के का मुँडन कर डालो, बड़ी बदनामी हो रही है ।

रामभजन झुल्लाकर बोले—बदनामी हो रही है, तो कर डालो । मना कौन करता है ?

माता डरते-डरते बोली—कर काहे से डालें, रुपए भी तो हों ?

माता—कम-से-कम १, पाँच रुपए तो हों । हेती-व्यवहारियों में बतासफेनी बटेंगी ; आज को कुछ दिया जायगा ।

रामभजन—भाँसा बतासफेनी क्या बाँटोगी ? बाँटो, तो मिठाई बाँटो ।

माता—मिठाई ही में दस रुपए से कम नहीं लगेंगे ।

रामभजन—वह लगेंगे तो लग जायेंगे, क्या किया जाय । यह काम भी तो करना ही बंधा है । कल हम तुम्हें दस रुपए दे देंगे ।

यह सुनते ही राममाता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा ।

उधर पत्नी सोचने लगी—ओहो ! कहाँ पाँच का ठिकाना न था, और कहाँ अब दस खर्च करेंगे । 'या तो आज भाँग अधिक पी गए हैं या कहीं से रुपए मिल गए हैं ।

यह सोचते ही पत्नी ने जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त किया । इस समय उसके पेट में चूहे कूद रहे थे । वह वास्तविक बात जानने के लिये अत्यंत आतुर हो रही थी । उसने हाथ-वाथ धोकर सास से कहा—अम्माँ, लत्तू को सुला दो ।

माता समझ गई कि बहू अपने पति के पास जाना चाहती है । अतएव वह वहाँ से हट गई । पत्नी ने आते ही पहला प्रश्न यह किया—सच बताओ, रुपए कहाँ मिले ?

इतना सुनते ही रामभजन का मुखमंडल श्वेत हो गया ; परंतु अंधेरा होने के कारण उसकी पत्नी उसकी दशा न देख सकी । रामभजन बोले—रुपए, कैसे रुपए ?

पत्नी—मुझसे तो उड़ो नहीं । ये बढ़-बढ़कर बातें योंही मार रहे थे ? आज तो ऐसी बात कर रहे थे, मानों जखपती हो । ऐसी बातें विना रुपए के मुँह से कभी नहीं निकल सकतीं ।

रामभजन काठ हो गए । सोचने लगे—निस्संदेह मैंने बड़ा गधा-पन किया, जो ऐसी बातें कीं । यह सोचकर तुरंत बोले—रुपया क्या ठीकरी है, जो मिल जायगा ?



पत्नी—तो ये दस रूपए मुंडन के लिये कौनों से आवेंगे ?

रामभजन—आवेंगे कहाँ से ? कहीं से उधार माँगकर लाऊंगा !

पत्नी—हमें उधार लेकर मुंडन नहीं करना है। और जो उधार लेना है, तो पाँच ही में काम चलाना चाहिए, दस खर्च करने की क्या जरूरत है ?

रामभजन—अरे हमने सोचा कि जब करना ही है, तो अच्छी तरह करें, जहाँ पाँच खर्च होंगे, वहाँ दस सही। एव ; रुपया महीना करके अदा कर देंगे।

पत्नी—और वह रोजगार के लिये हजार-दो-हजार कौन देगा ?

रामभजन—तुम तो घात का वतंगड़ बनाती हो। कौन देगा ? हजार-दो-हजार कुछ होते ही नहीं ?

पत्नी—अम्माँ से तुम्हीं कह रहे थे कि हम जिससे चाहें, हजार-दो-हजार ले लें।

रामभजन—हाँ, तो झूठ थोड़े ही है। अब इतने नास्तून भी नहीं गिर गए हैं, जो कहीं से हजार-दो-हजार माँगें भी न मिलें। मैं तो इस डर से नहीं लेता कि घाटा हो गया, तो दूँगा कहाँ से ?

पत्नी—हूँ, उस दिन मुझसे तो कुछ और ही कहते थे !

रामभजन—तुमने जैसा पूछा होगा, वैसा कह दिया होगा।

यह कहकर रामभजन ने नींद का बहाना करके अपना पिंड छुड़ाया।

दूसरे दिन जब महाराज रामभजन दूकान पहुँचे, तो उन्होंने नोटों की चर्चा सुनी। लाला हजारीमल अपने मुनीम से कह रहे थे—अजी, वह आदमी सरासर झूठ बोलता है। भला दो हजार के नोट कोई फेंक सकता है ? घर धर आया होगा।

मुनीम ने कहा—लाला, यह कैसे कहा जा सकता है ? उसका दीन-ईमान जाने। रही गिरने की बात, सो बहधा ऐसा हो जाता है।

लालाजी—शजी, राम भजो ! ऐसा नहीं हो सकता । वह त्रस्तर खा गया । खैर पुलिस को इत्तिला दे दी गई है, वह मार-मार कर सब क़बूलवा लेगी ।

यह सुनते ही रामभजन की नीचे की साँस नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई । हृदय में सब वृत्तांत जानने की उत्कंठा पैदा हुई । थोड़ी देर में चित्त स्थिर करके लाला से पूछा—लाला, क्या बात है ।

लाला—कल मुसद्दीलाल-रामसरन का आदमी करेंसी से दो हजार के नोट लाया था । दूकान पर आकर बोला कि नोट तो कहीं गिर गए । उसका कहना है कि उसने चादर के कोने में बाँध लिए थे । दूकान पर आकर जब नोट देने के लिये चादर देखी, तो गाँठ खुली पाई । अब इनमें दो ही बातें हो सकती हैं—या तो किसी ने खोल लिए और या वह खुद शबन कर गया । गिर जाने की बात समझ में नहीं आती ।

रामभजन—तो अब क्या होगा ?

लाला—होगा क्या, उन्होंने उस आदमी को पुलिस को दे दिया है । जहाँ पुलिस ने जूता बरसाया, सब क़बूल देगा ।

रामभजन के हृदय में एक धक्का लगा । वह सोचने लगे—बेचारा एक निरपराध मुसीबत में फँसा हुआ है, और नोट हमारे पास हैं । रामभजन यह बैठे सोच ही रहे थे कि लाला ने उन्हें एक काम बता दिया ।

रामभजन वह काम करने के लिये चले, रास्ते में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि चलो देखें, मुसद्दीलाल की दूकान पर इस समय क्या हो रहा है । यह सोचकर उधर ही से निकले । देखा, उनकी दूकान में दो-तीन पुलिस के आदमी बैठे हैं । सामने उनका नौकर खड़ा है । सब-इंस्पेक्टर साहब उससे कह रहे हैं—अब तूने लिए हों, तो ठीक ठीक बता दे ।

नौकर हाथ जोड़कर बोला—सरकार, भगवान् जानते हैं, मैंने नहीं लिए। पाँच-पाँच हज़ार के नोट लाता रहा हूँ; लेता, तो पाँच हज़ार लेता, दो हज़ार क्यों लेता ?

सब-इंस्पेक्टर—अबे, यह तू हमें क्या पढ़ाता है ? इंसान की नीयत हमेशा एक-सी नहीं रहती। मुमकिन है, हम वक्त तुम्हें रुपयों की सख्त ज़रूरत हो, इसलिये तूने ऐसा कर डाला हो।

नौकर—मालिक, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ। ईश्वर देखने-वाला है। जिसने रुपए लिए हों उसका बंस नास हो जाय, उसके आगे-पीछे कोई न रहे।

इतना सुनते ही रामभजन का कलेजा दहल गया। सब-इंस्पेक्टर ने लाला से कहा—हम इसे कोतवाली लिए जाते हैं, वहीं यह क़बूलेगा। सीधी तरह न बतावेगा।

यह कहकर इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा—इसके हथकड़ी लगाओ और थाने पर ले चलो। बात-की-बात में उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। नौकर लाला के सामने नाक रगड़ने लगा। बोला—लाला, मुझे बचाओ; मैं जन्म-भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। भगवान् जानते हैं, मैंने रुपए नहीं लिए। मेरे छोटे-छोटे बच्चे भूखों मर जायँगे, मेरी बुढ़िया मा यह खबर सुनते ही प्राण छोड़ देगी। तुम भगवान् हो, तुम्हारे लिये हज़ार-दो हज़ार कुछ नहीं, व्याह-शादी में इतने की लकड़ियाँ जल जाती हैं। सरकार मेरा जनम न बिगाड़ो।

लाला ने उसकी बात पर ध्यान न दिया, मुँह फेर लिया, और कांस्टेबलों से इशारा किया कि ले जाओ। कांस्टेबल उसे घसीटने लगे। वह लाला की ओर गिरा पड़ता था और बिलख-बिलखकर रो रहा था। उसी समय एक कांस्टेबल ने उसके गाल पर एक ज़ोर का तमाचा मारा और कहा—साजे, फैल मचाता है ? अभी क्या है, ज़रा कोतवाली चल, देख, वहाँ तेरी क्या गत बनती है !

यह कहकर कांस्टेबल उसे घसीटता हुआ ले चला । रामभजन यह सब देख-सुनकर पाषाण-मूर्ति-से हो गए । इस समय उसकी दशा पर रामभजन का हृदय रो रहा था । रामभजन सोच रहे थे—रामभजन, इसके छोटे-छोटे बच्चे भूखों मरेंगे ! अभी हमारी ऐसी दशा हो, तो हमारा लल्लू और कल्लू किसके सहारे जिएँ ? हमारी पत्नी और माता क्या खाकर रहें ? धिक्कार है ऐसे रूप पर ! ऐसे रूप से तो हम भिखारी ही भले । इस बेचारे की आत्मा इस समय कितनी दुखी है ! कोतवाली में न-जाने बेचारे की क्या दुर्दशा की जाय । इसका शाप अवश्य हम पर पड़ेगा । हमारे दो पुत्र हैं; उन पर इसकी आत्मा का शाप पड़ेगा । आँखों से इसकी दुर्दशा न देखते, तब भी ठीक था; पर अब तो अपनी आँखों से देख लिया; अब भी जो हम चुप बैठे रहेंगे, तो हमें नरक में भी ठौर न मिलेगा । रामभजन, ऐसे रूप पर लात मार दो ! एक का सर्वनाश करके यदि तुमने हजार-दो हजार ले ही लिए, तो वह फलेंगे नहीं; उलटा नाश कर देंगे । तुम्हारे दो लाल हैं, क्या रुपया तुम्हें उनसे अधिक प्यारा है ? उन्हें कुछ हो गया, तो यह रुपया किस काम आवेगा ?

रामभजन न-जाने कितनी देर तक खड़े यही सोचते रहे । उन्हें इस समय अपने तन-वदन का होश न था । हठात् एक गाड़ी की घड़घड़ाहट से उनकी नींद-सी टूटी । उन्होंने अपने चारों ओर देखा । इस समय उनके नेत्र अश्रु-पूर्ण हो रहे थे, और जान पड़ता था, अपने होश में नहीं हैं । हठात् वह तेज़ी के साथ एक ओर चल दिए ।

एक घंटे बाद रामभजन लाला सुसहीलाल के पास पहुँचे, और बोले—लाला, आपसे एक बात कहनी है ।

लाला सुसहीलाल रामभजन को पहचानते थे । उन्होंने कहा—कहो महाराज ।

रामभजन—तनिक एकांत में चलिए ।

मुसद्दीलाल एक कमरे में गए और बोले—कहो, क्या बात है ?  
रामभजन ने नोटों का बंडल निकालकर उनके हाथ में रख दिया ।

मुसद्दीलाल चकित होकर बोले—यह क्या ?

रामभजन—ये आपके दो हजार रूपए हैं । आपका वह नौकर देहस्तूर है । नोट सचमुच गिर पड़े थे, रास्ते में मुझे पड़े मिले थे । मुझे मालूम न था, किसके हैं, इसलिये मैंने इन्हें अपने पास रख लिया था । अब आज मालूम हुआ, तो लाया ।

मुसद्दीलाल ने विस्मय, हर्ष तथा प्रशंसात्मक दृष्टि से रामभजन को देखा । इसके पश्चात् नोट गिने । नोट देखकर बोले—पर मैंने तो सब सौ-सौ के भेगाए थे, इसमें तो दस-दस के हैं ?

रामभजन—अब यह बात मत पूछिए । एक आदमी को सौ-सौ के नोटों की जरूरत थी, उमें मैंने इनमें से दे दिए और उससे दस-दस के ले लिए । चाहे दस-दस के हों चाहे सौ-सौ के, इससे आपको क्या मतलब ? दो हजार के तो हैं । जाता मुसद्दीलाल बोले—हाँ, चूरे दो हजार के हैं । यह कहकर उन्होंने दस-दस रूपए के दस नोट निकालकर रामभजन को दिए ।

रामभजन ने पूछा—इन्हें क्या कर्म ?

जाया—यह आपकी देमानदारी का पुरस्कार है ।

रामभजन—नहीं-नहीं, इन्हें करने दायिए । मैं ऐसा पुरस्कार नहीं चाहता ।

जाया—नहीं, ये तो आपको खेरे ही पढ़ेंगे । आपकी पदीयता हमें ये लिखे हैं । हम तो इनसे राय ही भी चुके थे । आप इन्हें मरिओ, तो हमें बँस दीया ।

रामभजन—हाँ, देना आपका इच्छा । अब देकर के लिये।

अपने उस नौकर को छुड़वा दीजिए, पुलिस उसकी दुर्दशा कर डालेगी ।

लाजा ने तुरंत अपना आदमी कोसवाजी दौड़ा दिया ।

घर आकर रामभजन माता से बोले—अम्माँ, लो ये २०) रुपए । इसमें बल्लू का मुंडन करो । साथ ही सत्यनारायण की कथा भी करा लेना ।

माता ने चकित होकर पूछा—ये रुपए कहाँ पाए वेटा ?

रामभजन—सत्यनारायण बाबा ने दिए हैं । सब उन्हीं का प्रताप है ।

इसके पश्चात् पत्नी के हाथ में ८०) ६० रख दिए । पत्नी आनंद से गद्गद होकर बोली—कहाँ से ले आए ?

रामभजन—सब सत्यनारायण बाबा की दया हैं । आदमी को नीयत ठिकाने रहनी चाहिए । ईश्वर सब भला ही करता है ।

## साध की होली

( १ )

शाम के ६ बज चुके हैं। शोखपुरे के ज़मींदार सज्जादहुसेन जंगल की हवा खाने निकले हैं। ज़मींदार साहब की वयस २५ वर्ष के लगभग है। देखने में सुंदर हैं। अपने सौंदर्य पर उनको बड़ा गर्व है, अभिमान है। उनका यह नित्यकर्म-सा था कि शाम को अकेले निकलते और गाँव की स्त्रियों को, जो शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिये जंगल अथवा खेतों में आया करती थीं, छिपकर घूरा करते। जो स्त्री इन्हें पसंद आ जाती थी, उसे छेड़ते थे और फुसलाने की चेष्टा करते थे। जो सीधी तरह उनकी ओर आकर्षित न होती थी उसे साम, दाम, दंड, भेद से बश में लाने की चेष्टा करते थे। उनके इस घृणित कार्य से गाँव के निवासी अत्यंत दुःखी थे, पर किसी का इतना साहस न होता था कि उनके इस कार्य का विरोध खुले तौर पर करे। गाँव के दो-चार आदमी, जिन्हें यह बात किसी प्रकार सहन न हो सकी, गाँव छोड़कर चले गए थे।

आज भी नियमानुसार शोख साहब अपने दैनिक दौरे के लिये निकले थे। उनके भय से बहुत-सी स्त्रियाँ भुंड बाँधकर निकलती थीं और सब एकसाथ ही गाँव की ओर लौट जाती थीं। शोख साहब इधर-उधर घूमते-घामते गाँव के बाहर एक पोखर पर पहुँचे। उन्होंने थोड़ी दूर पर १०-१२ स्त्रियों को गाँव की ओर जाते देखा। यह देखकर वह कुछ क्षण के लिये ठिठक गए और स्त्रियों की ओर स्थिर दृष्टि से देखते रहे। तत्पश्चात् अपने-ही-आप मुसकिराकर धीरे-धीरे आगे बढ़े। हठात् उन्होंने देखा कि एक स्त्री उन स्त्रियों में बहुत पीछे छूट गई है।

यह देखकर उन्होंने अपनी चाल तेज़ की और कुछ क्षण में उस स्त्री के निकट पहुँच गए। कुछ अंधेरा हो गया था। वह स्त्री निश्चित भाव से बेधड़क धीरे-धीरे चली जा रही थी। उसका मुख खुला हुआ था। शोख साहब ने देखा स्त्री पोड़शी है, अधिक-से-अधिक १७-१८ वर्ष की वयस होगी। रंग गोरा, आँखें बड़ी-बड़ी और मुखमंडल सुग्धकर है। देखते ही लोट-पोट हो गए, हृदय में गुदगुदा उत्पन्न हो गई। पास पहुँचकर खखारा। पोड़शी ने चौंककर उनकी ओर देखा और एक पुरुष को अपने अत्यंत निकट आता हुआ देखकर घँघट काढ़ तेज़ी के साथ गाँव की ओर बढ़ी। यह देखकर शोख साहब रुट उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए और बड़ी रसिकता के साथ बोले—क्यों, भागी क्यों जा रही हो? कुछ कृत्ता हूँ जो तुम्हें काट खाऊँगा।

पोड़शी उन्हें राह में खड़ा देखकर सितपिटाकर खड़ी हो गई। उसका शरीर काँपने लगा। शोख साहब पुनः बोले—हमसे क्या परदा करती हो? तुम्हें शायद यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं।

स्त्री ने इसका भी कुछ उत्तर न दिया। शोख साहब पुनः बोले—हम तुम्हारे इस गाँव के ज़मींदार हैं।

पोड़शी पुनः मौन रही। शोख साहब उत्तर की प्रतीक्षा करने के पश्चात् बोले—हमारी बात मानोगी, तो चैन करोगी। हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे, जो कहोगी सो करेंगे।

इस वार पोड़शी ने कंपित-स्वर में ड़ेवल इतना कहा—राह छोड़ दो, मुझे जाने दो, देर होती है।

शोख साहब बोले—अच्छा जाओ, हमारी बात मानोगी, तो मज़े करोगी; नहीं तो पड़ताओगी। कल यहीं फिर मिलना।

यह कहकर शोख साहब ने रास्ता छोड़ दिया। पोड़शी तेज़ी के साथ गाँव की ओर चली।

शोख साहब आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक वृद्धा अहीरिन कुछ



बकरियाँ लिए हुए जा रही थी। उसके पास पहुँचकर शेर साहब ने कहा—कहो चौधराइन, अब लौटीं ?

चौधराइन ने मुसकिराकर कहा—हाँ मालिक, आज तनिक देर हो गई।

शेर साहब ने कहा—चौधराइन, आज हमने एक नई औरत देखी, अभी बिलकुल नौजवान है। तुम्हें मालूम है, वह कौन है ?

चौधराइन कुछ क्षण तक सोचकर मुसकिराते हुए बोली—हाँ चंदन सिंह के लड़के का गौना परसों हुआ है। वही होगी, गोरी-गोरी है ? शेर साहब—हाँ, आँखें बड़ी-बड़ी हैं।

चौधराइन—तो उस वही होगी, मालिक को सब खबर रहती है। शेर साहब—गाँव के ज़मींदार है कि दिल्लीगी ? सब खबरें रखनी पड़ती हैं। सुनो चौधराइन, इस ठकुराइन को हमारे लिये ठीक कर दो, तो बड़ा काम करो।

चौधराइन मुसकिराकर बोली—मालिक के पसंद आई क्या ? शेर साहब—वह चीज़ ही ऐसी है। हाँ तो बोजो, ठीक कर दोगी ?

चौधराइन कुछ क्षण तक सोचकर बोली—काम बड़ा कठिन है, पर कुछ जतन करूँगी।

शेर साहब—जो तुमने जतन कर दिया, तो तुम्हें धनाम मिलेगा। यह कहकर शेर साहब एक ओर चल दिए।

( २ )

शंकर चंदनसिंह एक साधारण किसान हैं। इनकी वयस ६० वर्ष के लगभग है। इनका घर ही में पड़े रहने हैं, यादर कम निकलती है। इनके दो पुत्र हैं। एक की वयस २५ वर्ष के लगभग है और दूसरे की २३ वर्ष के लगभग। बड़े का नाम शंकरबहादुरसिंह है और छोटे का रामसिंह। शंकरबहादुरसिंह का विवाह हो चुका है, गौना

भी तीन ही चार रोज़ हुए, आया है। छोटा भाई रामसिंह अभी विवाहित है।

घर की एक कोठरी में अंड़ी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा है। शंकरबख्श की पत्नी चुपचाप उदास भाव से बैठी है। हठात् किसी आने की आहट पाकर उसने घूँघट खींच लिया और कुछ सिमट-र बैठ गई। उसी समय शंकरबख्शसिंह कोठरी के भीतर पहुँचा। कोठरी का एक किवाड़ बंद करके वह पत्नी के सामने बैठ गया। उसने बड़े प्यार से उसका घूँघट उलट दिया और उसकी ठोड़ी में हाथ लगाकर उसका नत-मस्तक कुछ ऊपर को उठाया और हठात् कुछ खरकर वह चौंक पड़ा। उसके ओठों पर नृत्य करता हुआ मृदु-हास्य प्रकाश में विलीन हो गया। मुख-मंडल पर विराजमान प्रसन्नता की लालिमा लुप्त हो गई। उसने पूछा—हैं ! तुम रो क्यों रही हो ? पत्नी ने कुछ उत्तर न दिया, मौन बैठी रही।

शंकरबख्श ने पुनः प्रश्न किया—बोलो, रोती क्यों हो ? क्या बात है, अम्माँ ने कुछ कहा है क्या ?

पत्नी ने केवल सिर हिलाकर बताया कि अम्माँ ने कुछ नहीं कहा।

शंकरबख्श—तो फिर रोने का कारण ?

पत्नी मौन धारण किए बैठी रही।

शंकरबख्श—बताओ, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊँगा।

पत्नी ने इस बार मौन-व्रत भंग किया। वह बोली—तुम्हारे जर्मोदार राह में मिले थे।

शंकरबख्श का मुँह पीला पड़ गया। घबराकर बोल उठा—हाँ-हाँ, तो फिर ?

पत्नी—उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि क्या कहूँ—यही मनाती थी कि धरती फट जाय और मैं समा जाऊँ।

शंकरबख्श चुपचाप शोंठ चबाने लगा। कुछ देर तक मौन रहने के

पश्चात् बोला—वह बड़ा बदमाश आदमी है। गाँव-भर उससे डरता है। उसके डर के मारे कोई स्त्री अकेली बाहर नहीं जाती। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अकेली मत जाना।

पत्नी ने कहा—जब वह ऐसे हैं, तो यहाँ रहते क्यों हो ?

शंकरबख्श—रहें न, तो जायँ कहाँ ? पुराने पुरखों का घर-द्वार छोड़ दें ?

पत्नी—ऐसा घर-द्वार किस काम का ? जहाँ इज्जत-आबरू में बढ़ा लगे ! इन्हें कोई ठीक भी नहीं कर देता ?

शंकरबख्श—इन्हें भगवान् ही ठीक करेंगे, और कौन कर सकता है ? ज़मींदार हैं, उनके सामने बात कौन कर सकता है ? ज़रा कोई बोले, जूते जगवा दें। घर फुकवा दें। वह सब कुछ करा सकते हैं।

पत्नी—जब लोग इतना डरते हैं, तो अपनी बहू-बेटियाँ भी उन्हें सौंप देते होंगे ?

शंकरबख्श—सो तो कोई भला आदमी नहीं करता। सब अपनी-अपनी ख़बरदारी रखते हैं।

पत्नी—पत्थर ख़बरदारी रखते हैं। आज ही जो वह मेरे हाथ लगा देता, तो तुम क्या करते ? वहाँ मुझे कौन बचानेवाला था ?

शंकरबख्श—अरे हाथ लगाना दिख़गी नहीं है !

पत्नी—मेरे मायके में ऐसा ज़मींदार होता, तो बोटी-बोटी उड़ा दी जाती।

शंकरबख्श—अँगरेज़ी अमलदारी है, बोटी-बोटी उड़ाना सहज नहीं है।

पत्नी—अपनी जान का इतना डर है, तभी तो राह चलते वह दाढ़ीजार बहू-बेटियों को छेड़ता है और किसी के कान पर जूँ नहीं रेंगती, सब चूड़ियाँ पहने बैठे हैं ! क्या कहूँ, जो मैं मर्द होती तो नासमारे की छाती पर चढ़कर खून पी लेती। मैं उस बाप की बेटी

हूँ कि अभी जो वह यह सुन पावें, तो यहीं आकर और उसके घर में घुसकर हड्डी-पसली तोड़ दें।

शंकरबख्श—ये सब कहने की बातें हैं, पराए पूत से काम पढ़ता है, तो सब सिट्टी-विट्टी भूल जाती हैं, फिर वह तो ज़मींदार हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कल से मुहल्ले की खियाँ जाया करेंगी।

पोढ़शी चुप हो गई। उसके ओठों पर घृणा-युक्त मुसकिराहट एक क्षण के लिये आकर पुनः विलीन हो गई।

( ३ )

उस दिन से शंकरबख्श की पत्नी कई खियों के साथ जाने लगी। इस कारण फिर शेख साद्व को कुछ कहने का साहस न हुआ।

होली निकट आ गई थी, केवल तीन दिन रह गए थे। एक दिन चौधराइन शंकरबख्श के घर आई। एकांत पाकर उसने शकरबख्श की पत्नी से कहा—मालिक ने पूछा है कि क्या ठकुराइन हनते नाराज़ हो गई हैं ?

पोढ़शी ने भृकुटी चढ़ाकर पूछा—कौन मालिक ?

चौधराइन—वही हमारे गाँव के ज़मींदार शेखजी। बड़े भले आदमी हैं। जिस पर ख़ुश हो जाते हैं, निहाल कर देते हैं। तुम बड़ी भागवान् हो, जो तुम पर उनकी नज़र पड़ी है।

पोढ़शी ने कहा—तू बक क्या रही है ?

चौधराइन युवती की वक्र दृष्टि से कुछ भयभीत होकर बोली—उन्होंने जो कहा है, सो हम तुमसे कहती हैं। हमारा इसमें क्या फ़सूर है ?

युवती ने पूछा—उन्होंने क्या कहा है ?

चौधराइन—कहा है कि सीधी तरह मान जायेंगी, तो निहाल कर देंगे, नहीं तो बड़ी दुर्दशा कराएँगे, रात में ज़बरदस्ती उठवा

मँगाएँगे। सो ठकुराइन, वह सब करा सकते हैं, गाँव के ज़मीं-दार हैं।

क्रोध से युवती के आँठ फरकने लगे, आँखें लाल हो गईं। बोली—उस तुरक से कह देना कि जो उसके जी में आवे करे, मैं उस पर थूकूँगी भी नहीं। क्या कहूँ, मेरी ससुरालवाले सब ज़नझे हैं, नहीं तो मज़ा चखा देती। खैर, अब भी मेरे बाप-भाई जीते हैं, बहुत अत्ति करेंगे, तो पछताएँगे, यह कह देना। और तू हरामज़ादी जो अब कर्मा मेरे घर आई, तो चैले से टाँग तोड़ दूँगी, इतना याद रखना।

चौधराइन ठकुराइन का चंडी-रूप देखकर डर गई। चुपचाप कान दबाए उठकर चली गई।

( ४ )

युवती का शरीर इस अपमान से रात-दिन जला करता था। उसके शरीर में उस पिता का रक्त था जो बात, मान, प्रतिष्ठा और आवरू के सम्मुख अपने प्राणों का, अपने प्रिय-से-प्रिय आत्मीय के प्राणों का, भी कोई मूल्य न समझता था। वह जब सोचती थी कि वह मेरा, इतना अपमान करने के पश्चात् भी बैठा चैन की वंशी बजा रहा है, मेरे पास सँदेशे भेजता है, मुझे धमकाता है, तब उसका खून खौलने लगता था। कभी-कभी वह सोचती थी, मैं स्वयं उससे मिलने के बहाने जाऊँ और उसकी हत्या कर डालूँ। परंतु जब वह यह सोचती थी कि वह इतनी पराधीन है कि उसके लिये ऐसा करना संभव नहीं। साथ ही यह भी सोचती थी कि यदि ऐन मौक़े पर उसको सफलता न मिली और उसकी आवरू चली गई, तो फिर क्या रह जायगा? इन्हीं सब बातों को सोचकर वह खून के-से घूँट पीकर रह जाती थी।

होलिका-दाह की संध्या थी। शंकरबख्श का छोटा भाई रामसिंह बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक आकर युवती से बोला—भौजी, कल हमारी-तुम्हारी होली होगी, तैयार रहना। भौजी मौन रही। रामसिंह पुनः बोला—भौजी, कल मैं तुमसे पहली बार होली खेलूँगा। देखो तो कल तुम्हारी क्या गति बनती है, ऐसी होली कभी न खेली होगी। हाँ, ज़रा हुशियार रहना।

इस बार युवती ने बड़ी गंभीरता-पूर्वक सिर उठाकर कहा—मुझसे होली खेलोगे, देवर ?

रामसिंह—सुसकिराकर बोला—हाँ तुमसे, तुमसे।

भौजी—मुझसे होली खेलने लायक तुम्हारे घर में है कौन ?

रामसिंह उसी प्रकार सरल स्वभाव से बोला—मैं हूँ।

भौजी—तुम हो ?

रामसिंह—( छाती ठोक कर ) हाँ, मैं हूँ।

भौजी—मुझे विश्वास नहीं होता ?

रामसिंह—कल हो जायगा।

भौजी—मेरे साथ होली खेलने को रंग कहाँ पाओगे ?

रामसिंह—रंग तो मैंने शहर से बहुत-सा मँगाया है।

भौजी—उस रंग से मैं होली नहीं खेलूँगी।

रामसिंह—तो और जैसा रंग कहो वैसा रंग लाऊँ।

भौजी—लाओगे ?

रामसिंह—हाँ, लाऊँगा।

भौजी—नहीं ला सकोगे।

रामसिंह—जाऊँगा भौजी, ज़रूर लाऊँगा, ढटके देख लो।  
रपए तोले मिलेगा तब भी लाऊँगा !

भौजी—वए रंग रपए से नहीं मिलेगा।

रामसिंह विस्मित होकर बोला—तब फाँदे से मिलेगा, भौजी ?

भौजी—अपने प्राणों से हाथ धोने से ।

रामसिंह इतना सुनते ही सन्नाटे में आ गया । भौजी देवर को मौन देखकर बोली—बस, चुप हो गए ? इसी विरते पर बढ़-बढ़-कर बातें मारते थे ?

रामसिंह का मुख-मंडल लज्जा से लाल हो गया । वह तुरंत छाती ऊंची करके बोला—चाहे जो हो, लाऊँगा, भौजी जरूर लाऊँगा, बताओ । तुमसे होली खेलने की साध है, उसे पूरी करके छोड़ूँगा, चाहे जो हो, चाहे प्राण ही क्यों न चले जायँ ।

भौजी—लाओगे ?

रामसिंह—हाँ लाऊँगा, लाऊँगा, बताओ ।

भौजी—अपने ज़मींदार का रक्त लाओ । उसीसे मैं तुम्हारे साथ होली खेलूँगी ।

सुनते ही रामसिंह दो पग पीछे हट गया । उसका मुँह पीला पड़ गया ।

भौजी ठहाका मारकर बोली—घबड़ा गए ? मैं जानती थी, तुम नहीं ला सकोगे ।

रामसिंह बोला—यह तुम क्या कहती हो भौजी ? ज़मींदार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ?

भौजी—क्या बिगाड़ा है, यह सुनना चाहते हो ? सुनो !

यह कहकर भौजी ने सब वृत्तांत रामसिंह को सुना दिया । रामसिंह सुनते ही सिंह की तरह गरज उठा । बोला—तुमने यह सब भैया से नहीं कहा ?

भौजी—कहा था ।

रामसिंह—फिर ?

भौजी—उन्हें आबरू से अधिक अपने प्राणों का भय है ?

रामसिंह—यह बात है ?

भौजी—हाँ यही बात है। नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहती। आज मेरा बाप-भाई यहाँ होता, तो भी क्या मैं इतना अपमान सहती ?

इतना कहकर भौजी ने मुँह पर आँचल रखकर रोना आरंभ किया।

रामसिंह कुछ क्षण तक खड़ा सोचता रहा, तत्पश्चात् बोला—  
बाप-भाई नहीं हैं तो न सही, भौजी तुम्हारा देवर है। भौजी, निश्चित होकर बैठो। कल सबेरे रंग लाकर तुम्हारे साथ होली खेलूँगा।

यह कहकर रामसिंह शीघ्रता-पूर्वक वहाँ से चला गया।



प्रातः काल होते ही युवती ने नित्य-कर्म से निवृत्त होकर एक सफ़ेद धोती पहन ली और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसका हृदय आशा तथा निराशा में झूल रहा था। उसको पूर्ण रूप से यह विश्वास नहीं हुआ कि उसका देवर अपना वचन पूरा करेगा।

गाँव में चारों ओर “होली है, होली है” की चीत्कार मची हुई थी। शंकरबढ़श रंग में तर-वतर हँसता हुआ पत्नी के पास आया और बोला—क्यों कैसे दैठी हो ? होली नहीं खेलोगी ? आओ खेलो।

पत्नी ने एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा—मैं पहले अपने देवर के साथ होली खेलूँगी, तब एक दूसरे के साथ खेलूँगी।

शंकरबढ़श—अच्छा यह बात है ? पर रामसिंह तो आज मुँह धँधरे ही से शायब है, न-जाने कहीं चला गया है।

युवती का हृदय धड़कने लगा। उसने पति की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ठठात् दहलीज से रामसिंह का कंठ-स्वर सुनाई पड़ा—“भौजी, तैयार हो जाओ, रंग ले आया।”

इतना कहता हुआ रामसिंह लोटा हाथ में लिए आकर भौजी के सामने खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर रक्त वर्ण की छींटें पड़ी हुई थीं।

भौजी का सुख खिल उठा। वह खड़ी हो गई। रामसिंह ने लोटे में से एक चुल्लू लेकर भौजी के कपड़े पर छीटा मारा। उस छींटे के पड़ते ही



सन्नाणी के शरीर में विद्युत्-धारा-सी दौड़ गई । वह बोली—देवर, सचमुच तुम मेरी इच्छा का रंग लाए । मैं यही रंग चाहती थी । रामसिंह हँसता हुआ बोला—“मैंने कहा था कि भौजी मैं तुम्हारे साथ होली जरूर खेलूँगा ।” इतना कहकर उसने लोटे में से दूसरा चुल्लू लेकर भौजी के गालों पर मल दिया ।

शंकरबख्श खड़ा यह लीला देख रहा था । वह कह उठा—अरे, यह तो रक्त मालूम होता है ?

भौजी ने देवर के हाथ से लोटा छीनकर उसको उस रक्त से नहला दिया और विकट हास्य करके बोली—देवर, आज होली है !

रामसिंह भी बोल उठा—होली है !

शंकरबख्श आगे बढ़े । युवती ने कहा—खबरदार ! तुम आगे मत बढ़ो । यह रंग तुम्हारे लिए नहीं है ! इसका एक बूँद भी तुम्हें नहीं मिलेगा ।

शंकरबख्श पत्नी का रूप देखकर डर गया । वह चार पग पीछे हटकर बोला—पर यह क्या है ? रंग तो नहीं मालूम होता ।

युवती—यह उस ज़मींदार का रक्त है जिसके भय के मारे तुम अपनी बहू-बेटी तक उसको अर्पण करने को तैयार रहते थे ।

इतना सुनते ही शंकरबख्श चिल्लाकर वहाँ से भाग खड़े हुए ।

भौजी ने फिर कहा—देवर, होली है ?

रामसिंह ने कहा—भौजी, होली है ।

इतने ही में द्वार पर बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ा ।

रामसिंह ने कहा—भौजी, तुमसे होली खेल ली । साध पूरी हो गई । अब जाता हूँ ।

भौजी—कहाँ ?

रामसिंह—फाँसी लटकने ।

भौजी—अरे, तो क्या जान से मार डाला ?

रामसिंह—प्राण रहतें अपना इतना रक्त कौन देता, भौजी ?

भौजी—हाय ! यह मैंने क्या किया ?

इतना कहकर भौजी सूच्छित होकर गिरने लगी । रामसिंह ने उसे दौड़कर संभाला और धीरे से भूमि पर लिटा दिया । फिर बोला—  
भौजी, जाता हूँ ।

भौजी ने एक बार आँखें खोलकर कहा—देवर जाओ, यह मेरी इस जन्म की अंतिम होली है !

रामसिंह—तो क्या अब होली नहीं खेलोगी, भौजी ?

भौजी—खेलूँगी ।

रामसिंह—किससे ?

भौजी—तुमसे ?

रामसिंह—सुझसे ?

भौजी—हाँ, तुमसे ।

रामसिंह—कहाँ ?

भौजी—स्वर्ग में ।

रामसिंह—तब तो मैं वहाँ शीघ्र पहुँचता हूँ, भौजी ।

भौजी—जाओ देवर, तुमसे पहले मैं पहुँचूँगी ।

## सच्चा कवि

( १ )

राजदर-बार में नए कवि की कविता सुनने के लिये यथेष्ट संख्या में रईसों तथा दरबारियों की भीड़ एकत्र हुई थी। सब लोग अपने-अपने स्थान पर शिष्टता-पूर्वक बैठे हुए महाराज के आने की राह देख रहे थे। एक ओर एक युवक, जिसकी अवस्था २५ वर्ष के लगभग थी, सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। महाराज के सिंहासन के निकट एक अर्द्धवयस्क सज्जन, जो राज-कवि थे, बैठे हुए अपनी मूर्छें सरोड़ रहे थे, और बीच-बीच में युवक पर एक तीव्र दृष्टि डालकर सिर झुका लेते थे। उनके मुख पर व्यंग्य-पूर्ण मृदु-हास्य की एक हलकी रेखा दौड़ जाती थी।

सहसा महाराज के सिंहासन के पीछे पड़ा हुआ मङ्गमली परदा हटा, और दो चोबदार चाँदी की छड़ियाँ लिए हुए आकर सिंहासन के दोनों ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने दरबारी ढंग से महाराज के आने की सूचना दी। सब लोग सँभलकर बैठ गए।

फिर मङ्गमली परदा हटा, और एक ३० वर्ष का सुंदर मनुष्य आँखों में चक्काचौंध पैदा कर देनेवाले वस्त्र तथा जवाहरात-जड़े गहने पहने बड़ी शान के साथ धीरे-धीरे सिंहासन की ओर आया। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए, और सबने दरबारी शिष्टता के अनु-सार प्रणाम किया। सबके प्रणाम के उत्तर में महाराज ने केवल सिर हिला दिया, और आकर सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के दाहिनी ओर एक वृद्ध सज्जन, जिनके मुख पर विद्वत्ता तथा अनुभव-शीलता के चिह्न विद्यमान थे, खड़े थे। महाराज के बैठ जाने पर वह भी अपने

स्थान पर बैठ गए। थोड़ी देर तक दरवार में पूरा सज्जाटा रहा। तदनंतर महाराज ने दाहिनी ओर बैठे हुए वृद्ध सज्जन से धीमे स्वर में कुछ कहा। वृद्ध सज्जन उठे और उन्होंने एक युवक की ओर देखकर कहा—  
“मोहनलाल !”

युवक तुरंत खड़ा हो गया, और उसने कहा—श्रीमन् !

वृद्ध—महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। आगे आओ।

युवक अपने वस्त्र सँभालता हुआ, शिष्टता-पूर्ण निर्भीकता के साथ, धीरे-धीरे महाराज के सिंहासन के सम्मुख आकर खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर महाराज को प्रणाम किया, और चुपचाप हाथ बाँधकर खड़ा हो गया। महाराज ने एकाबार युवक को सिर से पैर तक ध्यानपूर्वक देखा। उनके मुख पर संतोष की रेखा झलक उठी। उन्होंने वृद्ध सज्जन से धीमे स्वर में कहा—“इस युवक को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ।” फिर महाराज ने युवक की ओर देखकर कहा—“मोहनलाल, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम एक अच्छे कवि हो। अच्छा, अपनी रचना सुनाओ।”

मोहन ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप गंभीरतापूर्वक अपनी जेब से एक कागज़ निकाला; कुछ कर्पती हुई रँगलियों से उस कागज़ को खोला; एक दृष्टि राजकवि की ओर डाली, और कविता पढ़ना शुरू कर दिया।

मोहन ने पहले धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया। क्रमशः उसका स्वर दृढ़ हो चला। कविता के भावों के साथ-साथ युवक कवि का स्वर घटने-बढ़ने लगा। उसके हाथ हिलने लगे। कवि अपने को भूल गया। वह भूल गया कि मैं राज-दरवार में एक शक्तिशाली राजा के सामने सदा कविता पढ़ रहा हूँ। वह भूल गया कि मेरे चारों ओर राज्य के बड़े-बड़े पदवीधारी, उपाधिधारी, धनी, नानी लोग बैठे हैं। कवि यह ध्यान भूल गया—वह अपना अहितत्व भी भूल गया। राज-

सभा के सब लोग मंत्र-मुग्ध की तरह कवि की कविता सुनने में मग्न हो गए। राजकवि भी इस अल्पवयस्क कवि के मुख पर अपनी स्थिर दृष्टि जमाए हुए कविता सुनने में तल्लीन थे।

कविता समाप्त हुई। कवि को अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। वह पुनः शिष्ट तथा गंभीर हो गया। इधर सुननेवालों की भी नौद-सी उचटी। सबने "वाह-वाह" की बौछार कर दी। महाराज ने भी कहा "खूब! बड़ी सुंदर रचना है।" पर ये सब प्रशंसारमक शब्द युवक कवि के मुख पर किंचिन्मात्र प्रसन्नता तथा गर्व का भाव न ला सके। कवि का मुख उसी प्रकार गंभीर तथा भावना-शून्य रहा वह अपनी दृष्टि राजकवि पर जमाए चुपचाप कागज़ को लपेट रहा था। राजकवि चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। उनके मुख से कविता अथवा कवि के प्रति एक भी प्रशंसारमक शब्द न निकला था। सहसा महाराज ने राजकवि की ओर देखकर पूछा—“कहिण कविजो, इस युवक की कविता कैसी रही?” राजकवि ने सिर ऊपर उठाया, और दम-भर कुछ सोचकर उत्तर दिया—“कविता बुरी नहीं है।”

महाराज के मुख पर एक हलकी-सी मुसकिराहट झलक गई। अन्य उपस्थित लोग भी राजकवि के इस उत्तर पर मुसकिरा दिए। सब परस्पर कानाफूसी करने लगे। कोई कहता था—“राजकवि तो जी में जल मरे होंगे।” कोई कहता था—“कविजो महाराज अपने सामने भला दूसरे की प्रशंसा कैसे करें।” इसी प्रकार सब लोग राजकवि के प्रशंसा न करने का कारण केवल ईर्ष्या समझ रहे थे। परंतु इधर मोहनलाल ने ज्यों ही राजकवि के ये वाक्य सुने कि कविता बुरी नहीं है, त्यों ही उसके मुखपर प्रसन्नता की लालिमा दौड़ गई। उसने एक दीर्घ निःश्वास इस प्रकार छोड़ी, जिस प्रकार कोई व्यक्ति घोर परिश्रम करने के पश्चात् उस परिश्रम का उचित प्रतिफल पाने पर पूर्ण संतुष्ट होकर दीर्घ निःश्वास छोड़ता है। कवि ने महाराज

को प्रणाम किया और धीरे-धीरे आकर अपने स्थान पर बैठ गया ।

( २ )

राजकवि पं० चंडीप्रसाद “प्रवीण” काव्य-चूड़ामणि अपने घर में बैठे थे । भोजन का समय हो गया था; परंतु प्रवीणजी किसी चिंता में मग्न थे । उन्हें भोजन करने की सुधि ही न थी । उसी समय उनके अष्टादस-वर्षीय पुत्र ने आकर कहा—पिताजी, चलिए, भोजन कीजिए ।

प्रवीणजी ने कहा—आज मैं भोजन नहीं करूँगा ।

पुत्र ने पूछा—क्यों ?

प्रवीणजी ने उत्तर दिया—मुझे चुधा नहीं है ।

पुत्र—कुछ जी झराव है क्या ?

प्रवीण—नहीं, कुछ भूख ही नहीं है ।

पुत्र चला गया । उसके चले जाने के बाद कुछ देर में प्रवीणजी की पत्नी आई । उन्होंने पूछा—यों, आज भोजन क्यों नहीं करते,

कुछ जी झराव है क्या ?

प्रवीणजी ने एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा—क्या बताऊँ !

पत्नी—क्यों, बताओने क्यों नहीं ?

प्रवीण—आज एक छोकरे के सामने महाराज ने मेरा अपमान किया ?

पत्नी—कैसे ?

प्रवीण—“एक सुषक कवि न-जाने कहीं से आ मरा । महाराज को उसने मारती कविता सुनाई । कविता प्रस्तुती थी; पर उस कविता पर जितना उसे पुरस्कार दिया गया, वह शतुचित था ।

पत्नी—तो उसका भाग्य ! इसमें तुम्हारा अपमान क्या हुआ ?

प्रवीण—तुम इन बातों को क्या समझ सकती हो ? मेरा पहा

अपमान हुआ ! मैंने ऐसी कविताएँ लिखीं कि उनमें अपना कलेजा निकालकर रख दिया ; पर मुझे महाराज ने इतना पुरस्कार कभी नहीं दिया । इसके अतिरिक्त महाराज ने उसको भी "राजकवि" को उपाधि देकर अपने यहाँ नौकर रख लिया है ।

पत्नी—रख लिया तो क्या हुआ ? कुछ वह तुम्हारा भाग्य तो छीन ही न लेगा ।

प्रवीण—तुम खी-जाति इन बातों को क्या जानो ? जब एक ही कविता सुनकर उनकी यह दशा हो गई कि उचितानुचित का ध्यान न कर उस छोकरे को मेरे सामने इतना सम्मान दिया, तो आगे न-जाने क्या होगा !

पत्नी—तो जब होगा खव होगा, तुम अभी से अपना जी क्यों कुड़ाते हो ? चलो, भोजन करो चलके ।

प्रवीण—भोजन क्या करूँ । मैं सोचता था कि यदि यह नालायक अंबिकाप्रसाद (पुत्र का नाम) किसी लायक होता, तो मेरे पीछे इमी को राजकवि का स्थान मिलता । अब मेरे पीछे की कौन कहे, मेरे होते हुए ही एक दूसरा व्यक्ति वह स्थान छीने लिए जा रहा है । इसमें अधिक दुर्भाग्य और क्या होगा ?

पत्नी—तुम तो उस दिन कहते थे कि अंबिकाप्रसाद अपनी कविता कर लेने लगा है ।

प्रवीण—कविता क्या कर लेने लगा—हाँ, जो जी लगाये और परिश्रम करे, तो कर सकता है । पर वह तो जी ही नहीं लगाया ।

पत्नी—तो अभी तककी उमर ही क्या है ? क्या तो है ही । उठे-बैठे मसाला होगा, बी भी खमावेगा ।

प्रवीण—उठे मसाला और फल होगा । वह भी तो अभी तकका ही है । अंबिकाप्रसाद ने अधिक उमर-उमर वर्ष का होगा ।

पत्नी—जो, अहाँ १८ वर्ष और कहाँ २५ वर्ष ! सात वर्ष का अंतर है। सात वर्ष कुछ होते ही नहीं ? सात वर्ष में तो युग पलट जाता है।

प्रवीण—युग नहीं पत्थर पलट जाता है ! अभी से न करेगा, तो सात वर्ष नहीं, चाहे चौदह वर्ष भी हो जायँ, जैसे-का-तैसा ही रहेगा।

पत्नी—अच्छा तो अब इन बातों को छोड़ो। चलो, भोजन करो चलके। जो कुछ होगा, देखा जायगा। कोई हमारी तक्रदीर तो पान ही न ले जायगा।

प्रवीणजी ने पत्नी के बहुत कुछ समझाने-बुझाने तथा आग्रह करने पर भोजन किया। इसके पश्चात् वह उसी समय कविता लिखने बैठ गए। उन्होंने निश्चय कर लिया, चाहे जिस तरह हो, इस युवक कवि की जड़ उखाड़नी ही पड़ेगी ; क्योंकि यदि इसी तरह वह महाराज के हृदय पर अधिकार जमाता गया, तो एक दिन वह अवेगा, जब उनको महाराज की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

( ३ )

राज के आठ घण्टे लुके हैं। महाराज अपने अंतःपुर के एक सुसज्जित कमरे में, मंगलमाली कोच पर, बैठे हैं। सामने महामुख्य कालीनों पर कुछ सुंदर छियाँ बैठी गा-बजा रही हैं। परंतु महाराज का ध्यान गाने की ओर बिलकुल नहीं है। वह किसी वृत्तरी ही चिन्ता में दूबे हुए है। उसी समय एक दास ने आकर कहा—“महाराज, राजकवि प्रवीणजी भीमान् के पास आना चाहते हैं।”

महाराज कुछ चौंकर बोले—क्या कहा—प्रवीणजी आना चाहते हैं ?

दास—हाँ भीमान् ।

महाराज कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले—अच्छा, आने



दो । दास के चले जाने पर महाराज ने गानेवालियों की ओर हाथ से इशारा किया । उन्होंने गाना बंद कर दिया, और उठकर चली गईं ।

दास चला गया । थोड़ी देर में प्रवीणजी आए । उन्होंने पहले बहुत ही झुककर महाराज को प्रणाम किया ! फिर वह धीरे-धीरे समीप आकर सामने शिष्टता-पूर्वक खड़े हो गए ।

महाराज ने मुसकिराकर कहा—कहिए प्रवीणजी, क्या समाचार हैं ?

प्रवीण—समाचार सब अच्छे हैं । इस समय एक कविता लिखी थी । जी न माना ; इच्छा हुई, इसी समय चलकर सुनाऊँ । श्रीमान् का यह मनोरंजन का समय भी है ।

महाराज—हाँ-हाँ, कोई हर्ज नहीं । सुनाइए ।

प्रवीणजी ने कविता सुनाना शुरू किया । महाराज चुपचाप सुनते रहे । कविता वास्तव में बहुत अच्छी वनी थी । महाराज बहुत प्रसन्न हुए । कविता समाप्त हो जाने पर महाराज ने कहा—प्रवीणजी, आज तो आपने चमत्कार-पूर्ण कविता लिखी है ।

प्रवीणजी बोले—यह सब श्रीमान् का अनुग्रह है । लाख वृद्ध और शिथिल हो चला हूँ, पर अभी जो कुछ लिख-पढ़ सकता हूँ, उसकी टक्कर का लिखनेवाला आस-पास के दो-चार राज्यों में निकलेगा ।

महाराज ने कुछ मुसकिराकर कहा—इसमें क्या संदेह है ।

प्रवीण—परंतु श्रीमान् ने मुझमें न-जाने क्या त्रुटि देखी, जो मेरे होते हुए एक छोकरे को रख लिया । क्या मैं श्रीमान् की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ समझा गया ?

महाराज—नहीं प्रवीणजी, यह बात तो नहीं है । मैं तो केवल यह समझता हूँ कि गुण का क्रूर अवश्य होनी चाहिए । यदि ऐसा न होगा, तो गुणों का लोप होजायगा ।

प्रवीण—यह ठीक है श्रीमान्, परंतु गुण-ग्राहकता उतनी ही होनी चाहिए, जितनी का उचित हो।

महाराज कुछ भौंहीं सिकोड़कर बोले—तो क्या आप मुझ पर यह दोषारोपण करते हैं कि मैंने कुछ अनुचित गुण-ग्राहकता से काम लिया है ?

महाराज को कुछ अप्रसन्न होते देख प्रवीणजी का हृदय काँप उठा। वह हाथ जोड़कर बोले—“नहीं श्रीमान्, ऐसा कहने की घृष्टता मैं कदापि नहीं कर सकता। मेरा तात्पर्य यह है कि श्रीमान् ने जो उदारता दिखाई है, उसके योग्य वह युवक कदापि नहीं।”

महाराज अधिक अप्रसन्न होकर बोले—इसका भी अर्थ यही है; केवल शब्दों का हेर-फेर है।

स्वार्थ मनुष्य को झंघा कर देता है। प्रवीणजी इस समय स्वार्थ के इतने वशीभूत हो गए थे कि उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहा कि कौन बात कहना चाहिए और कौन नहीं। वह केवल दमलिये व्याकुल हो रहे थे कि जैसे बने, जैसे महाराज का हृदय मोहनलाल की ओर से फेर दे। इस व्याकुलता और जल्दी ने उनको सदा सही परिस्थिति में डाल दिया।

महाराज को अधिकतर अप्रसन्न होने देखकर कविजी महाराज ने लक्षणादायी हुई जिह्वा से कहा—नहीं श्रीमान्, मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं। मेरे कहने में कुछ भ्रम पड़ गया है, इसके लिये श्रीमान् मुझे क्षमा करें।

महाराज प्रवीणजी की हाथामुह परसाट देकर हँसी न होकर गये। वह खोर में हँस पड़े। महाराज को हँसते देख कविजी का आन-मौ-जान धाई। उन्होंने कहा—क्या बरतें श्रीमान्, घूट हो खजा है। सब इन्द्रियों मिथिल होनी लग रही हैं। कदना कुछ चारता है, रेंद से निश्चलता हुआ है।

महाराज हँसते हुए बोले—प्रवीणजी, अभी तो आप कह रहे थे कि इस समय भी आप जो कुछ लिख-पढ़ सकते हैं, उसकी टकर का लिखनेवाला आस-पास में कोई है ही नहीं ?

प्रवीण—हाँ श्रीमान्, यह तो मैं अब भी कहता हूँ । जहाँ तक कविता का संबंध है, वहाँ तक मेरी धुद्धि बड़ी प्रखर है । पर वैसे साधारण बातचीत में भ्रम हो जाता है ।

महाराज उसी प्रकार हँसते-हँसते बोले—अरे, कोई मोहनलाल को तो बुलाओ ।—प्रवीणजी, आपने ऐसी सुंदर कविता लिखी है कि मैं चाहता हूँ, मोहनलाल भी उसे इसी समय सुने ।

एक दास तुरंत मोहनलाल को बुलाने के लिये गया । मोहनलाल इस स्थान में परदेशी था, और अकेला भी । अतएव उसे महल से मिले हुए मकानों में से एक मकान रहने के लिये दे दिया गया था ।

इधर मोहनलाल के बुलाने की बात सुनकर प्रवीण मन-ही-मन बड़े कुढ़े । पर करते क्या ? बेचारे चुपचाप खड़े रहे । परंतु थोड़ी देर में मन-ही-मन यह सोचकर कि अच्छा है, उन्होंने अपने जी को ढाढ़स दिया ।

थोड़ी देर में मोहनलाल आ गया । मोहनलाल को देखते ही महाराज ने कहा—अरे भाई मोहन, देखो, हमारे प्रवीणजी ने कैसी सुंदर कविता लिखी है ।—हाँ प्रवीणजी, ज़रा फिर से पढ़िए ।

प्रवीणजी ने दूने आवेश के साथ कविता पढ़नी शुरू की । कविता समाप्त होने पर महाराज ने मोहन से पूछा—कहो कैसी कविता है ?

मोहनलाल ने कहा—क्या बात है ! प्रवीणजी की टकर का लिखनेवाला इधर तो कोई है ही नहीं । यदि छोटा मुँह बड़ी बात न समझी जाय, तो मैं यह कहूँगा कि प्रवीणजी श्रीमान् की सभा के भूषण हैं ।

प्रवीणजी ने अपने प्रति मोहनलाल के ये शब्द श्रवाक् होकर सुने। यह नहीं समझ सके कि मोहनलाल ने ये शब्द यथार्थ प्रशंसा में कहे, अथवा व्यंग्य से।

महाराज ने कहा—तुनिए प्रवीणजी, मोहनलाल क्या कहता है।

मोहनलाल ने कहा—मैं जो कुछ कहता हूँ, शुद्ध हृदय से कहता हूँ। मेरा यश सौभाग्य है कि मुझे प्रवीणजी की सेवा में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं कविता लिखना सीख जाऊँगा।

महाराज ने प्रवीणजी की ओर एक रहस्य-पूर्ण दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में ये भाव थे कि देखा तुमने? तुम्हारे प्रति मोहन के ऐसे उच्च भाव हैं, और तुम्हारे उसके प्रति ऐसे नीच!

प्रवीणजी ने इस दृष्टि का तात्पर्य समझ लिया। उन्होंने मर्माहत होकर अपनी आँखें नीची कर लीं। उन्हें यश दुःख हुआ। इस समय भी उन्होंने मोहन के आगे अपनी पराजय समझी। केवल महाराज की उस दृष्टि ने यह प्रमाणता कर दिया कि मोहन विजयी हुआ, और प्रवीणजी, आप परास्त!

( ४ )

उक्त घटना के बाद प्रवीणजी मोहनलाल से और भी अधिक दूर चले गये। यह उसके बहर मायु हो गये। उन्होंने सोचा—इसी दृष्ट के कारण मैं महाराज की दृष्टि से गिरता जा रहा हूँ। यदि यह न जाता, तो यह नीयत बाह्य ही पहुँचती। यह बल का दोहरा बल बनने का लौंग रखकर मुझे महाराज की दृष्टि से गिरा रहा है। बिकला आत्मा है, बिकला धूर्त है! मैं बड़ा दुर्दि-होम हूँ, जो अपने हृदय के भाव स्पष्ट खोज देता हूँ। यदि मैं भी इसी की तरह बंध बनने का लौंग हूँ, तो बिकला रहे। परंतु नहीं, मुझसे तो लोग बहुरि न रखा जायगा। मैं तो शुद्ध-हृदय मनुष्य हूँ, जैसा भीतर, वैसा बाहर। मुझे दूरत नहीं जाना। बिकरों गिरत परतमैंगत

उसे हृदय में भी मित्र समझूँगा और बाहर भी ; और जिसे शत्रु समझूँगा, उसे हृदय में भी शत्रु समझूँगा और बाहर भी । कुछ भी हाँ, मैं इस ढोंगी युवक को दरवार से निकलवाकर ही छोड़ूँगा । कल का छोकरा मेरे सामने राजकवि बनकर बैठा है । इसमें संदेह नहीं कि कभी-कभी दुष्ट बड़े गहरे भाव लाता है । पर इससे क्या हुआ ? अब तो पगड़ी उलझ ही गई है; मैं भी ऐसी-ऐसी कविताएँ लिखूँगा कि महाराज स्वयं कह देंगे कि प्रवीणजी, मोहनलाल क्या कविता लिखेगा, वह तो आपके सामने छोकरा है । हुँह ! मोहनलाल राजकवि ! राजकवि प्रवीण के सिवा भला और कौन हो सकता है ? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकतीं । या तो वहीं राजकवि रहेगा या मैं ही ।

इसी तरह की बातें सोचकर प्रवीणजी ने नए उत्साह के साथ कविताएँ लिखना शुरू कर दिया । इसमें संदेह नहीं कि प्रवीणजी बड़े अच्छे कवि थे, बड़ी सुंदर कविताएँ लिखते थे । इधर मोहनलाल की प्रतिद्वंद्विता के कारण वह बड़ी अच्छी कविताएँ लिखने लगे थे । उधर मोहनलाल भी अच्छी कविताएँ लिखता था । इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए ।

एक दिन महाराज ने एक समस्या दी, और मोहनलाल तथा प्रवीणजी, दोनों से उसकी पूर्ति करने के लिये कहा । समस्या-पूर्ति के लिये एक सप्ताह का समय दिया गया ।

एक सप्ताह बीत जाने पर महाराज ने दोनों कवियों को बुलवाया । प्रवीणजी समस्या-पूर्ति करके ले आए थे ; पर मोहनलाल नहीं लाया था । महाराज ने पूछा—क्यों मोहन, तुमने पूर्ति की ?

मोहन ने उत्तर दिया—नहीं श्रीमन्, मैंने तो नहीं की ।

महाराज ने विस्मित होकर पूछा—क्यों ? क्या समय कम दिया गया था ।

प्रवीणजी बीच ही में बोल उठे—समय यथेष्ट था । इससे अधिक समय और क्या होता !

महाराज ने कहा—हाँ, समय यथेष्ट था । मैंने स्वयं सोच-समझकर समय दिया था । फिर भी पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

मोहनलाल चुप रहा ।

महाराज ने पूछा—क्यों, क्या कारण हुआ ? क्या तुम्हारी समझ में समय कम था ?

मोहनलाल ने कहा—नहीं श्रीमन्, समय तो यथेष्ट था ।

महाराज—फिर ?

मोहनलाल—श्रीमन्, उस समस्या को पूर्ति में मेरा कुछ जी नहीं लगा ।

महाराज की भौहें तन गईं । उन्होंने कहा—क्या कहा जी नहीं लगा ।

मोहनलाल—हाँ श्रीमन् ।

महाराज अधिकतर क्रुद्ध होकर बोले—क्यों ? जी न लगने का कारण ?

मोहनलाल चुप रहा ।

महाराज कुछ उत्तेजित होकर बोले—क्यों, तुम उत्तर क्यों नहीं देते ?

मोहनलाल अभी तक तिर भुकाए खड़ा था । अब सीधा तनकर खड़ा हो गया । उसने कहा—श्रीमन्, कविता लिखना कुछ खेल नहीं है । संसार की कोई शक्ति कवि से ज़बरदस्ती कविता नहीं लिखा सकती । कवि की जब इच्छा होगी, जब उसका जी चाहेगा, जब उसे स्फूर्ति होगी, तभी वह कविता लिखेगा । किसी की आज्ञा का पालन करने के लिये कवि कभी कविता नहीं लिखता । जो केवल

आज्ञा-पालन करने के लिये जयिगा विजयते है, ये सबे कवि नहीं, परन्तु धूमिल सुन्दर हैं। मैं अत्यंत विद्वान्-प्रीत श्रीमान् में यह विवेचन करूँगा कि जो सच्चा कवि है, वह केवल अपनी इच्छा और अपने हृदय का दास होता है, अन्य कियों का नहीं। यदि श्रीमान् ने मुझे केवल इमजिये अपने नरकी में आश्रय दिया है कि जय-जिस समय और जिस नियम पर श्रीमान् आज्ञा करें, उसी नियम पर, उसी समय पर, मैं जयिगा लिये। तो मैं अपने में इतनी समता नहीं पाता। अतएव अत्यंत शीनता-पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मैं भविष्य में श्रीमान् की सेवा करने के सर्वथा अयोग्य हूँ। इस कारण, यदि श्रीमान् आज्ञा देंगे, तो कल अपने देश को लौट जाऊँगा।

यह कहकर मोहनलाल ने महाराज को क्रुद्धकर प्रणाम किया, और चुपचाप महाराज के सामने से चला गया।

मनुष्य चाहे जिगना स्वार्थी, हठधर्मी, क्रोधा तथा अत्याचारी हो, परंतु निर्भीकता-पूर्वक कहां हुई सच्ची और सीधी बात उसके हृदय पर प्रभाव अवश्य डालती है, चाहे वह एक क्षण ही के लिये क्यों न हो।

महाराज मोहनलाल की निर्भीकता-पूर्वक, परंतु साथ ही शिष्टता-पूर्ण, कहां गई बातों से इतने प्रभावित हुए कि जब मोहनलाल उनके सामने से चला गया, तब उन्हें यह ध्यान आया कि वह एक शक्ति-संपन्न राजा है और मोहनलाल एक साधारण मनुष्य। अब उनके राजसी रक्त ने जोर मारा। उनका मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। उन्होंने प्रवीणजी का शोर देखकर कहा—आपने इस लड़के की शृष्टता देखी !

महाराज को क्रुद्ध देखकर प्रवीणजी मन-ही-मन अत्यंत प्रसन्न, परंतु ऊपर से गंभीर होकर बोले—श्रीमन्, अपराध क्षमा हो। मैं तो पहले ही से कहता था कि यह लड़का राज-सभाओं के योग्य कदापि नहीं है। परंतु—

महाराज प्रवीणजी की बात पूरी होने के पूर्व ही बोल उठे—  
आपने सत्य कहा था। पर मैंने यह सोचकर कि युवक होनहार है,  
और प्रोत्साहन मिलाने से एक अच्छा कवि होगा, इसे आश्रय दिया  
था। मगर यह जो कहा है कि जो जिसका पात्र नहीं, उसके साथ  
वैसा व्यवहार करने से परिणाम बुरा होता है, वही हुआ। खैर, मैं  
इसे इसका समुचित दंड दूँगा।

प्रवीणजी बोल उठे—निश्चय दंड देना चाहिए। इससे लोगों को  
मालूम होगा कि एक शक्तिशाली राजा के सामने घृष्टता करने का यह  
परिणाम होता है।

महाराज ने उसी समय यह आज्ञा निकाली कि मोहनलाल तुरंत  
गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाय।

प्रवीणजी महाराज की इस आज्ञा से मन-ही-मन अत्यंत प्रफुल्लित  
होकर घर लौटे। उन्होंने सोचा—उनकी मनोकामना पूरी हुई ;  
उनके मार्ग का काँटा दूर हो गया।

( \* )

उक्त घटना हुए छः मास व्यतीत हो गए। मोहनलाल कारागार में  
पड़ा हुआ जीवन के दिन व्यतीत कर रहा है।

इधर प्रवीणजी अपने पुत्र अंबिकाप्रसाद को राजकवि बनाने के  
लिये जी-जान से चेष्टा कर रहे हैं। परंतु प्रतिभा ईश्वर-दत्त होती है।  
वह चेष्टा और परिश्रम करने से उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि प्रतिभा  
चेष्टा और परिश्रम से उत्पन्न हो सकती, तो संसार में उसका उत्तना  
मूल्य और आदर न होता, जो अब तक रहा है, और है। अंबिकाप्रसाद  
कविता तो करने लगा, परंतु उसकी कविताएँ अत्यंत साधारण होती  
थीं। उनमें कोई चमत्कार न था। प्रवीणजी यह देखकर बड़े हताश  
हुए। उन्होंने सोचा—जान पड़ता है, राजकवि की उपाधि मेरे ही तक  
है। हा ! मैं तो चाहता था कि यह कम-से-कम दो-चार पीढ़ियों तक



रहती और मेरा नाम चलता ; पर विधाता की इच्छा नहीं है । कितने आश्चर्य की बात है कि मेरा सगा पुत्र मेरे ही रक्त-वीर्य से बना हुआ है पर उसमें वह बात नहीं उत्पन्न होती, जो मुझमें है ।

ऐसी ही बातें सोचकर प्रवीणजी का हृदय बड़ा दुःखी हुआ ; परंतु फिर भी उन्होंने चेष्टा नहीं छोड़ी ।

शाम का समय था । महाराज अपने बाहरी राजकक्ष में बैठे हुए थे । पास ही मंत्री तथा राजसभा के कुछ अन्य सभ्य बैठे थे । प्रवीणजी एक कविता सुना रहे थे । कविता समाप्त होने के कुछ समय उपरांत महाराज ने कहा—“प्रवीणजी, आपकी यह कविता तो साधारण रही । इसमें कोई विशेष बात नहीं है ।” सभासदों ने भी महाराज की बात का समर्थन किया । तब प्रवीणजी कुछ अप्रतिभ होकर बोले—“महाराज, यह कविता जिस समय मैंने लिखी थी, उस समय जी कुछ खराब था । इसलिये अच्छी नहीं बनी ।”

महाराज ने कहा—कवि लोग तो जी खराब होने के समय कविता लिखते ही नहीं । आप भी अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं ।

प्रवीणजी—हाँ श्रीमान् । यह तो श्रीमान् का कथन उचित है । खैर, मैं कल ही एक सुंदर कविता बनाकर श्रीमान् की सेवा उपस्थित करूँगा ।

एक सभासद बोल उठा—प्रवीणजी, जिन दिनों मोहनलाल व आपका साथ था, उन दिनों आपने जो कविताएँ लिखीं, वे अपूर्ण थीं । वैसी कविताएँ आपने उसके पहले भी कभी नहीं लिखी थीं और अब तो, बुरा न मानिएगा, आपकी कविताएँ अत्यंत साधारण होती हैं ।

प्रवीणजी ने उक्त सभासद की ओर तीव्र दृष्टि डाली, व बोले—मेरी कविताओं से और मोहनलाल से क्या संबंध ?

सभासद—मोहनलाल से संबंध कुछ भी नहीं है ; परंतु उसके राजकवि रहने तक के काल से संबंध अवश्य है ।

उसी समय महाराज बोल उठे—हाँ, यह तो आपने बड़ी बारीक बात कही । मैं भी कुछ ऐसा ही समझता हूँ । प्रवीणजी, यह बात बिलकुल ठीक है कि आपकी कविता में अब वह मधुरता, वह गहनता, वह चमत्कार नहीं रहता, जो उस समय रहता था, जब मोहनलाल राजकवि था । इसका क्या कारण है ?

प्रवीणजी हत-बुद्धि होकर बोले—श्रीमान्, मैं क्या कारण बताऊँ ? मैं स्वयं नहीं जानता कि क्या कारण है । अच्छा, कल मैं श्रीमान् को एक कविता सुनाऊँगा । आशा है, उसे सुनकर श्रीमान् का यह विचार जाता रहेगा ।

महाराज ने कहा—अच्छी बात है, सुनाइएगा ।

प्रवीणजी उस दिन रात को एक बजे तक बैठे कविता लिखते रहे । परंतु लिख चुकने पर जब उन्होंने उसे आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा, तो वह स्वयं उन्हें पसंद न आई । उन्होंने फिर उसे परिष्कृत किया ।

दूसरे दिन जब महाराज को कविता सुनाई, तो उन्होंने कहा—कविता अच्छी है ; पर वह बात नहीं आई ।

प्रवीणजी भी हृदय में समझते थे कि महाराज की यह बात ठीक है । प्रवीणजी ने महाराज से कुछ न कहा । उदास होकर घर आए ।

रात को उन्होंने सोचना शुरू किया—क्या कारण है कि अब वैसी सुंदर कविता नहीं बनती, जैसी कि मोहनलाल के समय में बनती थी ? अब हृदय में वह तरंग ही नहीं उठती, वह जोश ही नहीं उत्पन्न होता, वे भाव ही नहीं उदय होते । न इस बात की परवा रहती है कि कविता सर्वांग सुंदर हो, उसमें कहीं हूँदने पर भी कमज़ोरी न मिले ।

सोचते-सोचते उनके ध्यान में यह बात आई कि उस समय उन्हें यह चिंता रहती थी, यह भय रहता था कि कहीं मोहनलाल की कविता उनकी कविता से बढ़ न जाय। वह यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी कविता मोहनलाल की कविता से हेठा रहे। उनके सामने प्रत्येक समय यह उद्देश्य रहता था कि ऐसी कविता लिखी जाय, जिसके आगे मोहनलाल की कविता धूल हो जाय। इसी कारण उस समय उनके हृदय में उमंग रहती थी, जोश रहता था। प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने की धुन उस समय उसकी कवित्व-शक्ति को जाग्रत् रखती थी। प्रतिद्वंद्विता का भय उन्हें अपनी कविता सर्वांगसुंदर बनाने के लिये विवश करता था। मोहनलाल से प्रतियोगिता का भाव उन्हें इस बात के लिये विवश करता था कि वह नए-नए भाव अपनी कविता में लावे। परंतु अब वह बात नहीं रही। प्रतिद्वंद्वी का भय नहीं है; न इस बात की चिंता है कि किसी की कविता से उनकी कविता की तुलना की जायगा; न इस बात का डर है कि यदि दूसरे की कविता उनकी कविता से बढ़ गई, तो उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जायगी। जब ये सब बातें नहीं रहीं, तो अब न वह उमंग है, न वह जोश; न वह परिश्रम है, न वह सूझ। जिस प्रकार शत्रु के आक्रमण का भय होने से मनुष्य की आँख नहीं झपकती, वह हर समय चैतन्य रहता है, उसी प्रकार प्रतिद्वंद्वी के भय के कारण उनकी प्रतिभा सचेत रहती थी। पर जिस प्रकार जब मनुष्य को किसी का भय नहीं रहता, तो वह आराम से पैर फैलाकर सो जाता है, उसी प्रकार प्रतिद्वंद्वी का भय न रहने से उनकी प्रतिभा भी सो गई।

प्रवीणजी ने सोचा, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि उन्होंने उस समय जो इतनी अपूर्व कविताएँ लिखी, उसका कारण केवल मोहनलाल की प्रतिद्वंद्विता ही थी। ओफ् ! यदि यह बात थी, तो

उसका मेरा प्रतिद्वंद्वी बनकर रहना मेरे लिये हितकर था। जिस बात का मैंने अपने लिये अहितकर समझा था, वह मेरे लिये परम हितकर थी।

आज प्रवीणजी की आँखें खुल गईं। वह अपने जीवन की एक बड़ी भूल को समझ गए। वह सच्चे कवि थे और एक सच्चे कवि का हृदय रखते थे। वह संसार में कविता से अधिक किसी को न प्यार करते थे। जिस व्यक्ति के कारण उनकी कविताएँ सर्वप्रिय हुईं, जिसके कारण उनका कविता ने ऐसा मोहन-रूप धारण किया कि सबको मुग्ध कर लिया, उससे अधिक संसार में उनका प्यारा और कौन हो सकता है? प्रवीणजी के मुख से निकला—“हा ! मोहन, मैंने उस समय तुम्हारा मूल्य नहीं समझा था, वृणित स्वार्थ ने मुझे झंझा कर दिया था।” कवि की आँखों से अश्रु-धारा बह चली, वह बच्चों की तरह रोने लगे।



प्रवीणजी महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। महाराज ने पूछा—कहिण प्रवीणजी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रवीणजी ने कहा—महाराज, मैं श्रीमान् का पुराना दास हूँ। मैंने श्रीमान् की बहुत सेवा की है; और अभी जब तक जीवित हूँ, करता रहूँगा। आज तक मैंने श्रीमान् से कभी कुछ याचना नहीं की। जो कुछ श्रीमान् ने स्वेच्छा से हाथ उठाकर दे दिया, वह ले लिया, और सदैव संतुष्ट रहा। परंतु आज मैं श्रीमान् से एक भिन्न माँगता हूँ।

महाराज ने उत्सुक होकर सुसकिराते हुए कहा—प्रवीणजी, आज आप इतनी दीनता क्यों प्रकट कर रहे हैं ? मैंने आपको ऐसी दीनता प्रकट करते हुए इसके पहले कभी नहीं देखा।

प्रवीणजी—महाराज मैं, अपनी कविता के लिये सब कुछ कर सकता

हूँ। आज मेरी परम प्यारी कविता पर घोर संकट है। इसीलिये मैं श्रीमान् के सामने इतना दीन बनने को विवश हुआ।

महाराज उसी प्रकार मुसकिराते हुए बोले—क्यों, क्यों, उस पर क्या संकट आ पड़ा ?

प्रवीणजी के नेत्रों से आँसू बहने लगे। उन्होंने कहा—वह मोहनलाल के साथ कारागार में बंद है।

महाराज का मुख एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कहा—क्या कहा, मोहनलाल के साथ कारागार में बंद है ?

प्रवीणजी ने आँसू पोछते हुए कहा—हाँ श्रीमान्।

महाराज—तो आप क्या चाहते हैं ?

प्रवीणजी—यही कि मोहनलाल को मुक्त करके उसे उसी पद पर नियुक्त कीजिए, जिस पर वह था।

महाराज—परंतु प्रवीणजी, वह तो आपका प्रतिद्वंद्वी है।

प्रवीणजी—हाँ, ऐसा प्रतिद्वंद्वी हूँ, जैसा प्रतिद्वंद्वी मनुष्य को बड़े सौभाग्य से मिलता है। ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिस पर मनुष्य गर्व कर सकता है ! वह ऐसा प्रतिद्वंद्वी है कि ईश्वर सबको ऐसा ही प्रतिद्वंद्वी दे। जब तक वह मेरे सामने रहा, तब तक मेरी कविता की उन्नति हुई। आपने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि मोहनलाल के समय में मैंने जो कविताएँ लिखीं, वे अद्वितीय हैं।

महाराज—हाँ, यह बात तो मैं अब भी कहता हूँ।

प्रवीणजी—तो महाराज, जिस प्रतिद्वंद्वी ने मुझसे ऐसी कविताएँ लिखवाई, उस प्रतिद्वंद्वी का मिलना कितने बड़े सौभाग्य का सूचक है ! जिस दिन से वह कारागार गया, उसी दिन से मेरी कवित्व-शक्ति भी लुप्त हो गई। वह उसी के साथ चली गई। अतएव मैं यही भित्ति माँगता हूँ कि उसे मुक्त कर दीजिए।

महाराज ने कुछ देर तक सोचकर कहा—अच्छा, आपने आज

प्रथम वार मुझसे याचना की है ; मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।

महाराज ने उसी समय मोहनलाल को मुक्त करने की आज्ञा निकाली ।

मोहनलाल कारागार से मुक्त करके महाराज के सामने लाया गया ।

प्रवीणजी ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, और महाराज से बोले—श्रीमन्, आज से यह मेरा पुत्र है । मेरे बाद आपकी सभा में मेरे आसन पर यही बैठेगा ।

महाराज ने विस्मित होकर कहा—पर आपका पुत्र अंबिका-प्रसाद ?

प्रवीणजी—वह मेरे आसन के सर्वथा अयोग्य है । वह मेरे शरीर का पुत्र है, और मोहनलाल मेरी आत्मा का । इस लिये मेरे आसन का उत्तराधिकारी यही है ।

महाराज ने प्रवीणजी पर एक प्रशंसात्मक दृष्टि डालकर कहा—प्रवीणजी, आप सच्चे कवि हैं ।

## पञ्च-निर्देश

( १ )

दोपहर का समय है। कॉलेज में इंटरवल हुआ है। वहीं कंपा-उंड में, एक वृत्त की छाया में, दो लड़के घास पर बैठे हैं। दोनों सम-वयस्क हैं; दोनों की उमर करीब २०-२० वर्ष की होगी। दोनों परस्पर बातें कर रहे हैं। एक कह रहा था—भई, मेरा तो यह अंतिम वर्ष है; यदि इस वर्ष पास हो गया, तो पढ़ना छोड़ दूँगा, और चार पैसे कमाने का उद्योग करूँगा।

दूसरा बोला—बस केवल बी० ए० ही पास करके छोड़ दोगे, एम्० ए० न करोगे ?

पहले ने उत्तर दिया—बस इतना ही काफी है।

पहला—कम-से-कम एम्० ए० तो पास कर लो।

दूसरा—एम्० ए० की गुंजाइश नहीं। वृद्ध माता-पिता यह आशा लगाए बैठे हैं कि लड़का पढ़-लिख ले, तो कुछ कमाई करे, घर की दरिद्रावस्था दूर हो। और तुम सांचते हो कि पढ़ते-पढ़ते बुढ़े हो जायें।

दूसरा—अच्छा घनश्याम, एक बात पूछता हूँ, ठीक-ठीक उत्तर देना।

घन०—पूछो, यथाशक्ति और यथाबुद्धि ठीक ही उत्तर दूँगा।

दूसरा—तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है ?

घन०—प्रश्न तो बड़ा बेढक है।

दूसरा—कोई माधायण प्रश्न नहीं है घनश्याम। सूच मोच-समस्त-कर उत्तर देना।

घन०—मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि ईश्वर सुख-शांति के साथ खाने-पहनने-भर को देता जाय, बस ।

दूसरा—यह तो कोई अच्छा उत्तर नहीं । इस उत्तर से तो यही ज्ञात होता है कि तुम्हारे जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है । क्यों न ?

घन०—तुम क्या इसे साधारण लक्ष्य समझते हो ? सुख-शांति के साथ पेट भरने को भोजन और तन ढकने को वस्त्र मिलते जाना क्या कोई साधारण बात है ?

दूसरा—अरे यार, बस रहने दो । पेट-भर भोजन और वस्त्र तो संसार में सभी को मिल जाता है, इसमें खाल बात कौन-सी है ?

घन०—मैंने जो बात कही है उसे पहले समझ लो, फिर कोई राय क्रायम करो । मेरा मतलब यह है कि भोजन और वस्त्र तो मिल ही जाता है ; परंतु सुख-शांति तो बड़े भाग्यवान् ही पाते हैं ।

दूसरा—तुम्हारी यह बात कुछ जँची नहीं ।

घन०—तुम्हें न जँचे ; पर है यह तथ्य की बात । जब इस पर विचार करोगे, तब इसकी गंभीरता और महत्त्व समझोगे । यह बात बहुत दूर तक जाती है ।

दूसरा—पत्थर दूर तक जाती है ! परंतु इसमें तुम्हारा दोष नहीं । जितनी तुम्हारी हैसियत है, उसी के अनुसार तुम्हारा हृदय है ; और जितना हृदय है, उतनी ही बात कहोगे । तुम सुख-शांति से रोटी-कपड़ा मिलने को ही बहुत बड़ी बात समझ रहे हो ।

घन०—निरसंदेह, मैं तो इतने ही को ईश्वर की मधुमे बड़ी देवगी समझता हूँ ।

दूसरा—यह तो वही कहावत हुई कि भूखे से किसी ने प्रश्न किया, दो और दो कितने हाने हैं ? भूखे ने तुरत उत्तर दिया—  
“चार रोटियों !” वैसा ही बात तुमने कही ।



घन०—खैर भई, जो तुम समझो, वही सही । अच्छा बतलाओ, तुम्हारा क्या लक्ष्य है ?

दूसरा—मेरा लक्ष्य ? मेरा लक्ष्य है रुपए कमाना ; और मामूली रुपए नहीं, लाखों । मेरे जीवनका पहला लक्ष्य यह है कि मैं लक्षाधीश बनूँ । लक्ष्य के लिये लक्षाधीश कितना सुंदर आया है, न कहोगे ?

घन०—क्या बात है आपकी ! आखिर कवि ही तो उहरे ।

दूसरा—यदि मैंने अपने जीवन में दस-पाँच लाख रुपए न पैदा किए, तो समझूँगा, मेरा जीवन व्यर्थ गया ।

घन०—दस-पाँच लाख कमाने से तुम सुखी हो जाओगे ?

दूसरा—यार, तुम पूरे चोंच ही रहे ! जिसके पास दस लाख होंगे, वह सुखी न होगा, तो फिर कौन होगा ? सारे सुखों की खान रुपया ही है । जिसके पास रुपया है, उसके सामने सब प्रकार के सुख हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ।

घन०—संभव है, तुम्हारा विचार ठीक हो ; परंतु मुझे तो इसमें संदेह है ।

दूसरा—संदेह हुआ ही चाहे । कभी इतना रुपया आँखों से तो देखा न होगा, फिर उसके सुख की कल्पना कैसे कर सकने हो ?

घन०—यार विश्वेश्वरनाथ, तुम भी कभी-कभी बच्चों की-सी बातें करने लगते हो । क्या अब मुझमें इतनी बुद्धि भी नहीं कि मैं यह भी कल्पना न कर सकूँ कि धन से मनुष्य को क्या-क्या सुख प्राप्त हो सकते हैं ? कवि बायरन ने, जो कभी सो जेलखाने नहीं गया था, 'प्रिज़नर ऑफ़ शेलान'-काव्य में एक कैदी की मानसिक अवस्था का कितना सुंदर और सच्चा चित्र खींचा है । उसे पढ़कर तो सहसा यह विश्वास नहीं होता कि वह ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ है, जो कभी जेलखाने में नहीं रहा । कल्पना में बड़ी शक्ति है । विश्वेश्वर, इसी

कल्पना के बल पर कवि लोग बड़ी-बड़ी अद्भुत बातें सोच डालते हैं—“जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।”

विश्वेश्वर—तो यह कहिए, आप कवि हैं ! यह तो मुझे आज मालूम हुआ।

घन०—केवल तुकें भिड़ानेवाले कवि नहीं कहलाते, और न पद्य बनानेवाले ही कवि कहलाने के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति संसार को, संसार के चित्र को, अपनी कल्पना-शक्ति से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से शब्दों का ऐसा सुंदर और आकर्षक जामा पहनाता है कि जो उसे देखता है, मुग्ध हो जाता है, वही सच्चा कवि है, फिर वह चाहे गद्य-लेखक हो या पद्य-लेखक।

विश्वेश्वर—केवल शब्दाडंबर का नाम कविता नहीं है। कवि वह है, जो संसार के सम्मुख कोई आदर्श उपस्थित करे, कोई नई बात रखे।

घन०—नया आदर्श और नई बात बहुत-से आदमी रखते हैं। महात्मा, नेता, दार्शनिक, आविष्कारक, चित्रकार इत्यादि भी नए आदर्श, नए सिद्धांत और नई बात लोगों के सामने रखते ही हैं; पर वे कवि नहीं कहे जा सकते। कवि तो वही है जिमकी शब्द-योजना में आकर्षण हो, जादू हो, जो साधारण-से-साधारण बात भी इस ढंग से कहे कि सुननेवाले मुग्ध हो जायँ।

उसी समय सहसा कॉलेज की घंटी बजी। दोनों चौंक पड़े। घनराम बोला—बातों-बातों में वक्त हो गया, कुछ मालूम न हुआ। ( उठकर ) चलो, चलें।

दोनों बातें करते हुए धीरे-धीरे चञ्च दिष्ट।

( २ )

उपर्युक्त घटना को हुए दस वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में संसार में न-जाने कितने परिवर्तन हो गए, न-जाने कितने पैदा हुए,

कितने मरे, कितने बने और कितने बिगड़े। विश्वेश्वरनाथ इतने समय में विलायत से बैरिस्टरी पास करके लौट आए, प्रैक्टिस आरंभ कर दी, और वह चलने भी लगी। इधर घनश्यामदास ने बी० ए० पास करने के बाद एल्० टी० को परीक्षा भी पास कर ली। दो-तीन वर्षों तक तो वह इधर-उधर अध्यापक रहे; परंतु एक वर्ष से अपने ही नगर के गवर्नमेंट-स्कूल में मेकेंड मास्टर हैं। वेतन १५०) रुपए मासिक मिलता है। घर में वृद्ध माता-पिता के अतिरिक्त उनकी पत्नी है, और दो संतानें—एक तीन वर्ष का पुत्र और एक डेढ़ वर्ष की कन्या। सहपाठी होने के कारण घनश्यामदास और विश्वेश्वरनाथ में बड़ी मित्रता है। घनश्यामदास बहुधा शाम को विश्वेश्वरनाथ की कोठी पर जाया करते हैं।

एक दिन नियमानुसार संध्या-समय घनश्यामदास बैरिस्टर साहब की कोठी पर पहुँचे। उस वक्त विश्वेश्वरनाथ अपने मित्रों के साथ टेनिस खेल रहे थे। घनश्यामदास टेनिस-जॉन के किनारे पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए, और खेल देखने लगे। एक घंटे के बाद खेल छतम हुआ, और विश्वेश्वरनाथ रैकेट हाथ में लिए हुए जॉन के बाहर आए। घनश्यामदास को बैठे देखकर बोल उठे—इलो घनश्याम, तुम कितनी देर से बैठे हो ?

घनश्याम ने मुसकिलाकर उत्तर दिया—केवल एक घंटे से।

विश्वेश्वरनाथ ने हँसकर कहा—केवल एक घंटा ! तो अधिक समय नहीं हुआ। यह कहकर विश्वेश्वरनाथ भी पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके अन्य तीन मित्र भी आकर कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर के बाद अन्य तीन मित्र तो चले गए, केवल घनश्यामदास और बैरिस्टर साहब बैठे रहे।

बैरिस्टर साहब ने अँगड़ाई लेकर कहा—कहो यार, कैसी कटती है आजकल ?

घनश्यामदास ने कहा—यहाँ तो “वही रफ्तार बेहंगी, जो पहले थी, सो अब भी है।” न सावन डरे, न भादों सूखे । गिनी रोटी, और नापा शोरवा । आप अपनी कहिए ?

विश्वेश्वर—यहाँ तो जनाव, बस, रात-दिन कमाने की क्रिा रहती है। इन दिनों आमदनी कुछ कम रही, इसलिये मज़ा ज़रा केरकिरा रहा ।

घन०—इस महीने में एक हज़ार तो केवल एक ही केस में मिल गए। और आप क्या चाहते हैं ?

विश्वेश्वर—एक हज़ार में यहाँ क्या होता है यार । जब तक महीने में ४-६ हज़ार न मिले, तब तक यहाँ पूरा नहीं पड़ता ।

घनश्याम—४-६ हज़ार ! आपका माहवार खर्च तो मेरी समझ में ज़्यादा-से-ज़्यादा एक हज़ार होगा ।

विश्वेश्वर—अब आप यह समझ लीजिए, दो सौ रुपए माहवार तो सवारियों का खर्च है, एक मोटर और एक घोड़ा-गाड़ी; सवा सौ रुपए नौकरों की तनफ़्वाह, पाँच मर्द हैं, और दो स्त्रियाँ । १००) माहवार चाय-सिगरेट में खर्च हो जाता है ।

घनश्याम—चाय-सिगरेट में १००) रुपए माहवार !

विश्वेश्वर—क्यों, क्या बहुत है ? आप इतने ही में घबरा गए । दो-दोन में धनी लोग दो-दो ; तीन-तीन हज़ार रुपए माहवार तक के खर्च चाय-सिगरेट में खर्च कर डालते हैं । आप तो १००) ही रुपए घबरा गए !

घनश्याम—मेरी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे तीन-तीन हज़ार रुपए चाय-सिगरेट में उड़ा देते हैं ?

विश्वेश्वर—पर्यो भर्द, यह आपकी कल्पना-शक्ति कहाँ गई ? याद रख हम-तुम क्रोध ईयर ( बी० ए० छाम ) में पढ़ने थे, तब हमने कहा था कि कल्पना से मनुष्य सब कुछ जान सकता है ।

धनश्याम—नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा था कि सब कुछ जान सकता है। हाँ, यह अवश्य कहा था कि कल्पना से कभी-कभी वे बातें भी जाना जा सकती हैं, जिनका मनुष्य को कभी अनुभव नहीं होता। यह बात तो कभी संभव नहीं कि कल्पना से मनुष्य प्रत्येक बात को जान ले।

विश्वेश्वर—खैर, ग़नीमत है। आपने यह तो माना कि प्रत्येक बात कल्पना से नहीं जानी जा सकती।

धनश्याम—यार, यह तुम्हारी हठधर्मी है। मैंने यह कभी नहीं कहा था।

विश्वेश्वर—( हँसकर ) खैर, उस बात को जाने दो। हाँ, तो लंदन में धनी लोग ऐसे-ऐसे सिगार पीते हैं, जिनका मूल्य प्रति सिगार एक रुपया होता है। अब दिन-भर में १५-२० सिगार फुक जाना तो साधारण-सी बात है।

धनश्याम—दिन-भर में एक आदमी कितने सिगार पी सकता है ?

विश्वेश्वर—वैसे पूरा सिगार पिए, तो एक आदमी दिन-भर में छः-सात से ज्यादा नहीं पी सकता। परंतु धनी आदमी ऐसा नहीं करते। उन्होंने तो सिगार सुलगाया, दस-पाँच मिनट पिया, और फेक दिया। इस प्रकार आधे से अधिक सिगार बिलकुल बेकार जाता है। यह समझ लोजिए कि एक रुपए का सिगार है, तो चार-छः आने का तो पी लिया, और बाकी दस-बारह आने का फेक दिया। जो मितव्ययी होते हैं, वे उस सिगार को बुझाकर रख लेते हैं, फेकते नहीं। इस तरह वह दूसरी-तीसरी बार भी काम दे जाता है। परंतु उदार धनी लोग ऐसा नहीं करते। सिगार बुझाकर रखना टुच्चापन समझते हैं। ऐसे ही दिन-भर में दस-बारह सिगार तो वे स्वयं खराब कर डालते हैं, और दस-बारह मित्रों के स्वातिर-तवाज़ में जाते हैं। अगर आठ आने का भी एक सिगार

हुआ, तो दस-बारह रुपए रोज़ के सिगार समझो। औरतें सिगार नहीं, केवल सिगरेट पीती हैं। अतएव दिन-भर में दो-चार रुपए की सिगरेटें वे भी फूँक डालती हैं। अब चाय का खर्च लीजिए। बड़े आदमी कभी अकेले चाय नहीं पीते। जब पिँगुने, तो चार-छः आदमियों को साथ लेकर। दिन-भर में दस-बारह दफ़े चाय पीते हैं। इसमें भी चार-छः रुपए रोज़ का खर्च है, और महीने में आठ-दस बार 'टी-पार्टी' भी दी जाती है। एक-एक टी-पार्टी में बड़े आदमी चार-चार सौ, पाँच-पाँच सौ रुपए खर्च कर देते हैं !

घनश्याम—चाय से भला चार-पाँच सौ का क्या खर्च है ? क्या पार्टी में सैकड़ों आदमी सम्मिलित होते हैं ?

विश्वेश्वर—कभी नहीं, बीस-पचीस आदमी से ज्यादा नहीं।

घनश्याम—तो फिर इतना खर्च कैसे हो जाता है ?

विश्वेश्वर—नाम टी-पार्टी का होता है ; पर उसमें फल-फलहरी, मिठाई भी होती है, शराब भी उड़ती है। इसी से इतना खर्च बढ़ जाता है।

घनश्याम—ये सब रुपए के चोंचले हैं। ख़ैर, लंदन की बात थोड़ी। आप अपनी कहिए, आप कितने की सिगरेट पी जाते हैं ?

विश्वेश्वर—एक रुपए रोज़ की सिगरेटें तो मैं अकेले फूँक देता हूँ, और एक रुपए रोज़ की मित्रों की ज़ातिर-तवाज़े में खर्च हो जाती है। यह उस दशा में, जब बड़ी किरायातशारी से काम लेता हूँ।

घनश्याम—लंदन में रहे हो, उसका कुछ तो असर आना ही चाहिए।

विश्वेश्वर—बिलकुल यही बात है, सिगरेट और चाय का व्यसन तो यहाँ का प्रसाद है।

घनश्याम—और शराब ? शराब तो यहाँ मूढ़ पी जाती है ?

विश्वेश्वर—मूढ़ से अगर धारका मतलब ज्यादा से है, तो यह

आपका खयाल ग़लत है। वहाँ बड़े आदमी शराब ज़्यादा नहीं पीते। फिर भी बड़े आदमियों को एक दिन मैंने ४०-५०) की शराब पी जाते देखा है, और यह रोज़ का खर्च है।

घनश्याम—जब ज़्यादा नहीं पीते, तो इतना खर्च क्यों पड़ता है ?

विश्वेश्वर—ज़्यादा नहीं पीते, पर क़ीमती शराब पीते हैं—‘शॅपि-यन’, ‘क्लागनेक’, ‘क्लेरेट’, ‘शेरी’ इत्यादि ही पीते हैं। ये सब बड़ी क़ीमती होती हैं, दस-बारह रुपए बोतल से कम की कोई नहीं होती। एक बार में पीते बहुत थोड़ी हैं, दो पेग से ज़्यादा नहीं; पर दिन-भर में कई बार पीते हैं। जब प्यास लगती है, शराब ही पीते हैं। सादा पानी पीना तो वहाँ कोई जानता ही नहीं। ग़रीब लोग भी प्यास लगने पर शराब ही पीने की चेष्टा करते हैं, चाहे ‘बियर’ और ‘जिन’ ही पिएँ।

घनश्याम—हाँ, तो आप कितने की शराब पी जाते हैं ?

विश्वेश्वर—मैं तो शाम को, खाना खाने के बक्त, थोड़ी-सी पी लेता हूँ, बस।

घनश्याम—तो इसमें तो ज़्यादा खर्च न पड़ता होगा ?

विश्वेश्वर—अगर मैं अकेला पिऊँ, तो एक बोतल चार दिन के लिये काफ़ी हो जाय, एक बोतल छः-सात रुपए की हुई। इस तरह ३० रुपए में महीना पार हो जाय। अगर चार-दोस्तों को भी कभी-कभी पिलाती पड़ती है, इसलिये महीने में आठ-दस बोतलें खर्च हो जाती हैं। ५०-६० रुपए इसमें भी खर्च हो जाते हैं।

घनश्याम—पाँच सौ रुपए मासिक के लगभग तो यही हो गया।

विश्वेश्वर—जी, और खाना, कपड़ा-लत्ता तथा और फुटकल खर्च। आम तौर से सब मिलाकर एक हज़ार माहवार से कुछ ज़्यादा ही बैठ जाता है। अगर किसी महीने मेहमान आ गए या कहीं रिश्तेदारी में ब्याह-शादी हुई, तो ढेढ़-दो हज़ार तक की नौबत पहुँच जाती है।

धनश्याम—जिस आसानी से आता है, उसी आसानी से जाता भी है ! "जैसी करनी, वैसी भरनी" वस, यही बात है ।

विश्वेश्वर—यह बात नहीं । मैं कोई फ्रिज़ूल खर्ची तो करता नहीं । जितने खर्च मैंने आपको बताया है, उनमें भला फ्रिज़ूल कौन-सा है ?

धनश्याम—आमदनी है, इसलिये फ्रिज़ूल नहीं मालूम होते । आमदनी न हो, तब फ्रिज़ूल खर्च का पता चले । मुझे तो सिगरेट और शराब का खर्च विलकुल फ्रिज़ूल दिखलाई पड़ता है । आपके लिये वह आवश्यक है, और वह भी इसलिये कि आपको आमदनी है । ईश्वर न करे, कहीं आमदनी कम हो जाय, तो आपको भी ये खर्च फ्रिज़ूल ही दिखलाई पड़े । खैर, अब यह बतलाओ कि कुछ बचाते भी हो, या सब चर ही कर जाते हो ?

विश्वेश्वर—इधर डेढ़ साल से आमदनी बढ़ी है, नहीं इसके पहले तो हजार-आठ सौ रुपए माहवार से अधिक नहीं मिलता था । इस डेढ़ साल में कठिनाई से दस-बारह हजार रुपए बचाए हैं ।

यह कहकर विश्वेश्वर उठ खड़े हुए, और बोले—चलो, अंदर बैठें ।

( ३ )

वैरिस्टर साहब अर्थात् विश्वेश्वरनाथ करते तो ये डेढ़-दो हजार रुपए माहवार पैदा ; पर तब भी उनकी धन-लिप्सा कम न हुई थी, बरन् प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी । चांपि उन्हें एक प्रकार से सब तरह का सुख था । नौकर-चाकर, सवारी, घेंगला इत्यादि कोई बस्तु ऐसी न थी, जो उन्हें प्राप्त न हो ; परंतु फिर भी वह सुखी न थे । सदैव यही चिंता रहती थी कि किसी प्रकार उनकी आमदनी बढ़े । पर मैं केवल चार जीव थे—एक वह स्वयं, दूसरी उनकी पत्नी, तीसरा उनका पुत्र, जिसकी उमर दो वर्ष के लगभग थी, और चौथे उनके बूढ़ पिता । केवल चार प्राणियों के लिये भी, वैरिस्टर साहब



की दृष्टि में, दो सहस्र रुपए मासिक कम थे ! नगर में अन्य बैरिस्टर भी थे । उनमें कुछ ऐसे थे, जिनकी आय पाँच-छः सहस्र रुपए मासिक तक थी । इसका कारण यह था कि वे पुराने थे, उनकी धाक खूब ज़मी हुई थी । बैरिस्टर विश्वेश्वरनाथ भी रात-दिन इसी चिन्ता में रहते थे कि किसी प्रकार उनकी भी आमदनी पाँच-छः सहस्र या इससे भी अधिक हो जाय ।

रात का समय था । पति-पत्नी एक त्रिजली की रोशनी से जग-मगाते हुए कमरे में सुन्दर तथा कोमल शय्या पर लेटे हुए बातें कर रहे थे । बैरिस्टर साहब बोल उठे—क्या कहें, परसों एक ऐसा अच्छा बाग़ बिक गया, साठ हज़ार में त्रिका !

पत्नी ने पूछा—किसका था ?

बैरि०—एक सेठ का था । बड़ा सुन्दर बाग़ है, बीच में एक छोटी-सी कोठी भी है ।

पत्नी—किसने लिया ?

बैरि०—टॉमसन साहब बैरिस्टर ने । सच पूछो, तो साठ हज़ार में भी सस्ता मिला । एक लाख से कम का नहीं है । ( ठंडी साँस लेकर ) रुपया नहीं था, नहीं तो × × ×

पत्नी—रुपया हो कैसे ? जो कुछ आता है, सब खर्च हो जाता है । किसी महीने में दो सौ बच गए, किसी में चार सौ । किसी महीने में तो एक पैसा भी नहीं बचता !

बैरि०—यही तो मुशकिल है । इतना हाथ रोककर खर्च करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बचता । खर्च सब बँधे टँके हैं, कोई फ़िज़ूल खर्च नहीं होता । एक बढ़िया कार ( मोटर ) लेने का इरादा न जाने किसने दिनों से है ; पर इसी मारे नहीं लेते कि मुफ़्त में छः-सात हज़ार निकल जायेंगे ।

पत्नी—यह गाड़ी क्या कुछ ख़राब है ? अभी बिलकुल नई तो है ।

वैरि०—नई-पुरानी पर बात नहीं है। वह गाड़ी ओवरलैंड है। ओवरलैंड गाड़ी भी कोई गाड़ी में गाड़ी है। आजकल साधारण आदमियों के पास भी ओवर-लैंड रहती है। गाड़ियाँ हैं हडसन, टॉज। हडसन-गाड़ी सात-आठ हजार से कम में नहीं आती। इस समय यहाँ कोई ऐसा वैरिस्टर नहीं, जो ओवर-लैंड पर चलता हो। मैं जब उस पर निकलता हूँ, तो शर्म मालूम होती है।

पत्नी—इस टॉज-क्राज के फेर में तो पड़ो नहीं। सबसे पहले एक कोठी खरीदनी चाहिए, किराए के बँगले में रहते अच्छा नहीं लगता। वह भी कोई आदमी है, जिसका घर का घर न हो। अपना निज की भोंपड़ी अच्छी; पर किराए का मकान भी अच्छा नहीं।

वैरि०—अच्छी कोठी ७०-८० हजार से कम की नहीं मिलेगी, और पहले इस वक्त २० ही हजार हैं। बतजाओ, इतने में क्या-क्या करे। वही कहावत है—“एक टका मेरी आली; नथ गदाऊँ कि धाली।” कुल बीस हजार रुपए, उसमें मोटर भी हो, कोठी भी हो, बाग भी हो।

पत्नी—इस हिमाय से तो अभी २०-६० हजार की कमी है।

वैरि०—धरे सय कमी-ही-कमी तो है। अभी है ही क्या? अगर पाँच-छः हजार माहवार मिलने लगे, तब तो मज़ा आ जाय। बन-से-बन चार हजार माहवार सचें, एक ही साल में २० हजार बच जायें। बड़े-बड़े मुश्किलें तो—जिनमें तीन-तीन, चार-चार गौरी पेगी मिटनताना होता है—जो हमसे पुराने हैं, वे मार जे जाते हैं। हमें तो बस, यही पचास में लेकर ली-स्टे मी, हट्टी मी, तक के मुश्किलें मिलते हैं।

पत्नी—वे मुनसे अच्छा काम करते होंगे, अभी तो उनकी इतना मिश्रण है!

वैरि०—अच्छे-बुरे की बात नहीं, बात केवल धाक की है। उन की धाक जमी हुई है, इस कारण लोग पहंले उन्हीं को पूछते हैं। हम चाहे उनसे अधिक परिश्रम करें; पर हमें कोई नहीं पतियाता। नाम निकल जाने की बात है। उनका नाम हो गया है, इसलिये लोग उन्हीं की तरफ़ दौड़ते हैं।

पत्नी—तुम जब पुराने हो जाओगे, तब तुम्हें भी उतना मिलने लगेगा।

वैरि०—तब तो मिलेगा ही। परंतु बुढ़ापे में धन आया, तो किस काम का। खाने-खर्च के दिन तो यही हैं। अभी मिलता, तो आनंद था।

इसी प्रकार वैरिस्टर साहब रात के बारह बजे तक झींकते रहे। जब घड़ी ने टनाटन बारह बजाए, तब वह चौंकर बोले—ओफ़ ओह ! बारह बज गए। अब सोना चाहिए। यह दुखड़ा तो नित्य का है।

( ४ )

इधर वैरिस्टर साहब दो सहस्र मासिक की आय होने पर भी रात-दिन 'हाय रुपया, हाय रुपया' ही चिल्लाते रहते थे। कोई दिन ऐसा न जाता, जिस दिन वह निश्चित होकर सुख-शांति के साथ भोजन करते हों। उठते-बैठते, खाते-पीते, हमेशा यही चिंता कि रूपए हों, तो यह कोठी खरीदें, वह बाग़ ले लें, इस तरह की गाढ़ी मँगवें। अच्छे-से-अच्छा खाते-पहनते थे; पर सुख-शांति का अभाव था। हाय री राजसी तृष्णा ! बाहर से तो जो वैरिस्टर साहब को देखता था, वह समझता था कि वह बड़े सुखी हैं, ईश्वर का दिया सब कुछ है। परंतु वैरिस्टर साहब की नीयत का हाल किसी को क्या मालूम ? उनकी नीयत का हाल यह था कि जहाँ किसी को बढ़िया गाढ़ी पर निकलते देखते, वहीं ठंडी साँमें भरकर आठ मारते। जंग

किसी की बढ़िया कोठी पर दृष्टि पड़ती, कलेजे पर साँप लोट जाता कि हाय, यह कोठी हमारे पास क्यों न हुई ! रूपए हों, तो हम भी ऐसी ही कोठी बनवावें । जहाँ तक मानसिक चिंता, मानसिक क्लेश और धन-बोलुपता का संबंध है, वहाँ तक वैरिस्टर साहब और एक ऐसे दरिद्र में, जिसे केवल भोजन और वस्त्र की सदा चिंता रहती है, कोई अंतर न था । एक दरिद्र आदमी दिन-भर इसी चिंता में अपना खून सुखाया करता है कि शाम तक उसको और उसके बाल-बच्चों को पेट-भर भोजन मिल जाय, तन ढकने को वस्त्र मिल जाय । रात में भी उस वेचारे को इसी चिंता के मारे नींद नहीं आती । वैरिस्टर साहब भी दिन-भर उसी चिंता में रक्त सुखाया करते कि किसी प्रकार खूब रूपए मिलें, कोठी खरीदें, बाग लें, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ रखें, खूब ठाट-घाट बनायें । रात में भी वेचारे को इसी चिंता के मारे नींद हराम हो गई थी । दो हजार माहवार कमानेवाले इन वैरिस्टर साहब में और एक दरिद्र में कोई अंतर नहीं ? जितनी चिंता उसे रहती है, उमसे कम इन्हें नहीं । जितना मानसिक क्लेश उसे रहता है, उतना ही इन्हें भी । चाते-पीते लोगों के सामने वह दरिद्र जितनी अपनी लघुता अनुभव करता है, उतनी ही वैरिस्टर साहब उन लोगों के मामले महसूस करते हैं, जिनके पास उनसे अधिक धन है, उनमें अधिक बढ़िया बाग, कोठी तथा अन्य सामान है । जो वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, उसका मूल्य, उमका महत्व, उमकी दृष्टि में, कुछ नहीं रहता, फिर वह चाहे जितनी मूल्यवान् क्यों न हो चाहे जितनी दुष्प्राप्य । मनुष्य सर्वदै उसी वस्तु की अभिलाषा में टंटी नाँवें भरता है जो उसे प्राप्त नहीं, जो उसे नसीब नहीं, वह चाहे जितनी साधारण हो, चाहे जितनी मामूली हो । एक लखपती मनुष्य के जिसे हजार-दो हजार रूपए कोई चीज़ नहीं । क्यों ? इसलिए कि रूपए उमके पास हैं, उमें प्राप्त हैं । परंतु जिनके पास वे रूपए भी



घनश्यामदास का मकान साधारण था, गुज़र के लिये काफ़ी था । बाहर एक छोटी-सी बैठक में सफ़ेद कुर्श विछा हुआ था, जिस पर एक गाव-तकिया भी रक्खा था । विश्वेश्वरनाथ गाव-तकिए के सहारे बैठ गए; फिर वह मकान की ओर देखकर मन में सोचने लगे—ये लोग इतने छोटे मकानों में कैसे रहते हैं ; हमसे तो यहाँ एक दिन भी न रहा जाय !

घनश्यामदास ने पूछा—आप मकान को बड़े ग़ौर से देख रहे हैं ?

विश्वेश्वर—मकान है तो साफ़-सुधरा; लेकिन कुछ छोटा है । जिस मकान में तुम पहले रहते थे, उससे तो अच्छा ही है ।

घनश्याम—जैसा कुछ भी है, हमारे लिये काफ़ी है ।

यह कहकर घनश्यामदास अंदर चले गए, और थोड़ा देर के बाद लौटकर बोले—चलिए, खाना खा लीजिए ।

विश्वेश्वरनाथ ने अंदर जाकर भोजन किया । तत्पश्चात् पुनः बाहर पत्तरे में आ गए । घनश्याम ने पान-इलायची तथा सिगरेट सामने रख दिया । विश्वेश्वरनाथ ने पान तो ग्राए नहीं, केवल इलायची ले ली, और सिगरेट पीने लगे ।

विश्वेश्वरनाथ ने पूछा—कहो, आजकल कैसा कटती है ?

घनश्याम—बड़े खाने में । टेढ़े सौ महीना मिलता है । खाने से खाने-पाने है । न ऊर्ध्व का लेना, न माधो का देना ।

विश्वेश्वर—सता नहीं, तुम इतने ही में कैसे मंजूर रहने हो । यहाँ तो दो हजार माहवार पैदा करते हैं, फिर भी ज़िम्मे के मारे रात को नींद नहीं आती ।

घनश्यामदास हँसकर बोले—आपके राज्य में मद्रासकी भाँति नहीं है, और यहाँ उनसे कोसों भागने हैं ।

विश्वेश्वर—हिंदीवातियों में यहाँ तो डोस है कि वे लोग बहुत

थोड़े ही में संतुष्ट हो जाते हैं, अतएव उन्नति नहीं कर पाते। जहाँ महस्वाकांक्षा नहीं, वहाँ उन्नति भी नहीं।

घनश्याम—ऐसी महस्वाकांक्षा को, जिसकी चिंता में खाया-पिया न पचे, रात को नींद न आवे, दूर ही से प्रणाम है।

विश्वेश्वर—तो ऐसे आदमी उन्नति भी नहीं कर सकते।

घनश्याम—इस बात को मैं नहीं मानता। उन्नति कर्तव्य-पालन की चेष्टा से होती है, व्यर्थ चिंता करने से नहीं। जो वर्तमान स्थिति हो, उस पर संतोष रखिए, चिंताओं को पास न फटकने दीजिए, अपना कर्तव्य पालन करते रहिए। उन्नति होनी होगी, अपने आप हो जायगी।

विश्वेश्वर—कोई लक्ष्य भी तो सामने होना चाहिए। विना किसी प्रकार की महस्वाकांक्षा सामने रखे चेष्टा भी तो नहीं होती। आखिर किसके लिये चेष्टा करे।

घनश्याम—महस्वाकांक्षा की भी कोई सीमा होती है। आप यदि यह महस्वाकांक्षा रखें कि कहीं के राजा हो जायँ, तो यह निरापागलपन है। यदि मैं यह महस्वाकांक्षा करूँ कि इस सूबे का गवर्नर हो जाऊँ, तो यह ख़स नहीं, तो क्या है ?

विश्वेश्वर—जो जिस लाइन में है, वह उसी के संबन्ध की महस्वाकांक्षा कर सकता है।

घनश्याम—ठीक है। मैं यह महस्वाकांक्षा कर सकता हूँ कि अपने स्कूल का हेड-मास्टर हो जाऊँ। तो इसके लिये चिंता करना और खाना-पीना त्याग देना तो महा मूर्खता है। मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, अपना कार्य भली भाँति करता हूँ। कभी अवसर आवेगा, तो हो जाऊँगा। पर यदि अवसर न आवे, तो हर-इच्छा। मैं स्वाहमस्वाह क्यों जलूँ-भुनूँ, और जो ईश्वर ने दिया है, उसका उपभोग आनंद से न करूँ ? ऐसी महस्वाकांक्षा,

जिससे शरीर का रून सूखे, दो ढौड़ी की है। ऐसी महत्वाकांक्षा तो ईश्वर की मार है, अभिशाप ही है !

विश्वेश्वर—तुम तो उन आइमियों में हो, जो रोटी-कपड़ा मित्तने ही को मुख्य समझते हैं !

घनश्याम—न समझें, तो करें क्या, प्राण दे दें ? जब हमें मालूम है कि हम हम जन्म में, लाख चेष्टा करने पर भी, संपत्ति-शाली नहीं हो सकते, तो व्यर्थ चिंता और फट उठाने से लाभ ?

विश्वेश्वर—उद्योग और प्रयत्न करने से सब कुछ हो सकता है। चेष्टा करने से ईश्वर तक प्राप्त हो सकता है।

घनश्याम—घमा कीजिए, उसका नाम उद्योग और प्रयत्न नहीं है उसका नाम तपस्या है। तपस्या और प्रयत्न तथा उद्योग में आधाश-पाताळ का अंतर है। तपस्या बात ही दृमरी है। तपस्या में तो मनुष्य को घोर कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। मोटरों में पड़े घूमने में, सुस्वादु भोजन पाने में, बढ़िया सिगरेट पीने में, रोज़ शान को शराब उड़ाने से तपस्या नहीं होती। तपस्या में मनुष्य को संसार का, अपने संभु-संधियों का, अपने शरीर तक का मोट त्याग देना पड़ता है।

विश्वेश्वरनाथ हमका कुछ उतर न देंगे बोलें—उरदा अब आशा दो, चलेगा।

एह कहकर वह विदा हुए।

( \* )

ऐसिएर विश्वेश्वरनाथ की घन-लोचुपता प्रविष्टिज वदनी ही गई। उसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ी-बढ़ी थीं और उनको बरकर रखने में जिसे वह सब कुछ करने पर उद्यत रहते थे। शान का पद था। विश्वेश्वरनाथ अपने बोलों के बलान्ते में, आशानुभूतों पर छोटे हुए मनुष्य पर रहे थे, उसी समय उनकी बीटा के पादर पर एक



मोटर आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन बिलकुल अँगरेज़ी लिबास में उतरे, और सीधे बैरिस्टर साहब के पास चले आए। बैरिस्टर उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए, हाथ मिलाया, और पास की कुर्सी पर बैठने के लिये कहा। वह सज्जन बैठ गए। बैरिस्टर साहब ने पूछा—  
आपका नाम ?

वह सज्जन बोले—मेरा नाम अजीतसिंह है, और मैं...रियासत का दीवान हूँ। मैं एक मुक़दमे के मुतअल्लिक आपके पास आया हूँ।

'रियासत के दीवान ! और उनका मुक़दमा !!' सुनते बैरिस्टर साहब की बाछें खिल गईं। मन की प्रसन्नता को भीतर-ही-भीतर दबाने की कोशिश करते हुए बोले—बड़ी खुशी की बात है। मैं आपकी सेवा के लिये हाज़िर हूँ।

वह सज्जन—एक लाख का दस्तावेज़ है। उसकी नालिश करना है।

बैरिस्टर साहब—वह दस्तावेज़ आप लाए हैं ?

वह सज्जन—जी हाँ, मगर उसमें एक नुक़स है। उसके संबंध में आपसे सलाह लेनी है।

यह कहकर उन्होंने जेब से वह दस्तावेज़ निकालकर बैरिस्टर साहब के हाथ में दे दिया।

बैरिस्टर साहब ने दस्तावेज़ को ध्यान-पूर्वक देखा; वाद को बोले—इसको लिखे गए तीन साल हो गए !

वह सज्जन—जी हाँ।

बैरिस्टर०—हाँ, इसमें नुक़स क्या है ?

वह सज्जन—यह रजिस्ट्री-शुदा नहीं है।

बैरिस्टर साहब ने उभरे उलटकर देखा और देखकर बोले—यह तो बड़ा भारी नुक़स है। इतनी भारी रक़म का दस्तावेज़ और उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई !

वह सज्जन—क्या कहें, कुछ ऐसे झमेले आ गए कि रजिस्ट्री नहीं हो सकी, वक्त निकल गया। दूसरे, कुछ विश्वास भी था, इसलिये अधिक ध्यान नहीं दिया।

वैरिस्टर०—विश्वास था, तो फिर नालिश की नौबत कैसे आई ?

वह सज्जन—समय की बात तो है। आजकल जिस पर विश्वास परो, वही विश्वासघात करता है।

वैरिस्टर०—इस दस्तावेज़ पर जिन गवाहों के दस्तख़त हैं, वे तो सब आपकी जानिय से गवाही देंगे न ?

वह सज्जन—यही तो ख़राबी है। जिन दो गवाहों के दस्तख़त हैं, वे दोनों ही इन तीन सालों के अंदर मर चुके हैं।

वैरिस्टर०—यह तो बड़ी घुरी बात हुई। एक तो रजिस्ट्री नहीं हुई, दूसरे गवाह नदारद ! बड़ी कठिन समस्या है।

वह सज्जन—जब आप-ऐसे वैरिस्टर भी इस कठिन समस्या पहुँचे, तो फिर इसे सुलझावेगा कौन ?

वैरिस्टर०—हम-से-अस एक ऐसे गवाह की ज़रूरत है, जो प्रति-एक ही, जापित भी हो।

वह सज्जन—परंतु दरख़त तो दो ही रहे हैं, और उनमें से दोनों नहीं हैं। क्या ज़बानी गवाही काम दे सकती है ?

वैरिस्टर०—ज़बानी गवाही तो काम नहीं दे सकती।

वह सज्जन—यदि आप इस दस्तावेज़ का ख़समा समूह कर दें, तो पक्षान्त हज़ार रुपए कायदा में टकराएगा।

पक्षान्त हज़ार रुपए सुनते ही वैरिस्टर नाराज हो बैठे। पक्षान्त पर धारा १४०४, कुछ और ख़िलाफ़तें, ऐसी ख़तरनाक खिलफ़तें मिलेंगी। अतः-अस एक छोटी-छोटी-अस की तो हो ही नहीं देना चाहता। वह खोखर होते—काम देना है। इसका निश्चय ही एक हज़ार में कम न देना।

वह सज्जन—अस्सी हजार तो बहुत हैं !

वैरिस्टर०—काम तो देखिए ! आपके चार लाख पर पानी फिर जाता है !

वह सज्जन—हाँ, यह बात तो ज़रूर है। अच्छा, स्वीकार है।

“जाता धन जो देखिए, तो आधा लीजें बाँट।” ऐसा ही सही।

वैरिस्टर०—तो आधा मिहनताना तो पहले रखिए, और इसकी कोर्ट-फ़ीस।

वह सज्जन—कोर्ट-फ़ीस तो दी ही जायगी; परंतु मिहनताना आधा-आधा पहले नहीं। रुपए पाँच हजार आप अभी ले लीजिए। मुक़दमा जीत जाने पर बाक़ी सब दे दिया जायगा।

“पाँच हजार तो बहुत कम है।”

वह सज्जन—तो इससे अधिक की तो गुंजाइश नहीं है। आपको यदि यह ख़याल हो कि हम वेईमानी कर जायेंगे, तो हुंडी-रुक्का, दस्तावेज़, चाहे जां लिखा लीजिए।

वैरिस्टर०—ख़ैर, यह बात तो नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मगर—

वह सज्जन—अगर-मगर का अब क्या काम ? जब आपको विश्वास है, तो फिर आगे कुछ कहना व्यर्थ है।

उस व्यक्ति ने ऐसी लच्छेदार बातें बनाईं कि वैरिस्टर साहब स्वयं क़ानूनदाँ होकर भी उसकी बातों में आ गए, और मुक़दमे को ले लिया।

उसने पूछा—हाँ, यह बात तो बतलाइए कि आप इस केस को कैसे चलावेंगे ?

वैरिस्टर साहब—इस दस्तावेज़ में एक गवाह का स्थान छूटा हुआ है।

वह सज्जन—हाँ, छूटा तो है।

डैरिस्टर०—वम, उस स्थान पर एक गवाही बनवा ली जायगी ।  
 वह मज्जन—चात तो बड़ी आला दर्जे की है ; परन्तु झूठी गवाही  
 बनाने के लिये तैयार कौन होगा ? ऐसे-वैसे की गवाही मानी नहीं  
 जायगी, और प्रतिष्ठित आदमी झूठी गवाही क्यों देने लगा ?

डैरिस्टर०—आप देखते तो जाइए । इसी बात के तो अस्सी  
 हजार लेंगा, नालिश करने के थोड़े ही ।

वह मज्जन—झैर, आप जानें, आपका काम जाने ? हमें तो  
 रुप मिलने चाहिएँ ।

डैरिस्टर०—झैर, आप अब जाइए, और कल या परसों पाँच  
 हजार में तो प्रॉम के, और दूसरी कोर्ट-प्रॉम ले आइए । नालिश  
 दापर पर दी जायगी ।

वह मज्जन—कोर्ट-प्रॉम किन्हीं लगेगी ?

डैरिस्टर आइए ने हिलाप लतापर बतला दिया । वह मज्जन दो  
 रोज़ बाद आने पर वायदा करके चले गए ।

दो रोज़ बाद वह रुप लेकर आए, और बोले—लॉजिए, मैं  
 पाँच हजार तो आकर हूँ, और वे कोर्ट-प्रॉम के । गिन लॉजिए, बी-बी  
 के मोट हूँ ।

डैरिस्टर आइए ने रुप गिनकर रुप लिये ।

उस मज्जन ने पूछा—हाँ, हाँमें गवाह को वायदा कराने क्या  
 बिना ?

डैरिस्टर आइए उनके एक मिलेन बराने में से गए, और दरबारों  
 रिक्कावर बोले—देखिए, मैंने क्या बतला दिया है ? उस मज्जन  
 ने देखा, हाथों पर मोठों गवाह के रूपक पर कब डैरिस्टर आइए  
 हा के हाथपर । कबला का पैसा ही हो, लैरी कि दरबारों के ।

उस मज्जन ने दिखाने दोबरे पूछा—आकरे रुप कराने ही कौन  
 गवाह बना दिया ?

बैरिस्टर०—और फिर किसको बनाता ? कौन भला आदमी झूठी गवाही बनाना पसंद करेगा ?

वह सज्जन प्रसन्न-मुख होकर बोले—तब तो निश्चय रूप वसूल हो जायँगे ।

बैरिस्टर०—अस्सी हज़ार तैयार रखिएगा ।

वह सज्जन—अजी उसी वक्त लीजिए । इधर डिग्री मिली, उधर आप रूप ले लें । ऐसी बात थोड़ी ही है ।



ठीक समय पर दस्तावेज़ का मुक़दमा पेश हुआ । जिस पर नालिश हुई थी, वह ताल्लुक़ेदार थे । उनकी ओर से भी दो बैरिस्टर थे । ताल्लुक़ेदार ने दस्तावेज़ को तसलीम नहीं किया, और कहा—“यह दस्तावेज़ जाली है ।” इधर गवाहों में स्वयं बैरिस्टर विश्वेश्वरनाथ के हस्ताक्षर विद्यमान थे । ऐसी हालत में दस्तावेज़ का जाली होना सरलता-पूर्वक मान्य नहीं हो सकता था । ताल्लुक़ेदार साहब ने अपने हस्ताक्षरों के संबंध में भी कहा कि ये जाली हैं ।

अब विश्वेश्वरनाथ के होश गुम हो गए । उन्हें यह विश्वास नहीं था कि पूरा दस्तावेज़ ही जाली होगा । उन्होंने समझा था कि दस्तावेज़ सही है, केवल एक प्रतिष्ठित गवाह के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, और वह भी केवल इसलिये कि जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर उस पर थे, वे मृत हो चुके थे । लोभ ने उनकी आँखों पर पट्टी बाँध दी थी, और उन्होंने उस दस्तावेज़ के असली होने के संबंध में यथेष्ट जाँच-पड़ताल नहीं की थी । यदि दस्तावेज़ जाली प्रमाणित हो गया, तो वह भी बाँधे जायँगे ; क्योंकि उनकी गवाही उस पर थी । अतएव इसके यह अर्थ हुए कि वह भी उस जाल में सम्मिलित हैं ।

वह दस्तावेज़ हस्ताक्षर के विशेषज्ञ के पास भेजा गया । पंद्रह

दिन के बाद उसने अपनी रिपोर्ट इस प्रकार दी—“दस्तावेज निःसंदेह जाली मालूम होता है। मुद्दाघलेह के अमली हस्ताक्षर में और दातावेज पर किए गए हस्ताक्षरों में फरक है। यद्यपि यह फरक बहुत घातक है; फिर भी एक विशेषज्ञ को भ्रम में नहीं डाल सकता। इसके अतिरिक्त वैरिस्टर विश्वेश्वरनाथ की गवाही अभी हाल ही में ही हुई मालूम होती है; क्योंकि जिस स्टाफी में वैरिस्टर साहब का हस्ताक्षर है, वह रंग में तो दस्तावेज की स्टाफी से मिलती है, पर उसकी पुरानी नहीं है, जितनी कि दस्तावेज की। सामान्यतः क्रिया करने से उसका नयापन स्पष्ट प्रकट हो गया।”

यह रिपोर्ट मिलते ही अदालत ने मुद्दे का दावा फ़ारिज कर दिया, और विश्वेश्वरनाथ तथा मुद्दे, दोनों को शौजदारी-निमुद पर दिया।

ॐ

ॐ

ॐ

कहाँ तो वैरिस्टर साहब इस पक्ष में थे कि मामला हज़ार मिलने ही कोई करिया बाँटी करीदेंगे और यहाँ अब प्रायः बचाना कठिन हो गया। उलटी पानें गले पड़ी। सोचा, जलझाने अलग जाँने और वैरिस्टरों का सिफ़ासा अलग दिन जायगा। पौरी के नीचे-नीचे हो जाँने। परंतु यह समय वैरिस्टर थे, इसलिये पड़े-पड़े वैरिस्टरों पर उनका प्रभाव था। अन्त में यह निश्चय कर लिया कि विश्वेश्वरनाथ की बचाना ही चाहिए।

वास्तव में ऋजु दिया गया है या नहीं। उनकी नीयत में कोई ऋजु न था और न वह यही जानते थे कि यह सरासर जाल किया जा रहा है। खैरियत यह हुई कि दीवानजी को यद्यपि सज़ा हो गई, तथापि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने जाली दस्तावेज़ बनाया है, वह अंत तक यही कहते रहे कि दस्तावेज़ सही है। यह पट्टी भी दीवानजी को बैरिस्टर्स ने पढ़ाई थी कि यदि तुम ऐसा कहते रहोगे, तो छूट जाओगे। परंतु इससे उनका अतली मतलब विश्वेश्वरनाथ को बचाना था; क्योंकि यदि दीवानजी अपना अपराध स्वीकार कर लेते, तो वह यह भी कह देते कि बैरिस्टर विश्वेश्वरनाथ ने भी जाली हस्ताक्षर बनाए हैं और अभी हाल ही में। ऐसी हालत में विश्वेश्वरनाथ का छूटना असंभव हो जाता। दीवानजी इतने उदार या इतने उल्लू न थे कि अपना अपराध स्वीकार करके स्वयं तो जेलखाने चले जाते और विश्वेश्वरनाथ को बचा देते। परंतु इसकी नौबत नहीं आई; बैरिस्टर्स ने दीवानजी को धोके में रक्खा और दीवानजी अंत तक यही कहते रहे कि वह निर्दोष हैं।



विश्वेश्वरनाथ के बरी होने के दूसरे ही दिन घनश्यामदास उनसे मिले। घनश्यामदास ने पूछा—अरे, यह तुम क्या कर बैठे थे?

विश्वेश्वरनाथ बोले—भई कुछ न पूछो, इस रूपए-रूपी राक्षस ने आँखों पर पट्टी बाँध दी थी।

घनश्याम—तो कुछ हाथ भी लगा?

विश्वेश्वरनाथ—अरे यार, आवरू बच गई, यही गनीमत समझो; मिला कुछ नहीं। पाँच हजार मिले थे, वह खर्च हो गए। और कुछ अपनी गाँठ से दे बैठा।

घनश्याम—मुझे आश्चर्य है कि दो हजार मासिक की आमदनी होने पर भी तुम्हें संतोष न हुआ!

विश्वेश्वरनाथ—क्या कहूँ, अब तोबा करता हूँ कि धन के लोभ में कभी न फँसूँगा। ईश्वर आराम से रोटी-कपड़ा दिए जाय, यही हज़ार न्यामत है।

वनश्याम—खैर, आज आपने यह तो जाना कि आराम से रोटी-कपड़ा मिलना भी एक न्यामत है।

विश्वेश्वरनाथ—है, और अवश्य है। संसार में यह बात बड़े भाग्यवान् ही को नसीब होती है।





## कर्तव्य-पालन

( १ )

सबेरे सात बजे का समय था । गंगा-तट पर स्नानार्थियों की खूब भीड़ थी । उसी समय एक व्यक्ति गंगाजली हाथ में लिए और बगल में पूजन का सामान दवाए घाट पर आया । इस व्यक्ति की आयु ३० वर्ष के लगभग होगी । शरीर सुदौल तथा सुदृढ़ था । वर्ण स्वच्छ गौर था । इस व्यक्ति को देखते ही तख्त पर बैठे हुए एक गंगापुत्र ने कहा—सदा जय रहै, भागीरथी सदा चोला प्रसन्न रखै; आश्रो भैया, आज तो बड़ी देर कर दी ।

वह व्यक्ति बोला—हाँ, कल रात को ज़रा थिएटर देखने चला गया था, इसी से देर हो गई । तुम जानो, जो आदमी दो-ढाई बजे सोवेगा, वह पाँच बजे कैसे उठ सकता है ?

गंगापुत्र दाँत निकालकर बोला—हाँ सरकार, यह बात तो वाजिबी है ।

उस व्यक्ति ने गंगाजली तथा पूजा की पोटली तख्त पर रख दी, और स्वयं भी उसी पर बैठते हुए बोला—ज़रा सुस्ता लूँ, तो स्नान करूँ । रात का जागना भी बड़ा बुरा होता है । अब इस समय यही जी चाहता है कि पड़के सो जाऊँ ।

गंगापुत्र—बिना पाँच-छः घंटे सोए नींद पूरी नहीं होती ।

वह व्यक्ति—हाँ, इस समय जी न-जाने कैसा हो रहा है ।

गंगापुत्र—हुकुम हो, तो ठंडाई बनाऊँ । ठंडाई से गरमी शांत हो जायगी ।

वह व्यक्ति—अब रहने दो, काहे को दिक्क होंगे ।

गंगापुत्र—इसमें दिक्क होने की कौन बात है मालिक, अभी सब लैस हुआ जाता है । चुटकी बजाते बनती है । आपका हुकम-भर होना चाहिए ।

वह व्यक्ति—तुम्हें कोई अड़चन न हो, तो बना लो ।

गंगापुत्र—वाह सरकार, आपके काम के लिये कभी अड़चन हो सकती है ? यह तो ज़रा-सी बात है, काम पड़े, तो तुम्हारे लिये प्राण तक हाज़िर हैं ।

इतना कहकर गंगापुत्र ने पुकारा—सुनुआ, सुनुआ रे ! एक ओर से आवाज़ आई—आए !

कुछ सेकिंदों में एक दस वर्ष का बालक दौड़ता हुआ आया, और गंगापुत्र से बोला—काहे वप्पा, का है ?

गंगापुत्र—है का, यहाँ काम कर बैठके, इधर-उधर मारा-मारा घूमताई ।

वह व्यक्ति—इसे कुछ पढ़ाते-लिखाते नहीं ?

गंगापुत्र—अरे सरकार, यह साला न पढ़े न लिखे, दिन-भर खेला करता है । जो कहो कि अच्छा भाई, न पढ़-लिख, न सही; घाट ही पर बैठ, सो भी नहीं करता । ससुरे ने नाकों दम कर रक्खा है ।

वह व्यक्ति—अभी बच्चा है, धीरे-धीरे घाट पर बैठने लगेगा । थोड़ा पढ़ लेता, तो अच्छा था ।

गंगापुत्र—जो साले के करम में वदा होगा, सो होगा । हमारी तो आप लोगों के चरशों में पार हो आई है, अब आगे यह जाने, इसका काम जाने ।

गंगापुत्र ने एक खारपट की दही धैली उठाई । उससे भाँग-इलायची, मिर्च-बादाम इत्यादि मसाला निकालकर लड्डके को दिया, और कहा—जाओ, भाँग धो लाओ । बादाम पढ़ते भिगो देना, जब तक भाँग धुलेगी, तब तक फूल जायेंगे । जा, कटपट घाना, नहीं तो रुंटे पढ़ेंगे ।

लड़का सब चीज़ें लेकर चला गया ।

वह व्यक्ति थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा । फिर बोला—आज-कल हिंदू-मुसलमानों में बड़ी तनातनी हो रही है ।

गंगापुत्र—हाँ सरकार, मियाँ भाई बैठे-बिठाए छेड़खानी करते हैं, यह अच्छी बात नहीं । हिंदू-जाति बड़ी गऊ-जाति है । ऐसी गमखोर जाति दूसरी नहीं है । हम लोग हैं, अपनी गंगा-माता की सेवा करते हैं । ठंडाई-बूटी छानी, मस्त पड़े हैं । आप लोगों की जय मना रहे हैं । न ऊधो का लेना, न माधो का देना । अब हम लोगों को छेड़ते हैं । सो हम भी जब तक गम खाते हैं, तभी तक । जिस दिन क्रोध आ गया, मियाँ लोग टका धरेंगे, पैसा उठावेंगे ।

वह व्यक्ति—हिंदू-मुसलमानों का आपस में लड़ना बड़ा बुरा है । यह ऐसी लड़ाई है कि इसमें जीते भी हार, और हारे तो हार हई है । क्या कहें, न-जाने हमारे देश पर किस पाप-ग्रह की कुदृष्टि पड़ी है ! लोग अपना हानि-लाभ नहीं समझते !

गंगापुत्र—न समझेंगे, तो पछुतायेंगे भी । हाँ मालिक, अपने गुलाम की यह बात याद रखिएगा—न समझेंगे, तो कपार पर हाथ धरके रोवेंगे ।

वह व्यक्ति—भला यह भी कोई बात है । एक जगह रहना, एक जगह बसना, फिर यह दशा कि एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हैं । राम-राम ! इस मूर्खता का भी कोई ठिकाना है ?

एक अन्य महाशय उसी स्थान के निकट दूसरे तख्त पर खड़े वस्त्र पहन रहे थे । उन्होंने इन दोनों का कथोपकथन सुनकर कहा—ये मुसलमान ही हैं, जो हिंदुओं के प्राण लेने पर उतारू हैं । हिंदू तो चींटी मारना भी पाप समझते हैं; वे किसी के प्राण क्या लेंगे ?

गंगापुत्र महाराज बोल उठे—सच है धर्मावतार ! हिंदू और चाहे जो करें, हत्या नहीं कर सकते ।

वह व्यक्ति बोला—करते क्यों नहीं, जहाँ हिंदुओं का दौंव जगत है, वहाँ हिंदू भी कर डालते हैं। पर इसनी बात अवश्य है कि हिंदू केवल क्षणिक क्रोध के वश होकर ऐसा करता है, और मुसलमान केवल इच्छा-मात्र उत्पन्न होने पर कर उठाता है।

गंगापुत्र—मुसलमान जितने निर्दयी होते हैं, उतना हिंदू नहीं हो सकता।

वह व्यक्ति—हाँ, इसमें कुछ सचाई अवश्य है। और इसका कारण केवल यह है कि मुसलमान मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी लोग अवश्य कुछ निर्दय होते हैं, चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुसलमान।

उसी समय लड़का टंडाई का सामान ठीक कर लाया। गंगापुत्र ने सिल सामने रखकर टंडाई घोटना शुरू कर दिया। टंडाई भी घोटते जाते थे और बातें भी करते जाते थे।

दूसरा व्यक्ति बोला—कुछ हो, पर यहाँ झगड़ा अवश्य होगा।

गंगापुत्र—होगा, तो बजेगी भी झूठ। आप लोगों ने आखिर किस दिन के लिये हम लोगों को माल खिला-खिलाकर पाला है? जिधर गंगामैया की जय कढ़कर घूम पढ़ेंगे, उधर मैदान साक़ हो जायगा। यहाँ क्या, यहाँ तो एक दिन मरना ही है।

पहला व्यक्ति—झगड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं। चाहे हिंदू मिटें, चाहे मुसलमान, है पुरी बात। देश की हानि दोनों तरफ़ से है। यही फ़ायदा है कि यह जाँघ खोलो तो लाज, यह जाँघ खोलो तो लाज। (एक टंडा साँस लेकर) न-जाने हमारे देश में कैसा दुर्गुद्विपाई है कि दौटी-दौटी बातें भी किसी की समझ में नहीं आती।

गंगापुत्र—समझ में इन मुसलमानों के नहीं आती, हिंदू तो सब समझते हैं।

यह बात सुनकर वे दोनों व्यक्ति हँस पड़े। पहला व्यक्ति हँसने के बाद गंभीर होकर बोला—यही तो यही इराराही है कि हिंदू मुसल-

मानों को सर्वथा दोषी समझते हैं और मुसलमान हिंदुओं को । वास्तविक बात क्या है, इसपर कोई ध्यान नहीं देता ।

कुछ देर तक इसी प्रकार की बातें होती रहीं । इसके पश्चात् गंगा-पुत्र ने कहा—सरकार, ठंडाई तैयार है ।

उस व्यक्ति ने ठंडाई पी और स्नान करने के लिये गंगा-तट पर चला गया ।

( २ )

पं० गंगाधर पांडेय एक अच्छे और सुशिक्षित आदमी हैं । बज़ाज़ी की दूकान करते हैं । अपने मुहल्ले में आदर-प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें व्यायाम का शौक बचपन ही से है । अतएव खूब बलवान् तथा हृष्ट-पुष्ट हैं । कुश्ती भी अच्छी लड़ते हैं, और लकड़ी चलाना भी जानते हैं । हृदय के उदार हैं, सबसे प्रेम-भाव से मिलते हैं । कट्टर हिंदू होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति इनके हृदय में द्वेष का लेश-मात्र नहीं है । इनके मुहल्ले में मुसलमानों के कई घर हैं । इन सबसे इनका मित्र-भाव है ।

प्रदोष-व्रत का दिन था । पांडेयजी प्रदोष का व्रत रखते थे, और उस दिन दूकान नहीं जाते थे । शाम को पूजन इत्यादि से निवृत्त होकर पांडेयजी अपनी बैठक में बैठे थे । उसी समय उनके पड़ोसी मियाँ हशमतअली उधर से निकले । उन्हें देखते ही पांडेयजी बोले—अजी शेर साहब, कहाँ चले ?

शेर साहब खड़े हो गए, बोले—ज़रा तफ़रीह ( मनोरंजन ) के लिये बाग़ की तरफ़ जा रहा हूँ ।

पांडेयजी—आहए, दो-चार मिनिट बैठिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा ।

“बेहतर है” कहकर शेर साहब बैठक में चले आए, और एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले—आज आप दूकान नहीं गए ?

पांडेयजी ने कहा—आज मैंने व्रत रक्खा था, जिसे आप लोग रोज़ा कहते हैं, इसीलिये नहीं गया ।

शेख साहब बोले—हाँ, ठीक है; आप शायद महीने में दो बार रोज़ा रखते हैं ?

पांडेयजी—जी हाँ । कहिए, शहर की क्या ख़बरें हैं ?

शेख साहब मुँह बनाकर बोले—ख़बरें क्या, हालत अच्छी नहीं है । रोज़-मर्रा तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ती हैं । कुछ बदमाश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू-मुसलमानों में झगड़ा हो जाय ।

पांडेयजी—यह बुरी बात है ।

शेख साहब—निहायत बुरी बात है । मगर किया क्या जाय, बदमाशों से कौन पेश पा सकता है ? खुदा अपना फ़ज़ल ( कृपा ) करे । बदमाशों को क्या, उन्हें न आवरु जाने का ख़ौफ़, न जेल जाने का डर । मुसीबत चाल-बच्चेदार भले आदमियों पर है । फ़साद बदमाश करते हैं और उसका ख़िमियाज़ा ( फल ) शरीकों को उठाना पड़ता है ।

पांडेयजी—मुसलमानों के इस बारे में कैसे ख़यालात है ?

शेख साहब—मुसलमानों ( भिन्न ) तरह के ख़यालात हैं । पंडितजी, यह बात याद रखिए, शरीक और बदमाश हर मज़हब और हर क़ौम में हैं । शरीक आदमी बुरी बात को हमेशा बुरा ही कहेगा, वह चाहे ज़िम क़ौम या फ़िरक़े का हो । याज़ हिंदू समझते हैं कि मुसलमानों का क़ौम-की-क़ौम बदमाश है, और हिंदुओं को आज़ार ( कष्ट ) पहुँचाने की कोशिश करती रहती है । यह उनकी शक्त-क़दमी है । इसी तरह कुछ मुसलमान हिंदुओं को अपना जानी-दुरमन समझते हैं । यह उनकी शक्तनी है । मगर उन्हें समझावे कौन ?

पांडेयजी—यह आप दुःख प्ररमाने हैं । मेरा भी ऐसा ही

मानों को सर्वथा दोषी समझते हैं और मुसलमान हिंदुओं को वास्तविक बात क्या है, इसपर कोई ध्यान नहीं देता ।

कुछ देर तक इसी प्रकार की बातें होती रहीं । इसके पश्चात् गंगा पुत्र ने कहा—सरकार, ठंडाई तैयार है ।

उस व्यक्ति ने ठंडाई पी और स्नान करने के लिये गंगा-तट पर चला गया ।

( २ )

पं० गंगाधर पांडेय एक अच्छे और सुशिक्षित आदमी हैं । बज़ाज़ी की दूकान करते हैं । अपने मुहल्ले में आदर-प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें व्यायाम का शौक बचपन ही से है । अतएव खूब चलवान् तथा हष्ट-पुष्ट हैं । कुश्ती भी अच्छी लड़ते हैं, और लकड़ी चलाना भी जानते हैं । हृदय के उदार हैं, सबसे प्रेम-भाव से मिलते हैं । कट्टर हिंदू होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति इनके हृदय में द्वेष का लेश-मात्र नहीं है । इनके मुहल्ले में मुसलमानों के कई घर हैं । इन सबसे इनका मित्र-भाव है ।

प्रदोष-व्रत का दिन था । पांडेयजी प्रदोष का व्रत रखते थे, और उस दिन दूकान नहीं जाते थे । शाम को पूजन इत्यादि में निवृत्त होकर पांडेयजी अपनी बैठक में बैठे थे । उसी समय उनके पड़ोसी मियाँ हशमतअली उधर से निकले । उन्हें देखते ही पांडेयजी बोले—अजा शेख साहय, कहाँ चले ?

शेख साहय खड़े हो गए । बोले—ज़रा तज़रीह ( मनोरंजन ) के लिये बाज़ार की तरफ़ जा रहा हूँ ।

पांडेयजी—आहूँ, दो-चार मिनट बैठिए, मैं भी आपके साथ आऊँगा ।

'शेखर दे' कहकर शेख साहय बैठक में चले आए, और एकादमी पर बैठते हुए बोले—आज आप दूकान नहीं गए ?

पांडेयजी ने कहा—आज मैंने व्रत रक्खा था, जिसे आप लोग रोज़ा कहते हैं, इसीलिये नहीं गया ।

शेख साहब बोले—हाँ, ठीक है; आप शायद महीने में दो चार रोज़ा रखते हैं ?

पांडेयजी—जी हाँ । कहिए, शहर की क्या ख़बरें हैं ?

शेख साहब मुँह बनाकर बोले—ख़बरें क्या, हालत अच्छी नहीं है । रोज़-मर्रा तरह-तरह की अक्रवाहें उड़ती हैं । कुछ बदमाश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू-मुसलमानों में झगड़ा हो जाय ।

पांडेयजी—यह बुरी बात है ।

शेख साहब—निहायत बुरी बात है । मगर किया क्या जाय, बदमाशों से कौन पेश पा सकता है ? खुदा अपना फ़ज़ल ( कृपा ) करे । बदमाशों को क्या, उन्हें न आवरु जाने का ख़ौफ़, न जेल जाने का डर । मुसीबत चाल-बचेदार भले आदमियों पर है । फ़साद बदमाश करते हैं और उसका ख़िमियाज़ा ( फल ) शरीफ़ों को उठाना पड़ता है ।

पांडेयजी—मुसलमानों के इस बारे में कैसे ख़यालात हैं ?

शेख साहब—मुसलमान ( भिन्न ) तरह के ख़यालात हैं । पंडितजी, यह बात याद रखिए, शरीफ़ और बदमाश हर मज़हब और हर क़ौम में हैं । शरीफ़ चाइमी बुरी बात को हमेशा चुग ही फहेगा, यह चाहे जिन क़ौम या क़िराते का हो । बाज़ हिंदू समझते हैं कि मुसलमानों का क़ौम-की-क़ौम बदमाश है, और हिंदुओं को आज़ार ( घट ) पहुँचाने की कोशिश करती रहती है । यह उनकी ग़लत-फ़हमी है । इसी तरह कुछ मुसलमान हिंदुओं को अपना जानी-पुरमान समझते हैं । यह उनकी ग़लती है । मगर उन्हें समझावे कौन !

पांडेयजी—यह आप मुझसे प्रश्न करते हैं । मेरा भी ऐसा ही



खयाल है। लेकिन एक बात गौर-तलब है। लड़ाई-भगड़े की आग कौन भड़काते हैं, इसका पता नहीं चलता।

शेख साहब—अजी, यह तो ज़ाहिर बात है कि मज़हबी तअस्सुब ही इन भगड़ों की बुनियाद है। हिंदू और मुसलमान, दोनों में ऐसे सैकड़ों आदमी मिलेंगे, जो इंतहा के तअस्सुबी हैं। तअस्सुब को ये लोग मज़हब का ज़ेवर समझते हैं। ये ही लोग भगड़ा-फ़साद कराने की कोशिश करते हैं।

पंडितजी—आखिर इससे उन्हें फ़ायदा ?

शेख साहब—फ़ायदा ? शेख सादी साहब का कौल याद कीजिए—

नेशे अकरब न अज़पए कीनस्त ;

मिक्कतिज़ाए तबीयतश ईनस्त ।

अर्थात् बिच्छू की तो डंक मारने की आदत होती है, उसे इससे क्या बहस कि किसी को तकलीफ़ पहुँचती है या आराम मिलता है ? यही हालत इन मुफ़सिदों ( भगड़ा करानेवालों ) की है। इनकी ख़सलत (स्वभाव) यही है कि बैठे-बिठाए आग भड़काना। अगर ये लोग ऐसा न करें, तो खाना हज़म न हो ;

शेख साहब की यह बात सुनकर पांडेयजी बहुत हँसे। शेख साहब भी कुछ मुसकिराते हुए बोले—वलाह, मैं सच कहता हूँ, आप इसे ख़िलाफ़ मत समझिए। मैं एक नहीं, बीस आदमी ऐसे बता सकता हूँ, जिनका रात-दिन यही काम है। जुमे के दिन मैं जामा-मसजिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। वहाँ देखता हूँ, अजीब-अजीब क्रिमाश के लोग जमा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे नमाज़-वमाज़ तो बराए-नाम पढ़ते हैं, हाँ मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश ख़ूब किया करते हैं।

पांडेयजी—हम हिंदुओं में भी ऐसे बहुत-से आदमी हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को भड़काते हैं।

शेख साहब—ज़रूर होंगे। मैंने अर्ज़ किया न कि ऐसे मुक़सिद आपको हर क़ौम में मिलेंगे। सो जनाव, करते थोड़े आदमी हैं, बदनाम कुल क़ौम होती है। और, ख़ता मुआफ़ कीजिएगा, लीडरों में भी ऐसे बहुत-से हैं, जो ख़्वाहमख़्वाह लोगों को जोश दिलाते हैं। कहने को तो हिंदू-मुसलिम-इत्तहाद ( एकता ) का कोशिश करते हैं, मगर लेक्चरों में ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं, जिससे बिला वजह दोनों क़ौमों एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़कती हैं।

पांडेयजी—आपका क़र्माना रुदुस्त है। मैंने भी कई बार इस बात को महसूस किया है।

शेख़ साहब—हमारे यहाँ मुस्लाम और आपके यहाँ पंडित लोग, इन्हीं की वजह से ज़ियादा फ़साद होता है। मुस्लाम लोगों की यह हालत है कि खुदा बचावे। ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं कि जुहला (सूर्य) लोगों में जोश पैदा होता है। जो आक्रिय (समझदार) हैं, वे कुछ धोखे नहीं सकते। कुछ कहें, तो झूठ से मुस्लाम साहब फ़तवा दे देते हैं कि यह फ़ाकिर है, सुरतिद है। लाचार खून पीकर रह जाना पड़ता है। जब झगड़ा होता है, तो मुस्लामों द्वारा (कोठरी) बंद करके बैठ रहते हैं।

पांडेयजी—बिलकुल सच है। ऐसी ही हालत है।

शेख़ साहब—जनाब, मैं तो इन बातों को पसंद नहीं करता। और, सुनी पर क्या फ़र्ज़ है, कोई भी शरीफ़ समझदार आदमी इन्हें पसंद न करेगा। हाँ, तो आप क्या चलेंगे? अगर न चले, तो मुझे दयाकर दीजिए।

पांडेयजी—चलता हूँ।

यह कहकर पांडेयजी ने शीशता-पूर्वक हस्त धरने, और शेख़ साहब के साथ हो लिए।

( ३ )

शेख साहब के मकान के सामने ज़रा कुछ हटकर एक पठान का मकान था। इनका नाम सश्रादतख़ाँ था। यह पढ़े-लिखे वाजिबी-ही-वाजिबी थे, मगर अक्वज नंबर के चलते-पुर्जे थे। इनकी विसातख़ाने की एक छोटी-सी दूकान थी। उसी से जीविका चलती थी। इनमें तअस्सुब कूट-कूटकर भरा हुआ था। यह व्यक्ति उन लोगों में से था, जो धर्म का अर्थ केवल विधर्मियों से घृणा करना समझते हैं। इनका एक जवान पुत्र भी था, जिसकी आयु २०-२२ वर्ष की होगी। इसका नाम रहमतअलीख़ाँ था। धार्मिक द्वेष में रहमतअली भी किसी प्रकार अपने पिता से कम न था। यह व्यक्ति भी सदैव हिंदुओं को वक्र दृष्टि से देखता रहता था।

रात के आठ बज चुके थे। पिता-पुत्र, दोनों बैठे भोजन कर रहे थे। सामने कुछ दूर पर पानदान सामने रखे रहमतअली की माँ पान लगा रही थी। पान लगाते हुए रहमतअली की माँ ने कहा—ऐ, यह तीन-चार रोज़ से कैसी ख़बरें उड़ रही हैं? कहते हैं, हिंदू-मुसलमानों में झगड़ा होगा।

रहमतअली बोल उठा—जो हिंदू झगड़े का काम करेंगे, तो ज़रूर झगड़ा होगा।

रहमतअली के पिता ने कहा—झगड़े की बातें तो कर ही रहे हैं। हिंदू अपनी शरारत से बाज़ नहीं आते। लिहाज़ा झगड़ा ज़रूर होगा।

रहमतअली की माँ ने कहा—जो झगड़े का ख़ौफ़ हो, तो इस मुहल्ले से कुछ दिनों के लिये टल जायँ। यहाँ हिंदुओं की आबादी ज़ियादा है। कहीं किसी वक्त निगोड़े इसल्ला न कर बैठें।

रहमतअली—हमला करना ख़ालाजी का घर नहीं है! दाँत खट्टे हो जायँगे! मुक्काबिला पड़े, तो हाल खुले। हिंदुओं को छठी का दूध-याद न आ जाय, तभी कहना।

सञ्चादतर्वाँ—हिंदुओं में इत्तिक्राक ( मेल ) तो है ही नहीं, हमला क्या ज्वाक करेंगे ? जिस वक्त क्कगड़ा हुआ, तो एक भी बाहर न दिखाई पड़ेगा, सब अपने-अपने दरवाजे बंद करके बैठ रहेंगे । निहायत बोदी क्रौम है ।

रहमतअली की माँ—लाख बोदी हो, मगर तादाद में तो ज़ियादा है । मसल मशहूर है कि दबने पर चींटी भी काट खाती है । दुश्मन से कभी वेज्रौक न रहना चाहिए ।

रहमतअली—हाँ, यह तो दुरुस्त है—“दुश्मन नातवाँ हकीर व बेचारा शूमर्दा ।” दुश्मन को कभी हकीर ( तुच्छ ) न समझना चाहिए ।

सञ्चादतर्वाँ—कल मेरी शेख हशमतअली से इसी वारे में गुफ्तगू हुई थी । अजीब क्रिमाश के आदमी हैं । मैंने तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा ।

रहमतअली की माँ—क्या कहते थे ?

सञ्चादतर्वाँ—बए तो यम, हर यात में यही कहते थे कि मिल-जुलकर रहना चाहिए ।

रहमतअली—अजी, आप भी किम काकिर को।यातें करते हैं । वह तो आधा हिंदू है । मरदूद जय देखो, हिंदुओंको हिमायत करता रहता है ।

सञ्चादतर्वाँ—हिंदुओं से उसका मेल-जोल भी झूथ है ।

रहमतअली—अजी, मैं तो ऐसे मेल-जोल पर लानत भेजता हूँ । हिंदू तौर मुसलमान या मेल हा क्या । हुआ ( कहीं ) ख्याही, कुजा मरशर्दा ।

रहमतअली की माँ—हमारे एदोन में जो पंडितजी रहने हैं, पर तो मछे कादनी है ।

रहमतअली—हाँ, ५० देगाघर ?

माँ—हाँ ।

( ३ )

शेख साहब के मकान के सामने ज़रा कुछ हटकर एक पठान का मकान था। इनका नाम सआदतख़ाँ था। यह पढ़े-लिखे वाजिबी-ही-वाजिबी थे, मगर अचल नंबर के चलते-पुर्जे थे। इनकी विसातख़ाने की एक छोटी-सी दूकान थी। उसी से जीविका चलती थी। इनमें तअरसुब कूट-कूटकर भरा हुआ था। यह व्यक्ति उन लोगों में से था, जो धर्म का अर्थ केवल विधर्मियों से घृणा करना समझते हैं। इनका एक जवान पुत्र भी था, जिसकी आयु २०-२२ वर्ष की होगी। इसका नाम रहमतअलीख़ाँ था। धार्मिक द्वेष में रहमतअली भी किसी प्रकार अपने पिता से कम न था। यह व्यक्ति भी सदैव हिंदुओं को बक्र दृष्टि से देखता रहता था।

रात के आठ बज चुके थे। पिता-पुत्र, दोनों बैठे भोजन कर रहे थे। सामने कुछ दूर पर पानदान सामने रखे रहमतअली की माँ पान लगा रही थी। पान लगाते हुए रहमतअली की माँ ने कहा—  
ऐ, यह तीन-चार रोज़ से कैसी ख़बरें उड़ रही हैं ? कहते हैं, हिंदू-मुसलमानों में झगड़ा होगा।

रहमतअली बोल उठा—जो हिंदू झगड़े का फ़ाम करेंगे, तो ज़रूर झगड़ा होगा।

रहमतअली के पिता ने कहा—झगड़े की बातें तो कर ही रहे हैं। हिंदू अपनी शरारत से बाज़ नहीं आते। लिहाज़ा झगड़ा ज़रूर होगा।

रहमतअली की माँ ने कहा—जो झगड़े का ख़ाँक हो, तो इस मुहल्ले में कुछ दिनों के लिये टल जायें। यहाँ हिंदुओं की आयादी ज़ियादा है। कहीं किसी बक्र निगोड़े हमला न कर दें।

रहमतअली—हमला करना ज़ावाज़ी का घर नहीं है ! दौत खटे हो जायेंगे ! मुक़ाबिला पड़े, तो हाल सुने। हिंदुओं को छुटी का दूध याद न आ जाय, तभी कहना।

सआदतख़ाँ—हिंदुओं में इत्तिक़ाक़ ( मेल ) तो है ही नहीं, हमला क्या ख़ाक़ करेंगे ? जिस वक्त्त भगड़ा हुआ, तो एक्क भी बाहर न दिखाई पड़ेगा, सब अपने-अपने दरवाज़े बंद करके बैठ रहेंगे । निहायत बोदी क़ौम है ।

रहमतअली की माँ—लाख बोदी हो, मगर तादाद में तो ज़ियादा हैं । मसल मशहूर है कि दबने पर चींटी भी काट खाती है । दुश्मन से कभी बैख़ौक़ न रहना चाहिए ।

रहमतअली—हाँ, यह तो दुरुस्त है—“दुश्मन नातवाँ हक़ीर व बेचारा शूमर्दा ।” दुश्मन को कभी हक़ीर ( तुच्छ ) न समझना चाहिए ।

सआदतख़ाँ—कल्ल मेरी शेख़ हशमतअली से इसी वारे में गुफ्तगू हुई थी । अजीब किमाश के आदमी हैं । मैंने तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा ।

रहमतअली की माँ—क्या कहते थे ?

सआदतख़ाँ—बह तो वस, हर बात में यही कहते थे कि मिल-जुलकर रहना चाहिए ।

रहमतअली—अजी, आप भी किस काफ़िर को वातें करते हैं । वह तो आधा, हिंदू है । मरदूद जब देखो, हिंदुओं की हिमायत करता रहता है ।

सआदतख़ाँ—हिंदुओं से उसका मेल-जोल भी ख़ूब है ।

रहमतअली—अजी, मैं तो ऐसे मेल-जोल पर लानत भेजता हूँ । हिंदू और मुसलमान का मेल ही क्या । कुजा ( कहाँ ) स्याही, कुजा सक़ैदी ।

रहमतअली की माँ—हमारे पड़ोस में जो पंडितजी रहते हैं, यह तो भले आदमी हैं ।

रहमतअली—कौन, पं० गंगाधर ?

माँ—हाँ ।

रहमत—भजे-वले कुछ नहीं हैं, सब स्याह-क़दव (कलुपित-हृदय) हैं। इन काफ़िरों का कोई एतवार नहीं।

सआदत—हशमतअली से उनकी राहोरस्म ख़ूब है।

रहमत—मैंने कहा न, वह तो आधा हिंदू है। अज्वाजान, कल मैं जामा-मसजिद गया था। वहाँ एक मौलवी साहब ने हिंदुओं के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बतलाईं कि ख़ूब जोश खाने लगा। बज्जाह, यही जी चाहता था कि इन वेदीनों से कोई तअरलुक़ न रखे। मुसलमानों को ये बड़ी हिक़ारत की नज़र से देखते हैं।

सआदत—यह बात तो ज़ाहिर है कि ये लोग हमारा छुआ हुआ नहीं खाते। हालाँकि सच पूछो, तो मुसलमानों को ही इनका छुआ न खाना चाहिए।

रहमत—मैं तो जब इन लोगों के इस बर्ताव पर ग़ौर करता हूँ, तो बेअख़्तियार तैश (क्रोध) आता है।

माँ—तू कहीं किसी से लड़ न बैठना। तुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आता है।

रहमत—अम्माँ, लड़ाई तो एक बार होगी, और ज़ुरुर होगी, यह रुक नहीं सकती।

मा—उई अल्लाह, बेटा, मेरे सामने लड़ाई-भगड़े का ज़िक़ मत करो, मेरा दम ख़ुशक़ होता है।

उसी समय रहमतअली की षोडशवर्षीया भगिनी उस स्थान पर आई। उसने पूछा—अम्मीजान, कहाँ लड़ाई होगी ?

माँ—लड़ाई-बड़ाई कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही बातचीत हो रही है।

कन्या—कल भाई साहब एक अख़बार लाए थे, मैंने उसमें पढ़ा था कि एक जगह—देखो, नाम याद नहीं आता—बड़ी लड़ाई हुई, हिंदू-मुसलमान आपस में कट मरे।

माँ—हुई होगी, तुझे इन भगड़ों से क्या मतलब ? आज अभी

तू सोई नहीं, और दिन तो चिराग जलते ही पलंग पर पहुँच जाती थी ?

कन्या ने कुछ लजाकर मुसकिराते हुए कहा—आज नींद नहीं आई।

माँ—तो जा, सो जाकर ।

कन्या—एक पान खिला दो, तो जाऊँ ।

माँ—दूर निगोड़ी, पान खाके सोएगो !

माँ ने एक पान लगाकर दे दिया । कन्या पान लेकर चली गई ।

उसके चले जाने पर माँ बोली—बेटा रहमत, तुम घर में ऐसे-वैसे अखबार मत लाया करो । कुलसूम ( कन्या का नाम ) पढ़ती है, इसका खून बड़ा हलका है, बड़ी जल्दी दहशत ( भय ) खा जाती है । देखा न, ज़रा कान में भनक पड़ गई, फ़ौरन दौड़ी आई ।

पिता-पुत्र दोनों भोजन करके उठे । माँ ने पुकारा—ऐ नसीबन, नसीबन ! सुई कहीं ग़ारत हो गई !

कन्या ने पूछा—क्या है अम्मीजान ?

माँ—यह नसीबन निगोड़ी कहाँ मर गई ?

कन्या—नसीबन तो यहाँ पड़ी खर्राटे ले रही है ।

माँ—लो, सुई को शाम ही से साँप सूँघ गया ! जगा दे मुरदार को । कुछ देर में नसीबन लौंठी आँखें मजती हुई आई । रहमत-अली की माँ बोली—ऐसी शाम ही से कहाँ की नींद फट पड़ी ? दिन-दिन शऊर को दीमक लगती जा रही है ?

नसीबन—मैं तो बीबी कुलसूम को कहानी सुना रही थी । सुनाते-सुनाते सो गई ।

माँ—जा, भटपट आप्रतावा और सिलफ़ूची लाकर हाथ धुवा ।

नसीबन ने जल लाकर पिता-पुत्र के हाथ धुलाए । हाथ धोकर दोनों ने पान खाए । पुत्र तो सोने के बिये अपनी शय्या पर चला गया, पिता वहीं खड़ा रहा । पुत्र के चले जाने पर पत्नी ने पति से



कहा—तुम ज़रा रहमत को दाये रहा करो । लड़का जन्मी  
 चिन्मी रोज़ किसी से लड़ बैठे, और इसे कुछ हो गया, तो मैं  
 जिंदा-दर-गोर हो जाऊँगी ।

सवादात—ऐसा बेजकूक थोड़े ही है, जो इवाइमइवाइ कि  
 मे लड़ बैठे ।

पत्नी—मुझे मैं थड़े-थड़े दाना ( बुद्धिमान् ) नादान बन जाते हैं  
 सुस्वा यहाँ दुरी बन्ना है, सुदा बचावे, इंसान थंधा हो जाता है  
 और, अकलाह जानता है, मुझे तो इन बातों से नकरत है । हिं  
 मुनअमान, दोनों सुदा के बंदे हैं । यह माना कि एक गुमरा  
 ( पथ-भ्रष्ट ) , तो इससे क्या होता है । जब सुदा ही ने हिंदु  
 को गुमराह पैदा किया है, तो बंदा क्या कर सकता है ? सुदायें  
 हाका मे सबसे जिये मजा व जजा मुकम्मल कर दी है । तब बंद  
 इवाइमइवाइ जयमें दयाल ऐस मनुइमार क्यों बने ?

सवादात—तुम औरत-जात इन दानी मयलों को क्या समझा ?

दोनों ओर ऐसे लोगों का आधिक्य था, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा तथा क्रोध की आग भड़काने में लगे हुए थे। रुई की आग की तरह यद्यपि बाहर से असंतोष तथा द्वेष के कोई स्पष्ट चिह्न प्रतीत नहीं होते थे, परंतु भीतर-ही-भीतर खूब आग फैल रही थी। मुसलमान हिंदुओं के और हिंदू मुसलमानों के रक्त के प्यासे हो रहे थे।

पं० गंगाधर उन इने-गिने आदमियों में से थे, जिन्हें धार्मिक द्वेष छू तक नहीं गया। जिस प्रकार वह मंदिर के अनादर को सहन नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार मसजिद के अनादर को भी। उनका सिद्धांत था कि सभी धर्मों में कुछ-न-कुछ सार अवश्य है। जो जिस धर्म में उत्पन्न हुआ है, उसे अपने ही धर्म में रहना और दूसरों के धर्म का आदर करना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता सबको समान रूप से प्राप्त रहनी चाहिए। जो धर्म दूसरे धर्म का अनादर करने की शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं, अधर्म है। जब कभी उनसे और किसी हिंदू से बातचीत होती और वह इनके सिद्धांत सुनता, तो यह समझता था कि पांडेयजी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। उनके मुँह पर तो नहीं, परंतु पीठ-पीछे लोग कह दिया करते थे—“आखिर मुसलमानों के पड़ोस में रहते हैं न, कहाँ तक प्रभाव न पड़े ! ऐसे ही लोग समय पड़ने पर चोटी कटाकर मुसलमान हो जाते हैं।” कभी-कभी पांडेयजी के कानों तक भी यह बात पहुँच जाती थी; परंतु वह सुन लेते थे और मुसिकिराकर चुप रह जाते थे।

एक दिन रात को मुहल्ले के तीन-चार आदमी पांडेयजी के मकान पर पहुँचे। उस समय वह भोजन करके कमरे में बैठे ‘लीडर’ पढ़ रहे थे। लोगों को देखते ही उन्होंने मुसकिराकर कहा—आइए, आज यह दल किधर भूल पड़ा ?

उनमें से एक बोला—आप ही के पास आए हैं !

पांडेयजी—कहिए, क्या आज्ञा है ?

पहला—बात यह है कि आजकल शहर की हालत जैसी है, वह आप जानते ही हैं ।

पांडेयजी—हाँ-हाँ ।

दूसरा—यह भी आपको ज्ञात है कि इस मुहल्ले में चार-पाँच घर मुसलमानों के भी हैं ।

पांडेयजी—हाँ-हाँ ।

पहला—तो ऐसी दशा में हम लोगों की रक्षा का क्या उपाय है ?

पांडेयजी मुसकिराए । उनके मुख पर कुछ घृणा का भाव उत्पन्न हुआ । कुछ देर तक चुप रहकर उन्होंने कहा—इस मुहल्ले में अधिकतर तो हिंदू ही हैं । यह आप मानते हैं न ?

पहला—हाँ, मानेंगे क्यों नहीं ।

पांडेयजी—तो ऐसी दशा में रक्षा का अधिक विचार मुसलमानों के हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि वे लोग कम हैं । आप लोग क्यों चिंता करते हैं ? आपका तो मुहल्ला ही है ।

दूसरा—अजी पांडेयजी, इन लोगों को आप जानते हैं, जहाँ एक ने अल्लाहोअकबर की आवाज़ लगाई, वहाँ चींटियों की तरह ताँता बँध जायगा । हम लोगों में से तो कोई घर के बाहर भी न निकलेगा ।

पांडेयजी—तो इसमें किसका अपराध है ? जब आप संख्या में अधिक होते हुए भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो मुसलमानों को दोष देना व्यर्थ है ।

तीसरा—हमारा अभिप्राय यह है कि आपका मुसलमानों से मेल-जोल अधिक है, इस कारण आप उनके इरादों को जानते होंगे । हम लोग तो इन यवनों से बात करना भी उचित नहीं समझते ।

पांडेयजी—आप लोग बात करना उचित समझते होते, तो आज यह नौबत ही क्यों आती ?

दूसरा—खैर, इससे कोई बहस नहीं। अब यह बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ?

पांडेयजी—मैं तो यह जानता हूँ कि आप लोग अपने-अपने घर में बैठें और अपनी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध रखें। स्वयं किसी पर आक्रमण करने का स्वप्न में भी विचार न करें। हाँ, यदि आप पर आक्रमण हो, तो उससे बचें, और समय पड़ने पर धैर्य तथा साहस के साथ एक दूसरे की सहायता करें। हिंदुओं में यह बड़ा भारी दोष है कि वे केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। यदि एक हिंदू पिट रहा है, तो दूसरा खड़ा-खड़ा देखेगा, उसकी सहायता कभी न करेगा। यह बुरी बात है। यही दशा देखकर दूसरों को हिंदुओं पर आक्रमण करने का साहस होता है।

इसी प्रकार समझा-बुझाकर पांडेयजी ने उन्हें विदा किया। दो-तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। एक दिन संध्या को सआदत-अलीख़ाँ के मकान से मिले हुए एक हिंदू के मकान में सत्यनारायण की कथा थी। अतएव शंख और घड़ियाल बजाना स्वाभाविक था। इस पर सआदतअलीख़ाँ ने आपत्ति की। परंतु उनकी बात पर किसी ने कान न दिया। यह देखकर उस समय तो वह चुप हो गए, पर दूसरे दिन शाम को दस-बारह लठ-बंद मुसलमान उस हिंदू के द्वार पर आकर जमा हो गए, और लगे गालियाँ बकने। वह बेचारा घर का द्वार बंद करके बैठ रहा। यह देखकर मुसलमान किवाड़े तोड़कर भीतर घुसने की चेष्टा करने लगे। इसकी सूचना पं० गंगाधर को मिली। यह सुनते ही वह घबरा उठे। उन्होंने तुरंत एक लाठी अपने हाथ में ली और एक अपने नौकर को, जो ठाकुर था, देकर उसे साथ लिया और निकल खड़े हुए। बाहर निकलकर उन्होंने पहले तो देखा

हि सेवा स्वयं करने दोसोजाने पर गाड़े है, और नीचे महादत्तों और तमना सबका मरदा है । महादत्तों सेवा स्वयं को मासियों दे रहे थे—अपने को काराकर, नीचे हतर, आत तुम्हें भी सिद्धियों के साथ बल्लुम पड़ेवा हूँ । अपने को मरदुद, अतरवा तमों नहीं ? तम देवो, हममभारा सिद्धियों की विमापन करवा था । तम शुद्ध विमत हो, तम मरों के मामने था ।

यह देव पर पहने को पादिकती ने एक तीर की आगाज कपारे कि सिद्धिभाइयो, तुम्हें तम नहीं जाती कि तुम्हारे एक भार्द के प्राण जंकल में हैं और तुम सब पक्षियों पहने तर में देवे हो । हममें तो तुम तमने ले हो । मर मर होके, तम अरुदा था । देवो, मैं तमों अरुदा हूँ । विपकी यावा हो, मेरे पाड़े तमने ।

यह कहकर पादिकती अपने नीचे सदित तमने बले । पहने महादत्तों म मरुभेद हूँ । पादिकती ने कहा—महादत्तों, सेवा स्वयं को तमों मासियों देवे हो ? तमका क्या कर्म ? तो मरु कदवा

निकाली, और 'खबरदार' कहकर एक हलका-सा हाथ जो मारा, तो रहमतअली मुँह के बल ज़मीन पर आ रहा।

पांडेयजी सआदतख़ाँ से बोले—आपने इस लौड़े को बड़ा गुस्ताख़ बना रक्खा है। अपने बड़ों से भी गुस्ताख़ी करता है। इतना सुनते ही सब मुसलमान क्रोधांध होकर पांडेयजी पर दूट पड़े। खटाखट-खटाखट के अतिरिक्त न तो कुछ सुनाई पड़ता था और न कुछ दिखाई। पाँच मिनट तक यही दशा रही। पाँच मिनट बाद अन्य मुसलमान तो भाग खड़े हुए, केवल सआदतख़ाँ और रहमतअलीख़ाँ भूमि पर पड़े कराह रहे थे। पांडेयजी के सिर से भी रक्त बह रहा था, और उनके नौकर के भी चोट लगी थी।

पांडेयजी उन दोनों को वहाँ छोड़कर चले आए। घर आकर उन्होंने अपना सिर धोया और पट्टी बाँधी। नौकर ने भी अपने घाव धोकर पट्टी बाँध ली।

बीस मिनट बाद ही फिर शोर मचा। पांडेयजी ने नौकर से कहा—मालूम होता है, मुसलमान फिर आ गए। यह कहकर उन्होंने फिर लाठी उठाई। नौकर भी अपनी लाठी लेकर साथ चला।

घटना-स्थल पर पहुँचे, तो देखा, सआदतख़ाँ शोर मचा रहा है। पांडेयजी को देखते ही बोला—पंडितजी, खुदा के लिये मेरी आबरू बचाइए। आपके जाते ही दस-बारह हिंदू लाठी लेकर आए। पहले मुझे और मेरे लड़के को मारा, अब मेरे घर में घुस गए हैं—मेरे घर की औरतों को वेइज़्ज़त कर रहे हैं।

यह सुनते ही पांडेयजी की आँखों-तले अँधेरा छा गया। वह तुरंत सआदतख़ाँ के घर में घुसे। उन्होंने देखा, सआदतख़ाँ की पत्नी को दो-तीन हिंदू पकड़े खड़े हैं, और एक व्यक्ति उनकी युवती कन्या को पकड़कर घसीट रहा है।

यह देखते ही पांडेयजी ने गर्जकर कहा—कायरो, यह क्या करते

हो ? जब तुम्हारे बाप आए थे, तब तो सब अपनी-अपनी जोरुझों के लहँगों में घुसे बैठे रहे, और अब उसे निस्सहाय पाकर यह अत्याचार कर रहे हो ? अलग हटो, नहीं मारे लाठियों के सबकी खोपड़ी तोड़ दूँगा ।

पांडेयजी गर्जना सुनते ही लोगों ने भयभीत होकर स्त्रियों को छोड़ दिया । एक हिंदू-युवक आगे बढ़कर बोला—इन मुसलमानों ने हमारे एक भाई के घर में घुसकर औरतों को बेइज्जत करना चाहा था, तो हम भी क्यों न वैसा ही करें ?

पांडेयजी पुनः गर्जकर बोले—उस समय तुम सब कहाँ मर गये थे ? उनको परास्त करके ऐसा करते, तो कुछ वीरता भी थी । और, यदि मुसलमान जहन्नुम में जायँ, तो तुम भी क्या उनके साथ जाओगे ? एक सच्चे हिंदू का यह कर्तव्य नहीं कि निस्सहाय मर्द पर भी ऐसा अत्याचार करे, न कि अबलाओं पर । स्त्रियाँ, बच्चे और देवस्थान, ये सबके बराबर हैं । इन पर जो अत्याचार करता है, वह कायर है, नारकी है, चाहे वह किसी भी जाति का हो । स्त्री किसी भी जाति की हो, वह सदैव अबला है । प्रत्येक पुरुष को उसकी रक्षा करनी चाहिए । बच्चा किसी भी क्रौंस का हो, सदैव दया के योग्य है । इन पर अत्याचार करनेवाला मनुष्य नहीं, दैत्य है, पिशाच है, पशु है ।

कहते-कहते पांडेयजी के मुँह में फेना आ गया । एक हिंदू ने पुनः साहस करके कहा—आप इस ऋगढ़े में न पड़िए, अपने घर जाइए, हम लोग जैसा उचित समझेंगे, वैसा करेंगे ।

पांडेयजी की आँखों से खून बरसने लगा । उन्होंने दाँत पीसकर कहा—जब तक मेरी लाश न गिरेगी, तब तक तुम इन स्त्रियों के हाथ नहीं लगाने पाओगे । एक पाप तो तुमने यह किया कि पर्दानशीन स्त्रियों के आकर हाथ लगाया । अब दूसरा पाप नहीं करने पाओगे । नामदों, तुम्हें उचितानुचित का ज्ञान है कहीं ? उचितान-

सुचित का ज्ञान होता, तो लहंगे पहनकर घर में घुसे बैठे रहते ! तुम्हारे-जैसे ही जनानों ने हिंदू-जाति को बदनाम किया, और मुसलमानों का साहस बढ़ाया । पुरखों के सामने तो निकलते नानी मरती थी, अब स्त्रियों को अपनी वीरता दिखाने आए हो ? जाओ, गंगा में जाकर डूब मरो ! तुम लोगों के मरने से हिंदू-जाति साफ़ हो जायगी । फिर एक हिंदू ने कहा—मुसलमान हमारी माँ-बेटियों को बेइज़्जत करते हैं । आप उनको यह व्याख्यान क्यों नहीं सुनाते ?

पांडेयजी—मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं से कहने का मेरा अधिकार है । इसके अतिरिक्त, मूर्खों, तुम मुसलमानों के अवगुणों की नक़ल करते हो ? यदि नक़ल करना है, तो उनमें निर्भयता, साहस, संगठन आदि जो गुण हैं, उनको नक़ल करो । परंतु यह तो म्याऊँ का ठौर है न, उसे कैसे कर सकते हो ! अबलाओं और बच्चों को मुलायम चारा पाया, इसलिये इस बात में भूट मुसलमानों की नक़ल करने दौड़े । बस, मैं कहता हूँ, चुपचाप चले जाओ, अन्यथा एक-एक को गिन-गिनकर यहीं सुला दूँगा ।

यह कहकर पांडेयजी ने लाठी घुमाई । यह देखते ही सब हिंदू घबराकर वहाँ से हटे, और बाहर चले आए । सआदतख़ाँ भी पांडेयजी के पीछे-पीछे चला आया था, और एक खंभे की आड़ में खड़ा होकर यह सब लीला देख रहा था । जब हिंदू चले गए, तो पांडेयजी ने सआदतख़ाँ की पत्नी से कहा—वहन, तुम बेख़ौफ़ होकर बैठो । मेरे रहते तुम पर कभी आँच न आने पावेगी । हम मर्द-मर्द आपस में लड़ें या कटें; पर तुम्हारी हिफ़ाज़त अपनी जान देकर करेंगे ।

सआदतख़ाँ की पत्नी ने रोते हुए कहा—मैया, मैं हमेशा इनको मना करती रही कि हिंदुओं से दुश्मनी क्यों मोल लेते हो ? सब खुदा के वंदे हैं । मगर इन्होंने न माना । आज तुम न आ जाते, तो हमारी आबरू जाने में वाक़ी ही क्या रह गया था !



पांडेयजी नेत्रों में आँसू भरकर बोले—बहन, मैं अच्छी तरह यकीन करता हूँ कि तुमने ज़रूर इनको मना किया होगा। औरतों का दिल ही ऐसा होता है। वे कभी लड़ाई-भगड़ा पसंद नहीं करतीं। वे हमेशा अमन चाहती हैं। उनका दिल इतना सख्त कभी नहीं हो सकता कि वे खून-खराबी देख सकें। ऐसे औसाफ़ (गुण) रखने-वाली औरत पर जो ज़ुल्म करे, वह संगसार (पत्थरों से मार डाले जाने) करने के काबिल है।

सआदतख़ाँ खंभे की आड़ से निकलकर पांडेयजी के चरणों पर गिर पड़ा, और रोते हुए बोला—पंडितजी, मेरी ख़ता सुआफ़ कीजिए। मैं नहीं जानता था कि आपका दिल इतना बसीअ (विशाल) है। आप इंसान नहीं, फ़रिश्ते हैं।

पांडेयजी उसे उठाकर बोले—सआदतख़ाँ, तुमने अपने नाजायज़ तअस्सुब की वजह से इतना तूल दे दिया। तुम्हारे ही-जैसे हिंदू-मुसलमान फ़साद कराते हैं, और बदनाम कुल क़ौम होती है। तुम्हारे पड़ोसी शेख़ साहब भी तो मुसलमान हैं, और तुमसे ज़ियादा उन्हें अपने मज़हबी असूलों की मालूमात है। मगर उनका वर्ताव देखो। हिंदू-मुसलमानों से एक तरीक़े पर मिलते हैं; मज़हबी इस्लामाफ़ (प्रभेद) कभी ज़ाहिर ही नहीं होता। तुमने बड़ी नादानी की थी। ख़ैर “रसीदः बूद बलाए वले बख़ैर गुज़शत।” अब इस तअस्सुब को छोड़ो, और सबसे मुहबबत का वर्ताव करो।

उसी समय शेख़ साहब भी आ गए, और सआदतख़ाँ से बोले—ख़ाँ साहब, आज देखा तुमने, इसी वजह से मैं हिंदुओं की हिमायत करता था। मैं जानता हूँ, हिंदुओं में भी शरीफ़ और फरिश्ता-ख़सलत (देव-तुल्य) इंसान मौजूद हैं, और मुसलमानों में भी शयातीन (पिशाच) भरे हैं। आज यह न होते, तो तुम्हारी आबरू पर पानी फिर जाता।

सआदतख़ाँ ने कहा—मैं आज से तोबा करता हूँ । कभी हिंदुओं से तअस्सुब न रक्खूँगा ।

यह कहकर सआदतख़ाँ पांडेयजी से लिपट गया, और बोला—  
पंडितजी, आज से आप मेरे भाई हैं ।

पांडेयजी मुसक़िराकर बोले—मैं तो तुम्हें हमेशा भाई समझता रहा । शुक्र है, आज तुमने भी भाई को पहचान लिया । मैंने कोई एहसान नहीं, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है ।

---

## ईश्वर का डर

( १ )

ठाकुर चंदनसिंह दस मौजों के ज़मींदार हैं। उनकी ज़मींदारी उनके निवास-ग्राम के चारों ओर के ग्रामों में है। अतएव छः-सात कोस के हर्द-गिर्द उनका पूरा राज्य है। ठाकुर चंदनसिंह वैसे ही ज़मींदार हैं जिन्होंने सहृदयता तथा मनुष्यत्व का मूल्य समझनेवालों के हृदयों में ज़मींदारों के प्रति घृणा-पूर्ण विरोध का भाव उत्पन्न कर दिया है। वह गरीब प्रजा का रक्त चूसना ज़मींदारी का भूषण समझते हैं। अनुचित बेगार लेना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है। साधारण सड़ी-सी बात पर दीन-दुखियों को पिटवा देना उनके लिये एक ज़मींदारी शान है। जो ग्राम उनकी ज़मींदारी में नहीं हैं, उनकी प्रजा भी उनसे थर-थर काँपती है। क्या मजाल कि ठाकुर चंदनसिंह के प्रतिकूल कोई चूँ तक कर सके !

दोपहर का समय था। ठाकुर चंदनसिंह अपने पक्के मकान की चौपाल में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनके पास उनके दो-चार मुसाहब भी बैठे थे। उसी समय एक कृषक एक उजली मिरज़ाई पहने, एक मोटी सफ़ेद धोती ( जो घुटनों के कुछ ही नीचे तक थी ) तथा सिर पर एक धुला कपड़ा लपेटे ठाकुर के सामने आया, और बोला—  
“जुहार मलिकौ !” ठाकुर साहब ने केवल ज़रा यों ही सिर हिला दिया। कृषक एक ओर भूमि पर बैठ गया। ठाकुर साहब कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। सत्पश्चात् बोले—“कौन है रे ?”

कृषक बोला—सरकार मैं तो आपका अहीर हूँ, कालका।

ठाकुर साहब बोले—कालका है—हूँ—अब तो पहचान ही नहीं पड़ता। बहुत दिनों में दिखाई पड़ा। कहाँ था ?

कालका—मालिक, सहर चला गया था । साल-भर वहीं रहा ।

ठाकुर—शहर में क्या करता रहा ?

कालका—नौकरी करता हूँ ।

ठाकुर—काहे में नौकर है ।

कालका—डेरी फ़ारम में ?

ठाकुर—क्या सरकारी डेरी फ़ारम में ?

कालका—नहीं मालिक, एक महाजनी डेरी फ़ारम है ।

ठाकुर चंदनसिंह 'हूँ' करके चुप हो गए । उनके माथे पर बल पड़-  
गए । थोड़ी देर तक चुपचाप हुक्का पीते रहे । फिर बोले—सुनो-  
कालका, आज तो हम तुम्हें छोड़े देते हैं, पर अब जो कभी हमारे  
सामने यह ठाठ बनाकर आए, तो ठीक न होगा । जैसे हो वैसे ही रहना-  
ठीक है ।

कालका काँप उठा । उसे स्वप्न में भी यह आशा न थी कि ठाकुर  
साहब को उसके इन साधारण कपड़ों में भी ठाटकी कलक दिखाई  
पड़ेगी । उसने सोचा, यहाँ से टल जाना ही अच्छा है । यह सोच वह  
'जुहार' करके वहाँ से चलता बना ।

उसके चले जाने पर ठाकुर चंदनसिंह बोले—मालूम होता है,  
इसने शहर में रहकर माल पैदा किया है । बाप की तो गोबर ढोते-  
ढोते उमर बीत गई, और साबित लँगोटी तक न जुड़ी !

एक मुसाहब, जिसका नाम सुघरसिंह था, योला—मालिक, इसने  
रुपया कमाया है । अभी उस रोज़ एक सत्तर रुपए की भैंस मोल  
ली है । तकिए के मेले से एक जोड़ी बैलों की भी लाया है ।

ठाकुर चंदनसिंह बोले—हाँ ?

सुघरसिंह—मैं आपसे झूठ थोड़े ही कहता हूँ ।

ठाकुर चंदनसिंह बोले—इतना माल पैदा किया, और हमें दो  
रुपए नज़र तक के न दिए !

एक दूसरा मुसाहब बोला—सरकार, यह मोटा हो गया है । नीच जाति के पास जहाँ चार पैसे हुए, वहाँ फिर वह अँगूठों के बल चलने लगता है । कहावत ही है “गगरी दाना, सूद उताना ।”

ठाकुर चंदनसिंह ‘हूँ’ करके कुछ सोचते रहे ।

दूसरे दिन ठाकुर साहब ने उसी गाँव के, जिसमें कालिका अहीर रहता था, एक ब्राह्मण को बुलाया, और उसको अलग ले जाकर कुछ देर तक बातें करते रहे । बातें कर चुकने पर उससे बोले—अच्छा, जाओ । पर देखो महाराज, जैसा कहा है, उसमें फ़रक न पड़े । नहीं तो चूतड़ कटवा दूँगा । यह याद रखना !

ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बोले—नहीं मालिक, फ़रक कैसे पड़ सकता है ।

इसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक आदमी ठाकुर साहब के पास आया । ठाकुर साहब शौच से निवृत्त होकर बैठे दतून कर रहे थे । वह व्यक्ति ठाकुर साहब से बोला—सुना, नरायनपुर में कल रात को विंदा महाराज के यहाँ चोरी हो गई है ।

ठाकुर साहब लापरवाही से बोले—हो ससुर गई होगी, अपने से क्या । देहात में चोरी-चकारी हुआ ही करती है ।

वह व्यक्ति बोला—कुछ इत्ना-सा सुना है । ठीक पता नहीं, क्या बात है ।

ठाकुर साहब ने कुछ उत्तर न दिया । एक घंटे के बाद विंदा महाराज ‘हाय-हूय’ करते हुए आए । दूर ही से बोले—दोहाई है सरकार की ! गरीब ब्राह्मण लुट गया । आपके राज में ऐसा कभी नहीं हुआ ।

यह वही ब्राह्मण देवता थे, जिनसे ठाकुर साहब ने एकांत में बातें की थीं ।

ठाकुर साहब बोले—अरे हुआ क्या ?’

ब्राह्मण देवता आँसू पोछते हुए बोले—सरकार, लुटिया-थाली सब चली गई। मैं तो, सरकार, मर गया। पेट काट-काटकर बाल-बच्चों के लिये जो कुछ जोड़ा था, सब चला गया !

ठाकुर साहब—क्या हुआ ? चोरी हो गई क्या ?

विदा—हाँ सरकार, सब चला गया। महाराजिन के पाल जो सौ-पचास रुपए का गहना था, वह भी चला गया !

ठाकुर साहब—यह तो बड़ी बेजा बात हुई। तुम्हारा किसी पर संदेह है ?

विदा—अब बिना देखे किसको कहूँ सरकार। हाँ, ढकना चमार कहता है कि रात के दस बजे जब वह पेशाब करने उठा था, तो उसने कालका अहीर को एक आदमी के साथ कुछ खुसुर-पुसुर करते देखा था।

ठाकुर साहब—कौन कालका !

विदा—वही सधुवा का लड़का, जो अभी थोड़े दिन हुए आया है, शहर में नौकरी करता है।

ठाकुर साहब—अरे, वह तो बेचारा बड़ा भला आदमी है। वह ऐसा काम नहीं कर सकता।

विदा—सरकार, यही तो मैं भी कहता हूँ।

ठाकुर साहब बोले—मगर यह भी हम नहीं कह सकते कि यह उसका काम नहीं है। किसी के पेट का क्या पता ! अच्छा, ढकना चमार को बुलाओ तो।

उसी समय एक गुड़ैत दौड़ाया गया। वह ढकना चमार को बुला लाया।

ठाकुर साहब ने पूछा—क्यों रे ढकना, क्या बात है ? ठीक-ठीक कह :

ढकना बोला—सरकार, बात यह है कि कल रात के कोई दस

बजे हों चाहे ग्यारह, बस, ऐसा ही बखत होगा, तब मैं पेसाब करने को उठा। पेसाब करके जब लौटने लगा, तो मैंने बिंदा महाराज के घर के पास दो आदमियों को खड़े कुछ बातें करते देखा ! बस, सरकार, मैंने खखारा। मेरा खखारना सुनकर वे दोनों चुप हो गए, और वहाँ से चल दिए। मैंने पूछा—कौन है ? इस पर वे न बोले ! तब फिर मैंने डाँटकर पूछा—कौन जाता है ? बोलता नहीं ? तब सरकार एक बोला—हम तो कालका हैं। बस, सरकार, फिर मैं घर में जाकर सो रहा। सबेरे उठकर सुना कि बिंदा महाराज के यहाँ चोरी हो गई। इतनी बात, जो मैंने आँखों से देखी, वही इनसे भी कह दी। और कुछ मैं जानता-वानता नहीं।

ठाकुर साहब कुछ देर तक सोचकर बोले—सबूत तो पूरा है। अच्छा, कालका को बुलवाओ।

तुरंत आदमी गया, और कालका को बुला लाया। साथ में कालका का वृद्ध पिता सधुवा भी लाठी टेकता हुआ आया।

ठाकुर चंदनसिंह ने उससे कहा—कल रात को बिंदा महाराज के यहाँ चोरी हो गई है।

कालका बोला—हाँ मालिक, सबेरे मैंने भी हज्जा सुना था। वड़ा गज़ब हुआ।

ठाकुर—कल रात को तुम कहाँ थे ?

कालका कुछ भयभीत होकर बोला—कल तो, मालिक, मैं घर ही पर था।

कालका का पिता सधुवा बोल उठा—सरकार, यह तो कल साँक ही से खा-पीकर सा गया था।

ठाकुर साहब ने कहा—कल रात को ग्यारह बजे लोगों ने तुम्हें बिंदा महाराज के घर के पास एक आदमी से यातें फरते देखा था।

कालका अधिकतर भयभीत होकर बोला—कितने ? मुझे ? अरे नहीं सरकार, मैं तो कल रात को पेशाब करने तक नहीं उठा ।

सधुवा बोला—कौन ससुर कहता है ?

ठाकुर साहब ने कहा—यह ढकना चमार कहता है ।

सधुवा ने ढकना की ओर देखकर पूछा—क्यों रे, क्या कहता है ?

ढकना चुप खड़ा रहा । कुछ उत्तर नहीं दिया ।

ठाकुर साहब ने ढकना से कहा—अबे, जो देखा है, सो कहता क्यों नहीं ?

ठाकुर साहब ने गुप्त रूप से ढकना पर एक तीव्र दृष्टि डाली ।

ढकना ने कहा—सरकार, कालका को एक आदमी से बातें करते देखा था ।

ठाकुर साहब—कहाँ देखा था ?

ढकना—विंदा महाराज के घर के पास ।

सधुवा ढकना को गाली देकर बोला—अपना सिर देखा था । साले को दिन में तो सूझता नहीं, रात को देखा था । क्यों भैया, हमने तुम्हारे साथ कौन दगा की है ? एक तो मेरा बच्चा गाँव छोड़े परदेस में पड़ा है । चार दिन की खातिर घर आया है, तो अब यह पाप लगाओगे । अरे ज़रा भगवान् को डरो । ऐसा अंधेर न करो !

ढकना फिर चुप हो गया । उसके मुँह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं ।

ठाकुर साहब ने उसे फिर घूरा । वह बोला—भैया, जो देखा, सो कह दिया । पाप तो हम कितना को लगाते नहीं ।

सधुवा बोला—पाप नहीं लगाते, तो करते क्या हो ? मुँह पर खड़े सरासर झूठ बोल रहे हो, और ऊपर से लड़ते हो, पाप नहीं लगाता ।

ठाकुर साहब ने कहा—अच्छा ज़रै, इस झगड़े से क्या मतलब । धाने में रपट हो जानी चाहिए । धानेदार आप पता लगा लेंगे ।



सधुवा बोला—मालिक का बेटा जिए । बस, यह ठीक है । जो चोर हो, सो डरे । जब कर नहीं, तो डर काहे का ।

( २ )

थाने में सूचना दे दी गई । दूसरे दिन थानेदार घोड़े पर सवार होकर दो सिपाहियों को साथ लिए हुए आ धमके । पहले ठाकुर साहब से मिले । ठाकुर साहब ने उन्हें एकांत में ले जाकर बातचीत की । थानेदार ने पूछा—कहिए सरकार, मामला क्या है ?

ठाकुर साहब बोले—मामला क्या, आपकी पाँचों घी में है ।

थानेदार साहब की चालें खिल गईं । बोले—सच ?

ठाकुर साहब बोले—भूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं ।

थानेदार—कौन है ?

ठाकुर साहब—सधुवा अहीर का लड़का, कालका अहीर ।

थानेदार—चोरी बिंदा महाराज के यहाँ हुई है ?

ठाकुर साहब—चोरी किस सुसरे के हुई है । यह सब आपकी ख़ातिर है ।

थानेदार—आपके भरोसे तो हम यहाँ जंगल में पड़े ही हैं । नहीं तो यहाँ धरा क्या है । हाँ, यह तो यताइए, कुछ सबूत भी हैं ?

ठाकुर साहब—एक चमार कहता है कि उसने रात को कालका को बिंदा महाराज के घर के पास एक आदमी से बातें करते देखा था । तलाशी लेने के लिये दृटना ही काफ़ी है ।

यह कहकर ठाकुर साहब हँसने लगे ।

थानेदार साहब बोले—फिर क्या है, कहाँ जाता है । हाँ, य गो यताइए, कालका के पक्षे भी कुछ है ?

ठाकुर साहब—आप तो यच्चों की-सी बातें करते हैं । पक्षे न

होता, तो यह सब बाँधनू बाँधने की आवश्यकता ही क्या थी। आपने मुझे कोई लौंढा समझ रक्खा है।

थानेदार साहब दाँतों-तले जीभ दवाकर बोले—आप हमारे मालिक हैं। हम भला ऐसा समझ सकते हैं !

कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार की बातें करते रहे। इसके बाद ठाकुर साहब बोले—अब आप जाइए। ढकना चमार के बयान पर कालका के यहाँ तलाशी लीजिए।

यह कहकर ठाकुर साहब ने कुर्ते की जेब से दो चाँदी के गहने निकाले, और थानेदार साहब के हाथ में देकर कहा—लीजिए, यह तलाशी के लिये मसाला।

थानेदार साहब ने मुसकिराकर दोनों गहने जेब में रख लिए। फिर उठकर बोले—अच्छा, तो जाता हूँ।

ठाकुर साहब—हाँ, जाइए।

थानेदार साहब नरायनपुर चले गए।

दो घंटे के बाद थानेदार साहब लौटे। आगे-आगे थानेदार साहब थे, और पीछे दोनों सिपाही कालका की कमर में रस्ती बाँधे उसे ला रहे थे। हाथों में हथकड़ियाँ पढ़ा हुई थीं। पीछे कालका का पिता सधुवा रोता हुआ आ रहा था। साथ में चार-छः आदमी और भा थे।

थानेदार साहब ने सब हाल कहा, और दोनों गहने ठाकुर साहब के सामने रख दिए।

ठाकुर साहब सब देख-सुनकर बोले—थानेदार साहब, कालका बेचारा बड़ा भला आदमी है। उसने ऐसा काम कैसे किया, कुछ समझ में नहीं आता।

थानेदार बोला—समझ में आवे या न आवे, इसको क्या करें ? जब सुबूत सामने रक्खा है, तब कानूनी काररवाई करने ही पड़ेगी।

ठाकुर साहब—हाँ, यह तो ठीक ही है; पर इतना मैं कह सकता हूँ कि यह कालका का काम नहीं है ।

सधुवा रोता हुआ बोला—मालिक, दूधों नहायँ, पूतों फलें । मालिक ने सच्ची बात कही । मेरा बच्चा यह काम नहीं कर सकता । इन गाँववाले सालों ने दशा की है । भगवान् करे, उन पर गाज गिरे ! सालों के यहाँ कोई रोने-धोनेवाला न रहे । जैसे मेरे बच्चे को फँसवाया है, भगवान् देखनेवाला है ।

यह कहकर सधुवा फूट-फूटकर रोने लगा ।

ठाकुर साहब ने सधुवा को बुलाया—यहाँ तो आ रे ।

सधुवा पास आया । ठाकुर साहब उसे अलग ले जाकर बोले—सधुवा, यह हमें विश्वास है कि यह काम कालका का नहीं है । पर जब तलाशी में गहने निकले हैं, तो अब बिना सज़ा पाए नहीं बचेगा । लंबी सज़ा होगी ।

सधुवा बोला—अरे मालिक, ऐसा न कहो । मेरा बुढ़ापा बिगड़ जायगा । बे-मौत मर जाऊँगा । कोई उपाव करो । जो कुछ खर्च पड़ेगा, मैं दूँगा । वकील-वालिस्टर की फीस जो पड़ेगी, दूँगा । अपनी लुटिया-थाली बेच डालूँगा । बच्चा बना रहेगा, तो तुम्हारी गुलामी करके बहुत कमा लेगा ।”

ठाकुर साहब बोले—तो हमारी सलाह मानो । कचहरी-अदालत का झगड़ा न रखो । वहाँ न-जाने चित पड़े या पट । थानेदार को को यहीं कुछ दे-लेकर मामला रफ़ा-दफ़ा कर डालो ।

सधुवा—थानेदार मान जायँगे ?

ठाकुर साहब—मानेंगे क्यों नहीं ? हम कहेंगे, तो मान जायँगे ।

सधुवा—ऐसा करा देव, तो मालिक, मैं जनम-भर गुन मानूँगा ।

ठाकुर साहब—अच्छी बात है ।

यह कहकर ठाकुर साहब थानेदार को अलग ले गए। कहा—  
सब ठीक है। कितना दिखवाऊँ ?

थानेदार—जो आपकी परवरिश हो। मुझे क्या, जो कुछ भी  
मिल जायगा, वही बहुत है।

ठाकुर साहब—अच्छी बात है।

ठाकुर साहब ने सधुवा को बुलाकर, कहा—तीन सौ रुपए  
माँगते हैं।

सधुवा—मालिक, इतना तो मेरे किए न होगा, मर जाऊँगा।  
बहुत गरीब आदमी हूँ।

ठाकुर साहब—इससे कम में राजा न होंगे।

सधुवा—नहीं मालिक, ऐसा न कहो। आप सब कुछ कर  
सकते हैं।

ठाकुर—तो तुम क्या दे सकते हो, वह भी तो बताओ ? यह  
समझ लेना कि अदालत में भी तुम्हारे तीन-चार सौ रुपए खर्च हो  
जायेंगे, और फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि छूट ही जायगा।  
छूटे-न-छूटे। कौन जाने। हाकिम को क्या जानें क्या समझ में आवे।

सधुवा—तो सरकार, आधे पर मामला तय करा दो।

ठाकुर—डेढ़ सौ पर ?

सधुवा—हाँ मालिक, यह भा पेट मसोसकर जब बैल-बधिया  
चेचूँगा, तब होगा। क्या करें, भाग फूट गया, बैठे-बिठाए ढाँड़ देना  
पड़ रहा है। कलेजा नुचा खाता है। इन गाँववालों की.....न-  
जाने सालों ने कस का बैर चुकाया।

ठाकुर साहब ने कहा—अच्छा, देखो कहता हूँ, जो मान जायँ।

इसी प्रकार ठाकुर साहब ने दो-तीन बार दूधर-ठधर करके  
दो सौ में क़ैसला किया। सधुवा से बोले—थानेदार साहब दो सौ  
से कम पर किसी तरह राजी नहीं होते।

सधुवा—तो जैसा सरकार कहें ।

ठाकुर—रुहना क्या है, देशो । पचास रुपए की तो बात ही है । सब मामला यहीं रफ़ा-दफ़ा हुआ जाता है ।

सधुवा उसी समय घर दौड़ा हुआ गया । लौटकर उसने डेढ़ सौ रुपए ठाकुर साहब के हाथ में धरे । रुपए देते समय उसकी बुरी दशा थी । मानों अपने पुत्र को बचाने के लिये अपना कलेजा निकालकर दे रहा हो ।

ठाकुर—ये तो डेढ़ ही सौ हैं ।

सधुवा—हाँ मालिक, इतने ही थे । पचास तुम अपने पास से दे दो । चाहे फ़सल पर सूद-ब्याज लगाकर ले लोना, और चाहे मेरी भैंस सत्तर रुपए कां हैं, वह ले लो । रुपए तो और हैं नहीं ।

ठाकुर—अच्छी बात है ।

ठाकुर साहब ने थानेदार को अलग ले जाकर पचास रुपए थमाए, और बोले—गरीब आदमी है । इससे अधिक नहीं दे सकता ।

थानेदार साहब ने कौन गेहूँ बेचे थे । इतने भी उन्हें ठाकुर साहब की कृपा से पड़े मिले । अतएव उन्होंने धन्यवाद-पूर्वक रुपए ले लिए । कालका उसी समय छोड़ दिया गया ।

अधिकांश लोगों ने यही समझा कि कालका दोषी था पर ठाकुर साहब की कृपा से छूट गया । जो समझदार थे, और जिन्होंने कुछ समझा, वे भी चुप रहने के सिवा और क्या कर सकते थे । किसकी मजाल थी कि ठाकुर साहब और थानेदार के विरुद्ध कुछ कह सके ।

( ३ )

रात को सधुवा, कालका तथा गाँव के दो-चार अन्य आदमी सधुवा की चौपाल में बैठे बातें कर रहे थे । एक आदमी कह रहा था—भैया, नाक-नाक बढ़ता हूँ, यह सब चाल ठाकुर साहब की ही है । न कहीं योगी हूँ, न चयारी ।

कालका—अब उनका दीन-ईमान जाने, हमारी तो लोटा-थाली विक गई । काहे ननकू काका, बेजा कहता हूँ ?

ननकू—नहीं बबुआ, बेजा क्या है । अरे, सब गाँव जानता है जैसे ठाकुर साहब हैं । पर क्या किया जाय, जबरदस्त का ठंगा सिर पर ! यही ठाकुर साहब हैं, पर साल हमें बुलाया, और बोले—कहो ननकू, अब कुछ रुपए-उपए नहीं लेते । मालूम होता है, बड़े मालदार हां गए हो । मैंने कहा—मालिक, करज लेने का वृत्ता नहीं है । लेना सहज है, पर देना कठिन पड़ जाता है । बोले—इतना कमाते हो, कुछ हमें भा तो दिया करो । मैं कुछ नहीं बोला । दूसरे दिन गाँववालों ने कहा—ठाकुर साहब से कुछ करज ले लेश्रो, नहीं तो किसी इज्जत में फँसा देंगे । तब भैया पचीस रुपए उनसे लिए । इकती रुपए का व्याज देता हूँ ।

कालका—तो बिना जरूरत ले लिए ?

ननकू—क्या करें बबुआ, डेढ़ रुपया महीना उन्हें बैठे-बिठाए देते हैं । न दें, तो भला कल से बैठने पावें ?

दूसरा व्यक्ति बोला—ननकू भैया, तुम्हारा हाल जाना हो या न हो, अभी त्यौरस ऐसे ही कलुआ बाछी से कहा था । उसने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया । बस, तीसरे ही दिन रात को मारा खेत उजाड़ दिया; रात-भर में मच वाली काट ली गई, खाली पौदे टूट-पुमे खड़े रह गए ! कलुआ बहुत दौड़ा-धूपा, रपोटकी, पर कुछ न हुआ । पता ही न लगा । शरीर पेट नसोसकर रह गया । बाई-तीन सौ रुपए के मारे गई ।

मधुवा एक लंघी साँस खींचकर बोला—एक-न-एक दिन भगवान् गरीबों की सुनेंगे ही ।

ननकू—अरे, जब सुनेंगे तब; अभी तो सबको परे टाल रहे हैं । न किसी को खाते देख सकें, न पहनते ! हमारे काका जब इनके पाम

जाते हैं, तो फटी लँगोटी लगाकर । उनका कहना है कि जहाँ ठाकुर साहब ने किसान के पास साबुत कपड़े देखे कि बस, उन्होंने समझा, इसके पास माल हो गया है, नोचो साले को ।

कालका—भला इनसे कोई खुस भी है ?

ननकू—खुस कोई नहीं । इन गुनों से कौन खुस होगा । किसी को छोड़ा हो तब न !

कालका—कोई खुस नहीं, तब भी यह हाल है ? बुरा न मानना ननकू काका, अभी ये बातें करते हो, मगर अभी जो ठाकुर कहें, तो तुम्हीं हमारा गला काटने को तैयार हो जाओ ।

दूसरा व्यक्ति बोला—भैया, क्या करें, कुछ खुसी से थोड़े ही ऐसा करते हैं । डर के मारे करना पड़ता है । न करें, तो घर न फूँक दिया जाय !

ननकू—यही बात है भैया, अपनी जान और माल सबको प्यारा होता है । इसी खातिर सब करते हैं ।

सधुवा—कबहुँ तो दीनदयाल के भनक परैगी कान । कभी तो भगवान् शरीबों की सुनेंगे !

ननकू—परसाल ठाकुर ने भट्टा लगवाया था । आस-पास के गाँवों के दस-बीस आदमी पकड़ बुलाए जाते थे । दिन-भर काम कराते थे, और साँझ को आठ पैसे देते थे । तुम्हीं बताओ, आठ पैसे में कौन दिन-भर खुसी से मरने जाता था ? पर क्या करें, सब करना पड़ता था ।

दूसरा व्यक्ति—हाँ भैया, ऐसी ही बात है । दिन-भर जी तोड़कर काम करते थे, फिर भी ठाकुर की निगाह टेढ़ी ही रहती थी । एक दिन मैंने कहा—‘मालिक, चार दिन की छुट्टी दे दो, तो खेत सींच लें, सूखे जा रहे हैं ।’ बोले—‘खेतों में आग लगा दो । हमारा काम हो जायगा, तब अपना काम करने पाओगे ।’ मैं चुप हो गया ।

और कुछ कहता, तो मार पड़ती। फिर यही हुआ कि अपने काम के लिये पाँच आने रोज़ का मजूर रखना पड़ा। दो आने हमें मिलते थे, और पाँच आने हम देते थे।

कालका—भट्टा काहे को लगवाया था ?

वही व्यक्ति—जो सिवाला बनवाया है, उसी के लिये भट्टा लगवाया था।

कालका—गरीबों का गला छाटकर सिवाला बनवाने में कौन पुन्न है ?

ननकू—अब यह उनसे कौन पूछे ?

वही व्यक्ति—भैया की बातें ! इतना पूछना तो बड़ा काम है। जरा-जरा-सी बातों में तो पीठ की खाल उड़ा दी जाती है। इतना जो कोई कह दे, उनसे न सही, किसी दूसरे ही से कहे, और वह सुन पावे, तो खोदके गड़वा दें। दिखगी थोड़े है। छोटे-मोटे ज़मींदारों की तो मजाल ही नहीं कि उनकी बात को दुलखें, फिर किसान बेचारे किस गिनती में हैं।

सधुवा—भैया, हमारे तो सब करम हो गए। आयरु-की-आयरु गई, और माल गया घाते में।

ननकू—माल तो, हाँ, गया ही, पर आयरु जाने की कोई बात नहीं। गाँव-भर समझ गया है कि यह ठाकुर साहब की गदंत थी।

कालका—हाँ सब जान भले गए हैं, पर कहने-सुनने को तो हो गया। वह जो कहते हैं कि 'धाली फूटी या न फूटी, कनकार तो हुई'।

सधुवा—जो कुछ पड़े था, वह चला गया, ऊपर से ठाकुर साहब के पचास रुपए के कर्ज़दार हो गए। भैंस पर ठाकुर का दाँत है। सो भैंस तो हम दिवाल हैं नहीं, रुपया और व्याज दे देंगे।

ननकू—यही तुम्हारा भूल है। भैंस दे देंगे, तो नजे में रहोगे।



ठाकुर का कर्ज रखना ठीक नहीं । क्यों भाई रामचरन, झूठ कहता हूँ ?

रामचरन, जिसे हम अभी तक 'वही व्यक्ति' लिखते आए हैं, बोला—यह बात तो ननकू भाई की मोलहो आने ठीक है । जनम-भर देते रहोगे, तब भी ठाकुर से उरिन नहीं हो पाओगे । समझे माधू भाई ? भैंस दे डालो । तुम्हारी जिंदगी है, तो भैंस ससुरी पचास हो जायँगी । कंचना अहिर के बाप ने ठाकुर से पंद्रह रुपए लिए थे । पाँच बरस तक बाप देते-देते मर गया, और चार बरस से कंचना दे रहा है, फिर भी पाँच रुपए बकाया में चुसेड़े बैठे हैं । हर फसल में ब्याज दिया जाता रहा, और दो-तीन रुपए असल में, फिर भी अभी तक रुपए नहीं पटे ।

कालका—तो किसी हिसाब ही से लेते होंगे ।

रामचरन—हिसाब-किताब कुछ नहीं । जो वह ठीक समझें, वही हिसाब है । इसके सिवा न कोई हिसाब है न किताब ! त्योंस साल कंचना ने कहा—मालिक, मेरे हिसाब से तो रुपए आपके अब अदा हो गए । ठाकुर बोले—अभी आठ रुपए बाकी हैं । कंचना बोला—नहीं मालिक, अब तो एक पैसा नहीं रहा । बस, ठाकुर आग हो गया । बोला—मार तो साले के पचास जूते । साला हमें बेईमान बनाता है । उसो बखत दस-पंद्रह जूते बेचारे के पड़ गए । फिर ठाकुर बोले—अब साले, तुम्हे दस देने पड़ेंगे । दो रुपया जरीमाना किया । बेचारा भाड़-पोंछ के चला आया । अब वही दस अदा कर रहा है ।

कालका—फिर ननकू काका, तुमने ठाकुर से पचीस रुपए काहे को लिए ?

ननकू—तो बबुआ, कुछ अदा करने के लिये थोड़े लिए हैं । खाली डेढ़ रुपया महीना ब्याज दे देता हूँ । असल में एक पैसा

नहीं देता, और न कभी दूँगा। जब ठाकुर आप अचल में माँगेंगे, तो एकदम पचोस रूप फँक दूँगा। दो-दो, चार-चार करके तो इन्हें कभी दे ही नहीं; नहीं तो जनम-भर नहीं पढ़ेंगे। कुछ-न-कुछ बाकी लगी ही रहेगी। हमने तो समझ लिया है कि जहाँ अपने बाल-बच्चों के लिये कमाते हैं, वहाँ डेढ़ रूप महीना देकर ठाकुर का भी मुँह झुलसते रहेंगे।

( ४ )

यदि लोगों से पूछा जाय कि संसार में पाप कौन अधिक करता है, तो अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे कि निर्धन आदमी। परंतु यदि हमसे पूछा जाय, तो हम यही कहेंगे कि धनी आदमी जितना पाप करता है, उसका दशांश भी निर्धन आदमी नहीं करता। यदि औसत निकाला जाय, तो वेईमानों, व्यभिचारियों, चोरों, झूठों और बदमाशों की अधिक संख्या धनाढ्यों में हा मिलेगी। धनी आदमी का पाप करने का अवसर जैसे आसानी से मिल जाता है, वैसे निर्धन को नहीं। पाप करने के लिये जितना साहस धनी के हृदय में होता है, उतना निर्धन के हृदय में नहीं। और, जितना जल्दी निर्धन का पाप प्रकट हो जाता है, उतनी जल्दी बड़े आदमी का नहीं। छोटे आदमी पर लोगों को जल्दी संदेह होता है, और इसलिये उसका पाप प्रकट हो जाता है। पाप प्रकट हो जाने पर निर्धन के पास अपने को निर्दोष प्रमाणित करने का कोई साधन नहीं रहता, इस कारण यह शीघ्र दंड पा जाता है। इसके प्रतिकूल, धनी बड़े आदमी पर संदेह करने का साहस लोगों में बहुत कम होता है, इसलिये उसका पाप प्रकट नहीं होता। यदि प्रकट भी हो गया, तो धन के बल से यह प्रायः उसके लिये दंड पाने से बच जाता है। धनी-बनों ऐसा भी होता है कि बड़े आदमियों के पाप के लिये छोटे आदमी दंड पाते हैं, और बड़े आदमी सारा बच जाते हैं।

पूर्वोक्त घटना हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया ।

शाम का समय था । सधुवा एक नीम के वृक्ष के तले बैठा तंबाकू पी रहा था । गाँव के दो-चार आदमी उसके पास बैठे हुए थे । उसी समय एक आदमी घबराया हुआ आया, और सधुवा से बोला—काका, बड़ा ग़ज़ब हो गया ।

सधुवा बोला—क्या हुआ ?

वह बोला—सिवदीन मर गया ।

सधुवा ने चकित होकर पूछा—मर गया ?

वह बोला—हाँ ।

सधुवा—कैसे ? मरे तो अच्छा-भला काम पर गया था !

वह—ठाकुर ने मरवा डाला ।

सधुवा—एँ ! तू बकता क्या है ?

वह—बकता नहीं, ठीक कहता हूँ !

सधुवा—कैसे मरवा डाला ?

वही व्यक्ति—वह काम कर रहा था । इतने में उसे प्यास लगी । वह पानी पीने गया । पानी के बाद थोड़ी देर बैठा रहा । इतने में ठाकुर उधर आ निकले । उन्होंने डाँटकर कहा—क्यों रे, बैठा क्या करता है, काम नहीं करता । सिवदिनवा बोला—मालिक, अभी-अभी पानी पीने को आया था । अब जाता हूँ । ठाकुर बोले—उठ जल्दी । उसने कहा—मालिक अभी जाता हूँ, जरा सुस्ता लूँ ! इतना सुनते ही ठाकुर ने एक लात मारी, और कहा—साले, सुस्ताने आया है या काम करने ? बस, इतना सुनना था कि सिवदिनवा बोला—वह क्या बोला, उसके सिर पर मौत खेलती थी, उसीने बुलवाया—मालिक दिन-भर तो काम किया । हम भी आदमी हैं, कोई जानवर नहीं हैं । ऐसी मजूरी हमें नहीं करनी । कल से हम नहीं आवेंगे । और कोई आदमी ढूँढ़ लेना । यह कहकर वह

उठ खड़ा हुआ । इतना सुनते ही ठाकुर का मुँह लाल हो गया । उन्होंने न श्राव देखा न ताव, तब से एक डंडा मार ही तो दिया । डंडा खाकर सिवदिनवा बोला—बस मालिक, श्राव न मारना, नहीं अच्छा न होगा । बस काका, ठाकुर का मुँह अंगारा हो गया । उन्होंने उसी वक्त एक गुदैंत को बुलाया, और कहा—मारो साले को, खून मारो । गुदैंत डंडा लेकर जुट गया । उसे किस बात का डर था । जब ठाकुर सामने खड़े कह रहे थे, तब डर काहे का । उसने तीन-चार लाठियाँ जो मारों, तो बस काका, सिवदिनवा पत्थर गया । उसने श्राँखें फाड़ दीं, फिर भी ठाकुर बोले—साला ढोंग करता है । मारे जाओ । गुदैंत ने तीन-चार लाठियाँ और मारों । बस, गरीब सिवदिनवा के परान निकल गए ।

सधुवा—फिर क्या हुआ ?

बही—हुआ क्या । उसी घसत उधर से लछमोपुर के जमींदार अपने गाँव जा रहे थे । शहर से दो बजेवाली गाड़ी में आए थे । हल्ला जो हुआ, तो वह भी उतर पड़े । उन्होंने जब देखा कि सिवदिनवा मर गया, तो उसी घसत थाने पर रपोट फरवाई । उनकी और ठाकुर चंदनसिंह की तो लाग-ढाँट चला ही खानी है । थानेदार आए । जमींदार ने अपने सामने गुदैंत के यथान लिखाए । गुदैंत ने कह दिया कि 'पहले ठाकुर ने श्राव मारा, फिर मुझसे मारने को कहा । मैंने भी दो-तीन लाठियाँ मारों । बस, मर गया !' अब लहाम थाने पर गई है ! ठाकुर चंदनसिंह और गुदैंत भी पकड़े गए हैं !

सधुवा—यह तो दशा गजब हुआ । अब ठाकुर बिना सजा जाए नहीं पड़ेंगे ।

एक दूसरा आदमी बोला—भगवान् ने गरीबों की मुल ली । बड़ा सत्यात सचा रसना था । ठाकुर गरीबों को मारे दाखना था । सब पाए वा पहा पृटा है ।

पूर्वोक्त घटना हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया ।

शाम का समय था । सधुवा एक नीम के वृक्ष के तले बैठा तंबाकू पी रहा था । गाँव के दो-चार आदमी उसके पास बैठे हुए थे । उसी समय एक आदमी घबराया हुआ आया, और सधुवा से बोला—काका, बड़ा ग़ज़ब हो गया ।

सधुवा बोला—क्या हुआ ?

वह बोला—मिन्दीन मर गया ।

सधुवा ने चकित होकर पूछा—मर गया ?

वह बोला—हाँ ।

सधुवा—कैसे ? नवेरे तो अच्छा-भला काम पर गया था !

वह—ठाकुर ने मरवा डाला ।

सधुवा—ऐं ! तू बकता क्या है ?

वह—बकता नहीं, ठीक कहता हूँ ।

सधुवा—कैसे मरवा डाला ?

यही व्यक्ति—वह काम कर रहा था । इतने में उसे प्यास लगी । वह पानी पीने गया । पानी के बाद थोड़ी देर बैठा रहा । इतने में ठाकुर उभर आ निकले । उन्होंने डाँटकर कहा—क्यों रे, बैठा क्या करता है, काम नहीं करता । मिन्दीनवा बोला—माजिक, अभी-अभी पानी पीने को आया था । थक जाता हूँ । ठाकुर बोले—उठ जाओ । उसने कहा—माजिक अभी जाता हूँ, जरा गुमना लो । इतना सुनते ही ठाकुर ने एक लात मारी, और कहा—यादो, मुस्ताने काया है या काम करने ? यम, इतना सुनना था कि मिन्दीनवा बोला—यह क्या बोलता, उसके गिर पर मौत भोजनी थी, उसीने बुलवाया—माजिक दिन-भर जो काम किया । हम भी आदमी हैं, कोई जानकर नहीं है । ऐसी मर्गी हमें नहीं करनी । कल के हम नहीं आयेगे । और कोई आदमी हूँ बोलना । यह कहकर वह

उठ खड़ा हुआ । इतना सुनते ही ठाकुर का मुँह लाल हो गया । उन्होंने न आव देखा न ताव, तड़ से एक डंडा मार ही तो दिया । डंडा खाकर सिवदिनवा बोला—बस मालिक, अब न मारना, नहीं अच्छा न होगा । बस काका, ठाकुर का मुँह अंगारा हो गया । उन्होंने उसी वक्त एक गुड़ैत को बुलाया, और कहा—मारो साले को, खूब मारो । गुड़ैत डंडा लेकर जुट गया । उसे किस बात का डर था । जब ठाकुर सामने खड़े कह रहे थे, तब डर काहे का । उसने तीन-चार लाठियाँ जो मारों, तो बस काका, सिवदिनवा पसर गया । उसने आँखें फाड़ दीं, फिर भी ठाकुर बोले—साला ढोंग करता है । मारे जाओ । गुड़ैत ने तीन-चार लाठियाँ और मारीं । बस, गरीब सिवदिनवा के परान निकल गए ।

सधुवा—फिर क्या हुआ ?

वही—हुआ क्या । उसी बखत उधर से लछमोपुर के ज़मींदार अपने गाँव जा रहे थे । शहर से दो बजेवाली गाड़ी में आए थे । हल्ला जो हुआ, तो वह भी उतर पड़े । उन्होंने जब देखा कि सिवदिनवा मर गया, तो उसी बखत थाने पर रपोट करवाई । उनकी और ठाकुर चंदनसिंह की तो लाग-डॉट चली ही आती है । थानेदार आए । ज़मींदार ने अपने सामने गुड़ैत के बयान लिवाए । गुड़ैत ने कह दिया कि 'पहले ठाकुर ने आप मारा, फिर मुझसे मारने को कहा । मैंने भी दो-तीन लाठियाँ मारीं । बस, मर गया !' अब लहास थाने पर गई है ! ठाकुर चंदनसिंह और गुड़ैत भी पकड़े गए हैं !

सधुवा—यह तो बड़ा गजब हुआ । अब ठाकुर बिना सजा खाए नहीं बचेंगे ।

एक दूसरा आदमी बोला—भगवान् ने गरीबों की सुन ली । बड़ा उत्पात मचा रक्खा था । ठाकुर गरीबों को मारे डालता था । अब पाप का घड़ा फूटा है ।

इस घटना से आस-पास बड़ी सनसनी फैली। परंतु सब प्रसन्न थे। इधर कुछ दिनों से ठाकुर साहब और थानेदार में भी लाग-डाँट हो गई थी। उसने जी खोलकर ठाकुर साहब को फाँसने की चेष्टा शुरू कर दी। लक्ष्मीपुर के ज़मींदार गजराजसिंह और धंद नसिंह में काफ़ी शत्रुता थी। कई बार मुक़द्दमेबाज़ी भी हो चुकी थी। इस कारण उनकी गवाही अधिक ज़ोरदार न थी। पुलिस ने आस-पास के गाँवों के किसानों को गवाही में लेना शुरू किया, और बहुत-से सच्चे-भूटे गवाह तैयार कर लिए। ठाकुर साहब से सब जलते ही थे, अतएव जिनके सामने यह घटना हुई थी, वे तो तैयार ही हो गए, परंतु जो वहाँ उपस्थित न थे, वे भी भूठी गवाही देने को तैयार हो गए। सधुवा पर भी पुलिस का ज़ोर पड़ा ! इधर गाँववालों ने भी कड़ा—तुरहारे साथ भी तो ठाकुर ने कुछ नहीं उठा रखा था। शय बद्ला लेने का समय आ गया है। कम-से-कम कालेपानी तो भिजवाओ।

सधुवा ने बहुत कुछ वचना चाहा—बोला, “भूटा गवाही तो हम न देंगे”, पर उसकी एक न चली। थानेदार ने श्रॉंछें नीली-पीली करके कहा—सुनता है वे, तुम्हें गवाही देनी ही पड़ेगी। चों-चपड़ करेगा, तो तुम्हें भी चार साल की भिजवाऊँगा।

सधुवा ने विवश होकर स्वीकार कर लिया।

ठीक समय पर मुक़द्दमा पेश हुआ। पुलिस ने गवाहों को सिखाया था कि कहना, ठाकुर और गुद्वैत, दोनों ने मिलकर मारा है। ठाकुर टंटे से पीट रहे थे, और गुद्वैत लाठी से।

इधर सधुवा ने कालका से कहा था—बबुआ, भूटा गवाही देना बड़ा पाव है, फिर मृत के सामने में। पर पुलिस नहीं मानती।

कालका ने कहा—चाचा, भूटा-गवाही न देखो। हमने हमारे

साथ कौन नेकी की है ? गवाही जरूर दो । बात तो ठीक हुई है, फिर पाप-पुण्य काहे का ।

सधुवा—ठीक तो है, पर वहाँ तो कहना पड़ेगा कि हमने अपनी आँखों से देखा है । मैं तो उस बखत वहाँ था नहीं ।

कालका—इस सोच-विचार में न पड़ो । सब ठीक है । ऐसे के साथ ऐसा ही करना चाहिए ।

सब गवाहों ने वैसा ही कहा, जैसा कि पुलीस ने सिखाया था । जब सधुवा की बारी आई, तब उसका सारा शरीर काँप रहा था । जब उससे प्रश्न किया गया, तो वह बोला—हजूर, मैं उस बखत वहाँ नहीं, अपने गाँव में था । मुझे नहीं मालूम, किसने मारा । हाँ, मैंने यह जरूर सुना कि ठाकुर ने सिवदीन को गुद्वैत से पिटवाया था ।

मैजिस्ट्रेट—गुद्वैत से पिटवाया, और खुद भी मारा ?

सधुवा—नहीं हजूर, खुद तो खाली दो-एक डंडे मारे थे । उनकी मार से यह नहीं मरा, मरा गुद्वैत की मारे से ।

मैजिस्ट्रेट—तुम वहाँ मौजूद था ?

सधुवा—नहीं सरकार, मैंने सुना था ।

मैजिस्ट्रेट—किससे सुना ?

सधुवा—गाँव के सब आदमी यही कहते थे ।

मैजिस्ट्रेट को यह बात जँच गई कि सधुवा सच्ची गवाही दे रहा है । उन्होंने ठाकुर साहब को तीन वरस की सख्त कैद की सज़ा और गुद्वैत को सेशन-सिपुर्द कर दिया ।

\*

\*

\*

जेब जाते समय ठाकुर साहब ने सधुवा को अपने पास बुलाया, और रोते हुए कहा—मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था, उसे भूलकर तुमने मेरे साथ यह नेकी की है । इसे मैं जन्म-भर नहीं भूलूँगा । सधुवा, तूने गरीब होते हुए भी यह दिखा दिया कि संसार में सच्चे



और ईश्वर से डरनेवाले मनुष्यों का अभाव नहीं। भाई, मेरा अपराध क्षमा करना।

सधुवा की आँखों से भी अश्रु-पात होने लगा। उसने गद्गद कंठ से कहा—मालिक, भगवान् आपका भला करें।

सधुवा लौटकर गाँव नहीं गया। वह शहर में अपने पुत्र ही के पास रहने लगा।

दूसरे दिन चंदनसिंह के पुत्र सधुवा के पास पहुँचे, और उन्होंने उससे नामने एक हजार रुपए की थैली रख दी। सधुवा चकित होकर बोला—यह क्या? चंदनसिंह के पुत्र ने कहा—पिताजी ने ये रुपए तुम्हें दिलवाए हैं।

सधुवा बोला—बबुआ, क्या ठाकुर यह समझे कि मैंने पए के लोभ से सच्ची बात कही? राम-राम! बबुआ, जो कुछ मैंने किया, वह भगवान् के डर से। मुझे रुपए-पैसे की जरूरत नहीं। इन्हें ले जाओ।

चंदनसिंह के पुत्र ने बहुत कुछ कहा, पर सधुवा ने एक पैसा न लिया। उसकी उस सचाई का कारण केवल ईश्वर का डर था।





